



H8  
31/1/88

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26, 1988 (अग्रहायण 5, 1910)  
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26, 1988 (AGRAHAYANA 5, 1910)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टी आदि से संबंधित अधिसूचनाएँ  
(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers Issued by the  
Ministry of Defence)

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1988

सं० 1802, दिनांक 31-10-1988—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय सवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिद मेधा के निम्नलिखित ग्रेड "क" अधिकारियों को 11-1-1989 तक या नामावली (पैनल) से अधिकारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, की ओर अवधि के लिए 3000-4500 रुपये के वेतनमान में उन्नत पदों पर निजी सचिवों के रूप में तदर्थ आधार पर स्थापनापन्न रूप से नियुक्त करते हैं —

1. श्री ओ० पी० बहल
2. श्री बी० के० खन्ना
3. श्री एच० एल० मैनी
4. श्री एम० एल० दरगन

सं० 1803, दिनांक 31-10-1988—अनुभाग अधिकाारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की वर्ष 1987, के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय सवर्ग में निम्नलिखित सहायकों को 31 अक्तूबर, 1988

1 344GI/88

(पूर्वाह्न) से अगला आदेश होने तक, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :—

1. श्रीमती सुजाशा चौधरी
2. श्री गुरुचरन सिंह औधखासी
3. श्री लाहरू राम
4. श्री के० जे० जयप्रकाश
5. श्री राजेन्द्र चतुर्वेदी
6. श्रीमती मैरी बहलन बारला
7. श्री खतचिनलागेल

उपयुक्त नियुक्तियाँ न्यायाधिकरण में दायर किए गए आवेदन संख्या ओ०ए०-1189/87 के निर्णय की शर्त के अधीन होंगी।

सं० 1804 दिनांक 1-11-1988—लिखित कार्यकाल पूरा होने पर, रक्षा मंत्रालय में निदेशक, श्री एस० बागची भारतीय

(1677)

प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 73) की सेवाएं 31 अक्टूबर, 1988 (अपराह्न) से महाराष्ट्र सरकार को सौंपी जाती हैं।

जी० बी० वडवाडिगि, अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं० 1805, दिनांक 13-10-1988— राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

पक्के सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन के रैंक में

पे०/ए० सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन दिगम्बर राव अन्ना राव कुलकर्णी (जे०सी०-101386 एम)—01 सितम्बर, 1988।

पे०/ए० सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन कुलकर्णी सिंह (जे०सी०-92090 के)—01 सितम्बर, 1988।

पे०/ए० सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन चरनसिंह (जे०सी०-92089पी)—01 सितम्बर, 1988।

पक्के सूबेदार लिपिक ए० ओ०सी० के रैंक में

पे०/ए० सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण कामलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव (जे०सी०-111242 के)—01 मार्च 1988।

पे०/ए० सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण राम सेवक वर्मा (जे०सी०-130408एन)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण गजेन्द्र नाथ शर्मा (जे०सी०-121761 एन)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन हरद्वारी लाल कनवल (जे०सी०-121809 डब्ल्यू)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण छत्रपति (जे०सी०-121805ए)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण राम लुभैया (जे०सी०-121806ए)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन श्री कुष्ण राय (जे०सी०-121763आई)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण हरि सिंह (जे०सी०-121804एक्स)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण राम पति सिंह (जे०सी०-121760एल)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण गिरवर सिंह (जे०सी०-121807एल०)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण रामनरायण सिंह (जे०सी०-130409एल)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण कुर्दा राम (जे०सी०-130410ए)—01 सितम्बर 1988।

पक्के सूबेदार स्टोर कीपर तकनीशियन के रैंक में

पे०/ए० सूबेदार एस०के० टी० एम० टी० जगदीश प्रसाद खिपाठी (जे०सी०-110440 डब्ल्यू)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार एस०के० टी० एम० टी० भनवर सिंह राठौर (जे०सी०-110886एल)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार एस०के० टी० एम० टी० अमर सिंह धनबल (जे०सी०-110434एच)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार एस०के० टी० एम० टी० सरदार सिंह डागर (जे०सी०-110438आई)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार एस०के० टी० एम० टी० जय नारायण खाटी (जे०सी०-110436एन)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार एस०के० टी० एम० टी० संसार चन्द (जे०सी०-110606एम)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार एस०के० टी० एम० टी० पूनम पत्त गोपालन (जे०सी०-110439एफ)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार एस०के० टी० एम० टी० बलदेव सिंह (जे०सी०-110437डब्ल्यू)—01 सितम्बर 1988।

पक्के सूबेदार चालक के रैंक में

पे०/ए० सूबेदार ओ०एम० एच० ई० जय चन्द (जे०सी०-140741पी)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार चालक एम० टी० भनवर सिंह (जे०सी०-134039एफ)—01 सितम्बर 1988।

पक्के सूबेदार टैंकसटाइल रिपेयरर के रैंक में

पे०/ए० सूबेदार टैंकसटाइल रिपेयरर चन्दर जीत राम (जे०सी०-139145डब्ल्यू)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार टैंकसटाइल रिपेयरर फूल राम (जे०सी०-131514एन)—01 सितम्बर 1988।

पक्के सूबेदार ओ०एल० पी० के रैंक में

पे०/ए० सूबेदार ओ०एल० पी० छवि नाथ राम (जे०सी०-153504के)—01 सितम्बर 1988।

पक्के सूबेदार इ० आर० (यूनिट) के रैंक में

पे०/ए० सूबेदार ई० आर० (यूनिट) रोशन लाल (जे०सी०-144054 डब्ल्यू)—01 सितम्बर 1988।

पक्के सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य वर्तक्य के रैंक में

पे०/ए० सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य वर्तक्य लक्ष्मण काम्बले (जे०सी०-121843डब्ल्यू)—01 सितम्बर 1988।

पे०/ए० सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य वर्तक्य मुख राम (जे०सी०-117153पी)—01 सितम्बर 1988।

पक्के सूबेदार स्टोर हैण्ड तकनीशियन के रैंक में

पे०/ए० सूबेदार स्टोर हैण्ड तकनीशियन राजा राम यादव (जे०सी०-141936एम)—01 सितम्बर 1988।

पक्के सूबेदार मेजर चालक के रैंक में

पे०/ए० सूबेदार मेजर ओ०एम० एच० ई० बाबू साहू (जे०सी०-103685के)—01 जुलाई 1988।

पक्के सूबेदार मेजर स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य के रैंक में  
पे०, ए० सूबेदार मेजर स्टोर हैण्ड सामान्य वर्तमान तरसेम  
लाल (जे०सी०-81397पी)—01 जून 1988 ।

ए० एस० राव, अवर सचिव

रक्षा मंत्रालय रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 1806, दिनांक 24-10-1988—सशस्त्र सेना  
मुख्यालय (सिविल सेवा) रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के श्री निर्मल  
चन्दर सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी को 4-10-1988  
(पूर्वाह्न) से सतर्कता संगठन एवं पदवृत्ति निदेशालय अनुसंधान  
तथा विकास संगठन नई दिल्ली में तीन वर्ष की अवधि के लिए रु०  
2000-3500 के वेतनमान पर कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में प्रति-  
नियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है ।

सं० 1807, दिनांक 25-10-1988—राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित पदोन्नति करते हैं :—

कम्बैट ब्राह्मण अनुसंधान तथा विकास स्थापना, अवाड़ी, मद्रास  
के श्री ए० सम्पत, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी को तारीख  
19-8-1988 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थापनापन्न मुख्य  
प्रशासन अधिकारी के पद पर ।

जितेन्द्र बुवे,  
उपनिदेशक (कार्यिक)

(कार्यालय महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा)

सं० 1809, दिनांक 1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित  
स्थान वरिष्ठ स्टोर सुपरिण्टेंडेंटों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई  
तिथियों से अग्रणी आदेश जारी होने तक सशस्त्र सेना चिकित्सा  
सामान डिपो काडर में स्थापनापन्न स्टोर अफसर (सिविलियन)  
के रूप में नियुक्त करते हैं । वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवर्तनीय-  
धीन रहेंगे :—

(क) श्री जी० कृष्णास्वामी स्टोर अफसर  
(सिव०) 9 मार्च 1988

(ख) श्री जी० जी० ब्राह्मण स्टोर अफसर  
(सिव०) 9 मार्च 1988

(ग) श्री जी०के० सावंत, स्टोर अफसर  
(सिव०) 25 मार्च 1988

बी० बी० राय, कंसल  
ए०डीजी (योजना)

भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून

सं० 1809, दिनांक 23-10-1988—राष्ट्रपति, भारतीय  
सैन्य अकादमी, देहरादून में तिब्बती भाषा के प्रवक्ता  
श्री एल० यसटोब की 01 अप्रैल 1986 से स्थायी प्रवक्ता के  
रूप में पुष्टि करते हैं ।

सं० 1810, दिनांक 23-10-1988—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय  
रक्षा अकादमी खडकवासला के निम्नलिखित, प्राध्यापकों को उसके

नामों के सामने दिखाई गई तारीख से प्राध्यापक के ग्रेड में करने  
की पुष्टि करते हैं ।

क्र० सं०	अफसर का नाम	पुष्टि करने की तारीख
1	2	3
1.	डा० सी० बी० रमैया	15 जुलाई 1972
2.	श्री पी० सी० हलदर	04 नवम्बर 1972
3.	श्री पी०बी० मोहोद	26 अगस्त 1975
4.	श्री जे०सी० मोर्या	3 मई 1973
5.	श्री बी० सी० कालिता	3 मई 1973
6.	श्री एन० हरहरन	10 मार्च 1975
7.	श्री एस० एन० मैत्रा	29 जुलाई 1973
8.	श्री आर० पी० सक्सेना	05 अक्टूबर 1973
9.	श्री डी० टी० मिसाल	15 मार्च 1974
10.	श्री एस० एच० हुसैनी	01 अप्रैल 1975
11.	श्री के० डी० चाबसे	1 अप्रैल 1975
12.	श्री एल० एन० जटवा	1 अप्रैल 1975
13.	श्री बी० एस० राज्यम	1 अप्रैल 1975
14.	श्री बाई जी० मराठे	1 अप्रैल 1975
15.	श्री बी०जी० दीक्षित	1 अप्रैल 1975
16.	श्री बी० के० निगम	6 अगस्त 1975
17.	श्री ए० यू० खान	31 जनवरी 1976
18.	श्री पी० पी० हंडा	14 नवम्बर 1976
19.	श्री एम०एम० मनवतकर	14 नवम्बर 1976
20.	श्री जी० एस० पांडे	14 नवम्बर 1976
21.	श्री के० भाधवन	14 नवम्बर 1976
22.	श्री एस० एस० भट्टी	5 दिसम्बर 1976
23.	डा० एम० के० नागपाल	09 दिसम्बर 1976
24.	श्री सुरजीत सिंह	10 दिसम्बर 1976
25.	श्री बी०सी० श्रीवास्तव	18 जनवरी 1977
26.	श्री एन० एन० नेवालिया	12 मई 1977
27.	श्री एस० एम० धवन	20 सितम्बर 1978
28.	श्री एस० सी० बोस	5 फरवरी 1979
29.	श्री जे० के० मेहता	5 फरवरी 1979
30.	श्री एस० पी० प्रौदर	11 अप्रैल 1979
31.	श्री टी०के० काम्बले	3 अगस्त 1979
32.	श्री एम० आर० चौधरी	3 अगस्त 1979
33.	श्री ए० आरबान्खडे	1 दिसम्बर 1979
34.	श्री के० जेड० अन्सारी	22 जनवरी 1981
35.	डा० ए० एम० मिश्रा	11 जून 1981
36.	श्री एम० आर० चौबे	11 जून 1981

1	2	3
37.	डा० बी० के० बोहरा	11 जून 1981
38.	डा० एस० डे	11 जून 1981
39.	श्री जे० के० भागवत	11 जून 1981
40.	श्री बी० चिदम्बरम	14 मई 1982
41.	श्री एच० एन० डकुआ	14 मई 1982
42.	श्री एस०पी० द्विवेदी	14 मई 1982
43.	डा० (श्रीमती) एस०के० सिंह	14 मई 1982
44.	श्री भ्रानन्द किशोर	14 मई 1982
45.	श्री ए० रानाडे	14 मई 1982
46.	डा० किशोरी लाल	7 अक्टूबर 1982
47.	श्री जे० दास गुप्ता	6 मई 1983
48.	डा० बी० के० जैन	6 मई 1983
49.	श्री एस० पाद्रे	6 मई 1983
50.	डा० बी० बी० सिंह	6 मई 1983
51.	श्री के० डी० मेहरा	6 मई 1983
52.	श्री बी० सीगायकवाड़	23 दिसम्बर 1983
53.	डा० आर० पी० राय	8 मार्च 1984
54.	डा० एस० के० लपाध्याय	8 मार्च 1984
55.	वी० सी० मिश्रा	8 मार्च 1984
56.	श्री एस०के० मागो	8 मार्च 1984
57.	डा० एन० के० कुमार	8 मार्च 1984
58.	कुमारी एम० आर० कात्रे	8 मार्च 1984
59.	डा० ओ० जे० ए० खान	14 सितम्बर 1985
60.	डा० (श्रीमती) एस० मुरलीधरन	14 सितम्बर 1985
61.	डा० ए० एस० राव	14 सितम्बर 1985
62.	डा० आर० एल० कोठारी	14 सितम्बर 1985
63.	डा० ए० एन० श्रीवास्तव	14 सितम्बर 1985
64.	श्री बी० डी० महाजन	14 सितम्बर 1985
65.	श्री बी० एन० राव	1 जनवरी 1986
66.	डा० एस० राजशेखर	31 मई 1986
67.	श्री ए० बेनर्जी	1 जून 1986

आर० आर० कौशल, अधर मन्त्रि

नियमित सेना

सेना सेवा कोर

(पूर्ति)

नायब सूबेदार लिपिक (भण्डार) के रैंक में

सं० 1811, दिनांक 23 अक्टूबर 1988 — हवलदार श्री कृष्णा सिंह (6644317 एक्स अब जे० सी०-175900 ए)--31 दिसम्बर, 1987।

(क) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून, 1987 से दी जायेगी। हवलदार राव निवास तिवारी (6643999 एफ अब जे० सी०-175901 एच०)--01 जनवरी, 1988।

(ख) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई, 1987 से दी जायेगी। हवलदार सिवारामा पिल्लै सी० जी० (6644451 एच० अब जे० सी०-175902 एल०)--01 सितम्बर 1987।

हवलदार गज राज सिंह (6644387 डब्ल्यू० अब जे० सी०-175903 एन०)--01 सितम्बर, 1987।

हवलदार तेज प्रताप सिंह (6644455 वाई अब जे० सी०-175904 डब्ल्यू०)--25 दिसम्बर, 1987।

(ड) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 सितम्बर, 1987 से दी जायेगी।

हवलदार हरी शंकर (सं० 6643994 एल० अब जे० सी०-175905 वाई०)--23 नवम्बर, 1987।\*

हवलदार कश्मीर सिंह (6644494 एक्स अब जे० सी०-175906 एफ०)--23 नवम्बर, 1987।\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1987 से दी जायेगी।

हवलदार अमीर सिंह गुराया (6644495 ए अब जे० सी०-175907 एल०)--26 नवम्बर, 1987।

हवलदार रतधीर सिंह (6644476 पी० अब जे० सी०-175908 एम०)--14 दिसम्बर, 1987।\*\*

हवलदार किशोर कुमार मेहता (6644496 ए अब जे० सी०-175909 पी०)--20 नवम्बर, 1987।\*\*

हवलदार राम मेहर अन्टिल (6644500 ए अब जे० सी०-175910 के०)--04 दिसम्बर, 1987।\*\*

\*\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 1987 से दी जायेगी।

हवलदार अमरजीत सिंह रन्धावा (6644509 बी अब जे० सी०-175911 एम०)--29 दिसम्बर, 1987।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 नवम्बर 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार इन्दर सिंह (6644516 एल अब जे० सी०-175912 पी०)--11 जनवरी, 1988।

हवलदार नफे सिंह (6644517 ए अब जे० सी०-175913 एक्स)--15 जनवरी, 1988।

हवलदार चन्दा भूषण सिंह (6644560 बी अब जे० सी०-175914 ए)--29 दिसम्बर, 1987।

हवलदार तेज राम (6644562 ए अब जे० सी०-175915 एच०)--01 जनवरी, 1988। (श)

हवलदार ब्रह्म सिंह (6643676 वाई अब जे० सी०-175916 एल०)--16 फरवरी, 1988। (ण)

हवलदार धरम पाल (6644603 वाई अरब जे० सी० 175917 एन)—01 जनवरी, 1988। (श)

हवलदार सिवरामन नायर सी० एन० (6644638 पी० अरब जे० सी०-175918 डब्ल्यू०)—31 जनवरी, 1988।(श)

हवलदार विजय दरशन सिंह (6644639 एक्स अरब जे० सी०-175919 वाई)—31 दिसम्बर, 1987।(श)

हवलदार महावीर सिंह कौसलिया (6644646 एन अरब जे० सी०-175920 एन)—31 दिसम्बर, 1987।(श)

हवलदार बलबीर सिंह (6644651 वाई अरब जे० सी०-175921 डब्ल्यू०)—30 दिसम्बर, 1987।(श)

हवलदार प्रेम सिंह दौसाना (6644671 एन अरब जे० सी०-175922 वाई)—01 जनवरी, 1988।(श)

हवलदार भीम सिंह (6644675 एच अरब जे० सी०-175923 एफ)—01 जनवरी, 1988।(श)

हवलदार अरवतार सिंह (6644686 पी अरब जे० सी०-175924 के)—03 जनवरी, 1988।

(ब) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी।

हवलदार राम निवास खटाना (6644413 एम अरब जे० सी०-175925 एम)—13 अप्रैल, 1988।

(अ) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी।

हवलदार केदारी लाल शाह (6643660 एन अरब जे० सी०-175926 पी)—02 जुलाई, 1988।(स)

हवलदार केशव नाथ मिश्रा (6643784 एच अरब जे० सी०-175927 एक्स)—24 मार्च, 1988।(स)

हवलदार नाग देव सिंह (6644332 एन अरब जे० सी०-175928 ए)—25 मार्च, 1988।(स)

हवलदार उदयवीर सिंह (6644255 एच अरब जे० सी०-175929 एच)—25 मार्च, 1988।(स)

हवलदार लखवीर सिंह रन्धावा (6644449 एल अरब जे० सी०-175930 एक्स)—23 मार्च, 1988।(स)

हवलदार थेल्लर चिन्नप्पा मनिसामी (स० 6643973 एम अरब जे० सी०-175931 ए)—03 जून, 1988।(स)

(ख) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1988 से दी जायेगी।

हवलदार राजेन्द्र सिंह यादव (6644278 के अरब जे० सी०-175932 एच)—24 मार्च, 1988।

(ज) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 88 से दी जायेगी।

हवलदार छोटू राम (6644515 एच अरब जे० सी० 175933 एल)—19 अप्रैल, 1988।

हवलदार जय भानू दलाल (6644701 वाई अरब जे० सी०-175934 एन)—21 मार्च, 1988।

हवलदार पुरुषोत्तम पाण्डेय (6644400 डब्ल्यू अरब जे० सी०-175935 डब्ल्यू)—04 जून, 1988।

(द) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी।

हवलदार राजेन्द्र कुमार सिंह (6643838 वाई अरब जे० सी०-175936 वाई)—11 अप्रैल, 1988।

(अ) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मार्च, 1988 से दी जायेगी।

हवलदार बनवारी लाल ठाकुर (6644705 पी अरब जे० सी०-175937 एफ)—05 मई, 1988।

हवलदार कैलाश त्रिपाठी (6644755 ए अरब जे० सी०-175938 के)—28 जून, 1988।

हवलदार उपेन्द्र नाथ तिवारी (6643785 के अरब जे० सी०-175939 एम)—04 मई, 1988।

हवलदार उमराव सिंह यादव (6644791 एल अरब जे० सी०-175940 एफ)—07 मई 1988।

हवलदार पशु पतिनाथ सिंह (6644833 एन अरब जे० सी०-175941 के)—16 मई, 1988।

हवलदार गोपीनाथ पाल (6644824 ए अरब जे० सी०-175942 एम)—10 मई, 1988।

(ण) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1988 से दी जायेगी।

हवलदार जसवन्त सिंह (6644810 एल अरब जे० सी० 175943 पी०) 20 जून, 1988।

हवलदार चन्द्रिका सिंह यादव (6644841 एल अरब जे० सी०-175944 एक्स)—16 मई 1988।

हवलदार नरमदेश्वर कुमार सिंह (6644803 पी अरब जे० सी०-175945 ए)—26 मई, 1988।

(न) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1988 से दी जायेगी।

हवलदार बिजय सिंह नेगी (6643905 एल अरब जे० सी०-175946 एच)—04 जुलाई, 1988।

(द) नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून, 88 से दी जायेगी।

अनिल कुमार, अवर सचिव

सं० 1812, दिनांक 23 अक्तूबर 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

कवचित्त कोर

रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार भरत ठाकुर (जे० सी०-127812 एन०)—01 अगस्त 1987।

नायब रिसालदार बाबुल सिंह (जे० सी०-133967 एक्स 01 सितम्बर, 1987।

नायब रिसालदार चहल सिंह (जे० सी०-113043 एन 09 सितम्बर 1987।

नायब रिसालदार अजीत सिंह (जे० सी०-138044 डब्ल्यू०)—01 नवम्बर, 1987।

नायब रिसालदार शिवरतन सिंह (जे० सी०-133933 के)-01 नवम्बर 1987।

नायब रिसालदार केलाप्पा काड़े मना (जे० सी०-144524 डब्ल्यू०)—01 दिसम्बर 1987।

नायब रिसालदार वेद सिंह (जे० सी०-133950 के)-01 जनवरी 1988।

नायब रिसालदार राजिन्दर सिंह (जे० सी०-128207 एल०)—01 फरवरी, 1987।

नायब रिसालदार प्रकाश चन्द (जे० सी०-127787 बाई) 28 अप्रैल, 1988।

नायब रिसालदार हरिन्दर सिंह (जे० सी०-126650 ए) 01 मई, 1988।

#### इन्फैन्ट्री

मेकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जे० सी०-144197 डब्ल्यू०)—02 जुलाई, 1987।

नायब सूबेदार रामासामी नारायणासामी (जे० सी०-127129 एम०)—01 अगस्त, 1987।

नायब सूबेदार रविन्दर कुमार (जे० सी०-144198 बाई०)—20 अक्टूबर, 1987।

नायब सूबेदार शिरोमणी डी (जे० सी०-127130 एफ) 01 नवम्बर 1987।

नायब सूबेदार के पी विजयन (जे० सी०-133726 एक्स०)—01 नवम्बर 1987।

नायब सूबेदार रंगसाामी वेनूराज (जे० सी०-133727 ए)—01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार गीपालसामी पोथिराजन (जे० सी०-133728 एच०)—01 मार्च 1988।

नायब सूबेदार महीपाल सिंह (जे० सी०-130971 पी०) 03 मार्च, 1988

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जे० सी०-128169 ए०) 01 अप्रैल 1987।

नायब सूबेदार बलबीर (जे० सी०-128170 पी०)—01 अप्रैल 1987।

नायब सूबेदार समन्दर सिंह (जे० सी०-130864 एन) 17 अक्टूबर 1987

नायब सूबेदार देव सिंह नेगी (जे० सी०-129360 एच०)—01 फरवरी, 1987

नायब सूबेदार साबल सिंह (जे० सी०-133734 डब्ल्यू०)—01 मार्च 1988

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-135918 एन) 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-135919 डब्ल्यू०) 01 अप्रैल 1988।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कृपा राम मंगवाई (जे० सी०-95768 एक्स०) 01 फरवरी 1988।

सूबेदार महेस्वर जंग (जे० सी०-82861 ए) 01 मार्च 1988।

सूबेदार गोवर्धन सिंह वीर चक्र (जे० सी०-83780 एम) 01 मार्च 1988।

सूबेदार मूल राज थापा (जे० सी०-82862 एच०)—01 अप्रैल 1988।

सूबेदार गोविन्द सिंह (जे० सी०-90909 एक्स०)—01 अप्रैल, 1988।

सूबेदार आनन्द सिंह (जे० सी०-100500 एम०)—01 अप्रैल 1988।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार टेक बहादुर थापा (जे० सी०-128086 पी०)—01 जनवरी 1988।

नायब सूबेदार रनधोज थापा (जे० सी०-128087 एक्स)—01 जनवरी 1988।

नायब सूबेदार डमर बहादुर गुरुंग (जे० सी०-128088 ए)—01 फरवरी 1988।

नायब सूबेदार कुशाल सिंह (जे० सी०-128486 एफ) 01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार नर बहादुर गुरुंग (जे० सी०-128139 एच०)—01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार मोती राम (जे० सी०-132004 बाय) 01 अप्रैल 1987।

नायब सूबेदार किशन लाल (जे० सी०-134485 पी) 01 मई, 1987।

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जे० सी०-140328 एक्स)—01 अक्टूबर 1987।

नायब सूबेदार खजान सिंह (जे० सी०-135913 पी) 19 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार नेतर चन्द (जे० सी०-131993 ए)—01 सितम्बर 1987।

नायब सूबेदार सीहन सिंह (जे० सी०-133445 एफ) 01 मार्च 1988।

नायब सूबेदार गुंज बहादुर बसनेली (जे० सी०-132014 एफ०)—01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार लिपिक रण सिंह शेहरावत (जे० सी०-135932 ए)—01 फरवरी 88।

नायब सूबेदार लिपिक चांकी लुकौस (जे० सी०-135933 एच०)—01 मई 1988।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार आम सिंह पाल (जे० सी०-100501 पी०)  
01 मई 1988।

सूबेदार फाशिफ फयरोश (जे० सी०-100494 के)---  
01 मई 1988।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार छत्तर सिंह (जे० सी०-127219 एन)  
01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार बालिक दास शर्मा (जे० सी०-126505 एन)---01 मई 1988।

नायब सूबेदार कुलबीप सिंह (जे० सी०-138536 पी)  
01 मार्च 1988।

नायब सूबेदार रोशन लाल (जे० सी०-128485 वाई)  
09 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार महीपाल सिंह (जे० सी०-127239 एफ)  
01 जून 1988।

नायब सूबेदार चन्द्र भान (जे० सी०-138537 एक्स)---  
01 जून 1988।

क्यबित कोर

रिजालदार मेजर के रैंक में

रिजालदार बाली राम सिंह (जे० सी०-64607 एन)---  
01 मार्च 1988।

रिजालदार बशरथ सिंह (जे० सी०-82474 एल०)---01  
मार्च 1988।

रिजालदार बहादुर सिंह (जे० सी०-95513 एक्स०)---  
01 मार्च 1988।

रिजालदार श्रीम प्रकाश (जे० सी०-97140 एन०)---  
01 मार्च, 1988।

रिजालदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (जे० सी०-90114 के)---  
01 अप्रैल 1988।

रिजालदार अश्वतार सिंह (जे० सी०-104405 वाई)---  
01 अप्रैल 1988।

रिजालदार (क्लर्क जी० डी०) हरबंस सिंह (जे० सी०-  
99768 पी०) 01 अप्रैल 1988।

रिजालदार धर्म देव सिंह (जे० सी०-96641 एफ०)---  
01 अप्रैल 1988।

रिजालदार युसुफ अली खान (जे० सी०-91771 ए)---  
01 अप्रैल 1988।

रिजालदार विजय सिंह (जे० सी०-97122 एन)---01  
मई, 1988।

रिजालदार त्रिज लाल (जे० सी०-90111 डब्ल्यू)---01  
मई 1988।

रिजालदार दर्शन सिंह देभोल (जे० सी०-95518  
डब्ल्यू०)---01 मई 1988।

रिजालदार कश्मीर सिंह (जे० सी०-105396 ए)---  
01 मई 1988।

रिजालदार मंदर सिंह (जे० सी०-87479 पी०)---  
01 मई 1988।

महार रेजिमेंट

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार क्लर्क मणवन्त राम्बले (सं० 4540271 ए  
अब जे सी-175101 के)---17 फरवरी 1988।

हवलदार क्लर्क सुकुमारन जी (सं० 4540284 वाई अब  
जे० सी०-175102 एम)---17 फरवरी 1988

हवलदार क्लर्क राम पाल सिंह (सं० 9210683 के अब जे  
सी-175103 पी०)---01 अप्रैल 1988।

मोलिनो थडानी, अवर गव्हर्नर

लैफ्टिनेंट से कॅप्टन

रजनीश हांडा (आई० सी०-40890) हरप्रीत सिंह  
(आई० सी०-40892) इन्फैन्ट्री, कीरेन्द्र सिंह (आई० सी०-  
40894), एन० एन० भट्टाचार्य (आई० सी०-40895)  
इन्फैन्ट्री, बी० के० भारद्वाज (आई० सी०-40896), सिगनल्स  
एस० के० अरोड़ा (आई० सी०-40897); ए० एस० सी०,  
पी० बी० हरी (आई० सी०-40898) आर्टिलरी, अतुल  
कश्यप, (आई० सी०-40899) इन्फैन्ट्री, ए० के० माल (आई०  
सी०-40900) आर्टिलरी, के० मण्डोनका (आई० सी०-  
40901), ए० एस० सी०, राजीव देवगन (आई० सी०-  
40902), ए० ओ० सी०, नजमल हसन (आई० सी०-  
40903) सिगनल्स के० एस० निज्जर (आई० सी०-40904)  
आर्टिलरी, आर० एस० एन० सिंह (आई० सी०-40905),  
राजा कुमार नन्दा (आई० सी०-40906) इन्फैन्ट्री, आर०  
एन० बाली (आई० सी०-40907), समित घोष (आई०  
सी०-40908) आर्टिलरी, निलेश लाल (आई० सी०-40909)  
ए० सी०, गमसोर एंगो (आई० सी०-40910), पी० बाई  
प्रबंती (आई० सी०-40912) इन्फैन्ट्री, आर० के० गोयल  
(आई० सी०-40913) आर्टिलरी, एम० के० मिश्रा (आई०  
सी०-40914), ए० एस० सी०, हरी ईश्वरन (आई० सी०  
40915), इंजीनियर्स, विपिन बिहारी ((आई० सी०-40916  
इन्फैन्ट्री, बबू बिटल (आई० सी०-40918) इंजीनियर्स,  
पी० एस० गिल (आई० सी०-40919) इन्फैन्ट्री, हर राज  
सिंह (आई० सी०-40920) आर्टिलरी, एच० एस० सिद्ध  
(आई० सी०-40921) इंजीनियर्स, मनजीत सिंह (आई०  
सी०-40922), विजय कोहली (आई० सी०-40923)  
आर्टिलरी, एच० एस० रावत (आई० सी०-40924), अमिताप  
जोशी, (आई० सी०-40925) इन्फैन्ट्री, एस० एल० जांगिद  
(आई० सी०-40926), ए० एस० सी०, अभिजीत भट्टाचार्य  
(आई० सी०-40927) इन्फैन्ट्री, दबीन मोहन (आई० सी०  
40929), इंजीनियर्स, एस० गौतम (आई० सी०-40932)  
इंजीनियर्स, एम० विजय चन्वन (आई० सी०-40933) ए०  
के० शर्मा (आई० सी०-40934) इन्फैन्ट्री, एस० बी० पाटिल

(आई० सी०-40937) इंजीनियर्स, निरंजन पति (आई० सी०-40938) आर्टिलरी, डी० आर० भाटिया (आई० सी० 40940), डी० एस० सोढ़ी (आई० सी०-40942), आर० सी० छिल्लल (आई० सी०-40943), एस० एस० हुडा (आई० सी०-40948), इन्फैन्ट्री, बी० एल० चौधरी, (आई० सी०-40946) आर्टिलरी, एस० एस० राव (आई० सी०-40947) इन्फैन्ट्री, आर० पी० कलिसीपुडी (आई० सी०-40948) आर्टिलरी, एल० बी० रसना (आई० सी०-40949) पी० के० एस० राय (आई० सी०-40950) इन्फैन्ट्री, एम० आर० करीम (आई० सी०-40951) इंजीनियर्स, के० डी० प्रसाद (आई० सी०-40952) इन्फैन्ट्री, के० रेज (आई० सी०-40954) आर्टिलरी, शशीशान्त सिन्हा (आई० सी०-40955) आर्टिलरी, ललित कपूर (आई० सी०-40956), के०पी० भाटिया (आई० सी०-40957), आर० के० शर्मा (आई० सी०-40958) इंजीनियर्स, अरूण खन्ना (आई० सी०-40959), ए० के० त्यागी (आई० सी०-40960), राजीव श्रीवास्तवा (आई० सी०-40961) इन्फैन्ट्री, आर० के० नायर (आई० सी०-40962) आर्टिलरी, अमिताभ अमित (आई० सी०-40963) इन्फैन्ट्री, बी० एम० विजय (आई० सी०-40965) सिगनल्स, शचिन सूरी (आई० सी०-40966) आर्टिलरी, विवेक सरन (आई० सी०-40967) इन्फैन्ट्री, वाई० एस० राना (आई० सी०-40968) आर्टिलरी—24 दिसम्बर, 1987।

डी० एच० परब,  
ले० कर्नल  
ए०एम०एस०-8

#### रक्षा अनुसन्धान तथा विकास सेवा

कम्बैट वाहन अनुसन्धान तथा विकास स्थापना, अवाड़ी मद्रास के श्री टी० आर० गंगाधरन, वैज्ञानिक "डी" को तारीख 1-7-83 से इसी स्थापना में स्थानापन्न वैज्ञानिक "ई" के पद पर।

जितेन्द्र दुबे,  
उप निदेशक (कार्मिक)

स्वाई कमीशन  
लैफ्टिनेंट से कैप्टन

जवाहर मण्डल (आई० सी०-40969) इन्फैन्ट्री, हरदीप जज (आई० सी०-40970) ए० ओ० सी०, ए० के० सिंह (आई० सी०-40972) आर्टिलरी, एन० के० शर्मा (आई० सी०-40973) इन्फैन्ट्री, पी० पी० सिंह (आई० सी०-40974) ए० एस० सी०, निमिशा गुप्ता (आई० सी०-40975) सिगनल्स मनोज मिश्रा (आई० सी०-40976) आर्टिलरी, एस० एस० बिलन (आई० सी०-40977), ई० एम० ई०, रजिन्द्र के पलटा (आई० सी०-40978) इन्फैन्ट्री, के० एल० दवेश

(आई० सी०-40979) ए० एम० सी०, ए० के० बसु (आई० सी०-40980), नरिन्द्र सिंह (आई० सी०-40981) इन्फैन्ट्री, जी० एस० कौल (आई० सी०-40982), आर० के० सक्सेना (आई० सी०-40984) आर० के० राय (आई० सी०-40985) आर्टिलरी, पंज मिस्तल (आई० सी०-40986) इंजीनियर्स, मुरली धर एम (आई० सी०-40967) आर्टिलरी, ए० के० पाइज (आई० सी०-40989) अमित तिमोयी (आई० सी०-40991) इन्फैन्ट्री, एम० एस० भादौरिया (आई० सी०-40992) अरूण धवन (आई० सी०-40993) आर्टिलरी, सैनल बैनर्जी (आई० सी०-40994) विजय चौधड़ा (आई० सी०-40996) इन्फैन्ट्री, मुकेश यादव (आई० सी०-40999) नीरज शर्मा (आई० सी०-41000) आर्टिलरी, पी० के० शर्मा (आई० सी०-41001) इन्फैन्ट्री, जोसेफ जोसी (आई० सी० 41002) तिलक राज (आई० सी०-41003) ए० एस० सी०, रमन महनारा (आई० सी०-41004) ए० एस० सी०, पी० मी० पटनायक (आई० सी०-41005) आर्टिलरी, संजीव बत्रा (आई० सी०-41006) शेखर गाय (आई० सी० 41010) इन्फैन्ट्री, एलवर्ट राज (आई० सी०-41011) ई० एम० ई०, अजय कुमार शर्मा, (आई० सी०-41012) राजीव संधीर (आई० सी०-41013) इन्फैन्ट्री, आई० पी० एस० वालिया (आई० सी०-41016) ए० ओ० सी०, राकेश शर्मा (आई० सी०-41017) इन्फैन्ट्री, रणबीर मन्हा (आई० सी०-41018) डेविड रोगा (आई० सी०-41019) आर्टिलरी राजन सादयान (आई० सी०-41020) ए० एस० सी०, कुमार सचिन्द्रा (आई० सी०-41021) आर्टिलरी, प्रदीप नेथानी (आई० सी०-41022) ए० एस० सी०, सुनील पसरौवा (आई० सी०-41023) आर्टिलरी, सी० जी० नन्दन (आई० सी०-41024) इन्फैन्ट्री, टी० एम० ए० नारायबन (आई० सी०-41025), ई० एम० ई०, पी० सी० झा (आई० सी०-41027) आर्टिलरी, कंवर सिंह (आई० सी०-41028) एम० एस० सिंह (आई० सी०-41029) इन्फैन्ट्री, रमन श्रीनिवासचारी (आई० सी०-41030) आर्टिलरी, पी० एस० वीरवी (आई० सी०-41033) वाई० बी० आर० विजय (आई० सी०-41034) ई० एम० ई०, एम० आर० जगादले, (आई० सी०-41035) ई० एम० ई०, संजय चिकारा (आई० सी०-41036) ए० एस० सी० मनोज बेगलूर (आई० सी० 41040) ए० ओ० सी०—24 दिसम्बर 1987।

डी० एच० परब,  
ले० कर्नल,  
ए०एम०एस०-8

#### कोर ग्राफ सिगनल्स

नायब सूबेदार (वाई० ग्राफ एस०) के रैंक में

हवलदार प्रदीप कुमार लाल (सं० 14215523 डब्ल्यू अरब जे० सी०-175751 एक्स०)—1 मार्च, 1988।



हवलदार हरदेव सिंह (सं० 14217522 एम० अब जे० सी०-175752 ए०)--8 अप्रैल, 1988। X

X(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार र्नैल सिंह (सं० 14217690 एल० अब जे० सी०-175753 ए०)--2 अप्रैल, 1988। XX

XX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार हरे राम शर्मा (सं० 14288742 ए अब जे० सी०-175754 एल०)--20 मई, 1988। XXX

XXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार अन्थोनी जोसफ (सं० 14214463 ए अब जे० सी०-175755 एन०)--1 मई, 1988।

हवलदार पुरुषोत्तम परीदा (सं० 14286850 एक्स० अब जे० सी०-175756 डब्ल्यू०)--11 जून, 1988। XXXX

XXXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार पूरन चन्द (सं० 14287646 वाई० अब जे० सी०-175757 वाई०)--1 मई, 1988।

हवलदार जगदीश चन्द (सं० 14217655 एच० अब जे० सी०-175758 एफ०)--13 मई, 1988। XXX

XXXXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार विनायक राम शर्मा (सं० 14218117 एफ० अब जे० सी०-175759 के०)--1 मई, 1988।

नायब सूबेदार (एफ० आफ एस०) के रैंक में

हवलदार शीस पाल सिंह तोमर (सं० 14220147 एक्स० अब जे० सी०-175760 वाई०)--29 जनवरी, 1988।

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार राम प्रवेश सिंह (सं० 14290953 एफ० अब जे० सी०-175761 एफ०)--20 जनवरी, 1988।

===(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० मोनीश्वरीन (सं० 14280875 एफ० अब जे० सी०-175762 के०)--24 मई, 1988।

====(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार हरी शंकर (सं० 14221264 पी० अब जे० सी०-175763 एम०)--3 जून, 1988।

====(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार विजय बहादुर राम (सं० 14209420 एफ० अब जे० सी०-175764 पी०)--24 मई, 1988।

2-344 GI/88

====(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार सन्तोष सिंह (सं० 14282086 एन अब जे० सी०-175765 एक्स०)--8 जून, 1988।

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार दरयाब सिंह तांगर (सं० 14216804 वाई अब जे० सी०-175766 ए०)--27 मई, 1988।

""(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार शंका सामी परमानन्दभ (सं० 14219063 एक्स अब जे० सी०-175767 एच०)--24 मई 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार भूपाल सिंह (सं० 14219830 एल० अब जे० सी०-175768 एल०)--20 मई 1988।

""(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार के० अछूता कुरुप (सं० 14218300 के अब जे० सी०-175769 एन०)--26 मई 1988।

""""(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार धन राज सिंह (सं० 14284645 एल० अब जे० सी०-175770 एच०)--28 मई 1988। X

X(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार माजार सिंह (सं० 14219515 पी० अब जे० सी०-175771 एल०)--27 मई 1988। XX

XX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० गनेशन (सं० 14219161 एक्स० अब जे० सी०-175772 एन०)--25 मई, 1988। XXX

XXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रताप नारायण सिंह (सं० 14220220 एल० अब जे० सी०-175773 डब्ल्यू०)--1 मई, 1988।

हवलदार थामस के वी० (सं० 14291183 एम० अब जे० सी०-175774 वाई०)--17 मई 1988। XXXX

XXXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार महेन्द्रा कर खन्दाजी राव (सं० 14221390 एफ० अब जे० सी०-175775 एफ०)--21 मई 1988। XXXXX

XXXXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

## तोपखाना रेजिमेंट

## नायब सूबेदार के पद में

हवलदार हरबंस सिंह (सं० 1243112 एन० अब जे० सी०-176460 के)---24 फरवरी 1988।

हवलदार सुरजीत सिंह (सं० 1243634 के० अब जे० सी०-176461 एम०)---24 फरवरी 1988।

आर० एच० एम० साहीबसिंह (सं० 1296533 एक्स० अब जे० सी०-176462 पी०)---01 मार्च 1988।

हवलदार गुरदीप सिंह (सं० 1297833 एल० अब जे० सी०-176463 एक्स०)---01 मार्च 1988।

हवलदार सुरत सिंह (सं० 12456191 के अब जे० सी० 176464 ए०)---01 मार्च 1988।

हवलदार बचन सिंह रन्धावा (सं० 14307716 एन० अब जे० सी०-176465 एच०)---03 मार्च 1988।\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1988 से दी जायेगी।

बी० एच० एम० लाल सिंह (सं० 1260702 एच० अब जे० सी०-176466 एल०)---01 मार्च 1988।

आर० एच० एम० कश्म दत्ता (सं० 1287158 डब्ल्यू० अब जे० सी०-176467 एन०)---20 मई 1988।\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मार्च 1988 से दी जायेगी)।

बी० एच० एम० प्रभु दयाल (सं० 1235892 पी० अब जे० सी०-176468 डब्ल्यू०)---02 मार्च 1988।\*

बी० एच० एम० रूपा राम जाट (सं० 1242908 पी० अब जे० सी०-176469 वाई०)---22 अप्रैल 1988।\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मार्च 1988 से दी जायेगी)।

आर० एच० एम० मुख्तयार सिंह (सं० 1251953 एल० अब जे० सी०-176470 एन०)---02 मार्च 1988।

हवलदार प्रीतम सिंह (सं० 14317979 एच० अब जे० सी०-176471 डब्ल्यू०)---19 मार्च 1988।

हवलदार पोनाचा एन० पी० (सं० 1267043 एफ० अब जे० सी०-176472 वाई०)---10 मार्च 1988।

हवलदार सन्ताराम (सं० 11194499 एम० अब जे० सी० 176473 एफ०)---11 मार्च 1988।

हवलदार लष्मणन सी० (सं० 1268624 एल० अब जे० सी०-176474 के०)---14 मार्च 1988।

हवलदार आकाश मानिक राय (सं० 13852896 एच० अब जे० सी०-176475 एम०)---15 मार्च 1988।

हवलदार छोटे लाल तिवारी (सं० 1265446 एच० अब जे० सी०-176476 पी०)---15 मार्च 1988।

हवलदार महावीर प्रसाद (सं० 1244358 वाई० अब जे० सी० 176477 एक्स०)---15 मार्च 1988।

हवलदार सतपाल सिंह (सं० 13809215 एफ० अब जे० सी०-176478 ए)---15 मार्च 1988।

आर० एच० एम० बीर सिंह धामी (सं० 1298734 पी० अब जे० सी० 176479 एच०)---15 मार्च 1988।

बी० एच० एम० शिवाजी तुकाराम धावले (सं० 1243178 के अब जे० सी०-176480 एक्स०)---15 मार्च 1988।

हवलदार अजीत सिंह (सं० 1239044 एन० अब जे० सी० 176481 ए०)---20 मार्च 1988।

बी० एन० एम० रणवीर सिंह (सं० 1289236 एफ० अब जे० सी०-176482 एच०)---20 मार्च 1988।

आर० एच० एम० विश्वास निगद (सं० 14304199 वाई अब जे० सी०-176483 एल०)---21 मार्च 1988।

हवलदार गनवत्त रामदास भाउ (सं० 14321348 एक्स० अब जे० सी०-176484 ए०)---24 मई 1988।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मार्च 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार चन्द्र राज सिंह (सं० 14318192 ए० अब जे० सी०-176485 डब्ल्यू०)---22 मार्च 1988।

बी० एच० एम० त्रिलोक सिंह (सं० 1297164 एन० अब जे० सी०-176486 वाई०)---25 मार्च 1988।

आर० एच० एम० सदानन्द मिश्रा (सं० 1296428 एफ० अब जे० सी०-176487 एफ०)---01 अप्रैल 1988।\*

बी० एच० एम० सविन्द्र सिंह (सं० 1275510 एच० अब जे० सी०-176488 के०)---18 अप्रैल 1988।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1988 से दी जायेगी)।

बी० एच० एम० गमानन्द (सं० 1252239 एक्स० अब जे० सी०-176489 एम०)---01 अप्रैल 1988।

हवलदार पजाल सिंह (सं० 1250978 एल० अब जे० सी० 176490 एफ०)---10 अप्रैल 1988।\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार परदेशी रतन (सं० 1260603 ए अब जे० सी० 176491 के०)---1 अप्रैल 1988।

हवलदार सुबे सिंह (सं० 1265022 एम अब जे० सी०-176492 एम०)---01 अप्रैल 1988।

हवलदार ज्ञान सिंह (सं० 1296201 एन अब जे० सी० 176493 पी०)---01 अप्रैल 1988।

बी० एच० एम० सिपाही राम (सं० 14320594 डब्ल्यू अब जे० सी० 176494 एक्स-18 अप्रैल 1988।

हवलदार राम अबतार सिंह भदौरिया (सं० 1252589 के अब जे० सी०-176495 ए)---01 अप्रैल 1988।

हवलदार जसवन्त सिंह (सं० 1259125 पी अब जे० सी० 176496 एच०)---06 अप्रैल 1988।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार गणराज सिंह यादव (सं० 1244670 एक० अर्ब जे० सी०-176497 एल०)—01 अप्रैल 1988।

बी० एच० एम० अमर सिंह (सं० 1287978 एच० अर्ब जे० सी०-176498 एल०)—01 अप्रैल 1988।

बी० क्यू एम० एच० रघवीर सिंह (सं० 1250292 के० अर्ब जे० सी०-176499 डब्ल्यू०)—01 अप्रैल 1988।

हवलदार गुरुशामी एल० (सं० 14322967 एकस अर्ब जे० सी०-176500 ए)—01 मई 1988।

हवलदार बोलीधीयत थिनबुले नायडू (सं० 143228 एल० अर्ब जे० सी०-176501 एच०)—01 मई 1988।

हवलदार रामानन्दन सी० एस० (सं० 14322855 एकस अर्ब जे० सी०-166502 एल०)—01 मई 1988।

हवलदार रवीन्द्र जी० (सं० 14322856 ए अर्ब जे० सी०-176503 एल०)—01 मई 1988।

हवलदार वाई० सी० मल रेड्डी (सं० 1260995 वाई जे० सी०-176504 डब्ल्यू०)—01 मई 1988।

आर० एच० एम० गणेश पति (सं० 1238281 एल० अर्ब जे० सी०-176505 वाई०)—01 मई 1988।

आर० एच० एम० तारा चन्द (सं० 1235051 अर्ब जे० सी०-176506 एक०)—01 मई 1988।

हवलदार विद्या धर सिंह (सं० 14309910 के० अर्ब जे० सी०-176507 के०)—01 जून 1988।

बी० एच० एम० नसीब हिह (सं० 1286043 डब्ल्यू० अर्ब जे० सी०-176508 एम०)—08 जून 1988।

सबस्टेण्डिंग सूबेदार (ए० आई० जी०) के पद में

नायब सूबेदार कानवल सिंह खांगा (जे० सी०-139972 एकस०)—01 अगस्त 1988।

नायब सूबेदार रूप लाल (जे० सी०-140200 डब्ल्यू०) 01 सितम्बर 1988।

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जे० सी०-139973 एक०) 01 सितम्बर 1988।

नायब सूबेदार जोगा सिंह (जे० सी०-147746 डब्ल्यू०) 02 सितम्बर 1986।

नायब सूबेदार श्री चन्द यादवा (जे० सी०-147723 पी०)—01 सितम्बर 1988।

नायब सूबेदार दीवान सिंह (जे० सी०-147715 01 डब्ल्यू०) सितम्बर 1988।

नायब सूबेदार राम इकबाल झा (जे० सी०-147725 ए०)—01 सितम्बर 1988।

सबस्टेण्डिंग सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-144058 एम०) 01 सितम्बर 1988।

नायब सूबेदार दैविशनामूर्थी जयाराम (जे० सी०-159379 एक०)—01 सितम्बर 1988।

नायब सूबेदार मीर सिंह (जे० सी०-157611 एच०) 01 सितम्बर 1988।

नायब सूबेदार विटल खदके (जे० सी०-104612 के०)—01 सितम्बर 1988।

नायब सूबेदार मदन जाल (जे० सी०-151013 पी०) 01 सितम्बर 1988।

नायब सूबेदार राम फुल (जे० सी०-147725 ए०)—01 सितम्बर 1988।

नायब सूबेदार के पद में

बी० एच० एम० हरभजन सिंह (सं० 1234532 एम अर्ब जे० सी०-176426 के०)—16 नवम्बर 1987।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1987 से दी जायेगी)।

बी० एच० एम० सुरिन्द्र सिंह (सं० 1294110 एल० अर्ब जे० सी०-176427 एम०)—01 नवम्बर 1987।

हवलदार राम सिंह यादव (सं० 1289862 एल० अर्ब जे० सी०-176428 पी०)—06 दिसम्बर 1987।

हवलदार शेर सिंह (सं० 1256873 एकस० अर्ब जे० सी०-176429 एकस०)—22 दिसम्बर 1987।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।

आर० एच० एम० अमरीक सिंह (सं० 1234276 वाई अर्ब जे० सी०-176430 एम०)—01 जनवरी 1988।

हवलदार केशो राम (सं० 1245177 ए अर्ब जे० सी०-176431 पी०)—01 जनवरी 1988।

हवलदार हरेश्वर मेधी (सं० 1296572 डब्ल्यू० अर्ब जे० सी०-176432 एकस०)—01 मार्च 1988।

हवलदार अमरीक सिंह (सं० 1291345 वाई० अर्ब जे० सी०-176433 ए०)—01 मार्च 1988।

बी० एच० एम० बहादुर सिंह (सं० 14305347 एल अर्ब जे० सी०-176434 एच०)—22 मार्च 1988\*।

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मार्च 1988 से दी जायेगी)।

बी० एच० एम० त्रिलोक सिंह (सं० 1243669 ए अर्ब जे० सी०-176435 एल०)—08 मार्च 1988।

बी० एच० एम० विक्रमा राम (सं० 1288225 एच अर्ब जे० सी०-176436 एम०)—08 मार्च 1988।

बी० एच० एम० भानवर सिंह (सं० 1246201 एकस० अर्ब जे० सी०-176437 डब्ल्यू० जे०)—11 मार्च 1988।

हवलदार जगदीश चन्द (सं० 14301278 वाई० अर्ब जे० सी०-176438 वाई०)—11 मार्च 1988।

बी० एच० एम० भुपती कुमार सिन्हा (सं० 1247560 एकस अर्ब जे० सी०-176439 एट्ट०)—25 मार्च 1988।

आर० एच० एम० जितेन्द्रा नाथ सिंह (सं० 14307714 पी० अब जे० सी०-176440 डब्ल्यू०)--25 मार्च 1988।

हवलदार बुधि सिंह राना (सं० 1234497 पी० अब जे० सी०-176441 आई०)--25 मार्च 1988।

हवलदार गजेन्द्रा सिंह (सं० 14325726 एच० अब जे० सी०-176442 एफ०)--25 मार्च 1988।

हवलदार सत्यपाल सिंह (सं० 1292421 ए० अब जे० सी०-176443 के०)--12 अप्रैल 1988।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 1988 से दी जायेगी)।

आर० एच० एम० आशा राम मिस्त्रा (सं० 1292677 एफ० अब जे० सी०-176444 एस०)--01 अप्रैल 1988।

हवलदार मिचल अम्ब्रीसेरुदयानाथन (सं० 1258198 पी० अब जे० सी०-176445 पी०)--01 अप्रैल 1988।

बी० एच० एम० मल्लापपा बालापपा हुकेरी (सं० 1299559 एक्स० अब जे० सी०-176446 एक्स०)--11 अप्रैल 1988।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 88 से दी जायेगी)।

बी० एच० एम० सेवा राम (सं० 1238654 एन० अब जे० सी०-176447 ए०)--01 अप्रैल 1988।

हवलदार वेद प्रकाश (सं० 14304315 डब्ल्यू० अब जे० सी०-176448 एच०)--01 अप्रैल 1988।

बी० एच० एम० अमर सिंह (सं० 1247461 पी० अब जे० सी०-176449 एल०)--04 अप्रैल 1988।

बी० एच० एम० प्रताप सिंह (सं० 1235827 पी० अब जे० सी०-176450 ए०)--03 मई 1988।

आर० एच० एम० राम प्रवीण शर्मा (सं० 14300101 एच० अब जे० सी०-176451 एच०)--04 जून 1988।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार रामू सिंह (सं० 14301206 आई० अब जे० सी०-176452 एल०)--14 मई 1988।

हवलदार हरदयाल सिंह (सं० 1243647 एफ० अब जे० सी०-176453 एन०)--01 जून 1988।

बी० एच० एम० जगदीश चन्व (सं० 1238340 एम० अब जे० सी०-176454 डब्ल्यू०)--09 जून 1988।

हवलदार भीरमल सिंह (सं० 1255624 एम० अब जे० सी०-176455 आई०)--20 जून 1988।

हवलदार अमर सिंह (सं० 1240706 एक्स० अब जे० सी०-176456 एफ०)--10 जुलाई 1988।\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जून 1988 से दी जायेगी)।

आर० एच० एम० हुकम सिंह (सं० 1277392 आई० अब जे० सी०-176457 के०)--01 जुलाई 1988।

बी० एच० एम० जागीर सिंह (सं० 14300108 एम० अब जे० सी०-176458 एम०)--02 जुलाई 1988।

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1988 से दी जायेगी)।

बी० एच० एम० मोहिन्द सिंह (सं० 1275703 एच० अब जे० सी०-176459 पी०)--02 जुलाई 1988।

टी० बी० नायर, डी० ए० अधिकारी

सैप्टिमेंट से कैप्टन

संदीप सिंह (आई० सी०-40813) आर्टिलरी, कमल किशोर (आई० सी०-40814) आर्टिलरी, अनूप भास्कर (आई० सी०-40815) सिगनल्स, विश्वनाथ फरद (आई० सी०-40816) इन्फैन्ट्री, एच० एस० मेहता (आई० सी०-40817) ए० सी०, आर० एस० मान (आई० सी०-40818), इन्फैन्ट्री आर० के० चौपड़ा (आई० सी०-40819) सिगनल्स, जे० एन० गारियाक (आई० सी०-40820), टी० शिवाकुमार (आई० सी०-40821) इन्फैन्ट्री, एस० रामाकृष्णन (आई० सी०-40822) सिगनल्स, अजय सेठ (आई० सी०-40824), जे० सी० रंगरा (आई० सी०-40825) इन्फैन्ट्री, एस० के० तिवारी (आई० सी०-40826) इंजीनियर्स, अमरेन्द्रा कुमार (आई० सी०-40827) इन्फैन्ट्री, जी० आर० एस० राजन (आई० सी०-40828) इंजीनियर्स, संजय बुबे (आई० सी०-40829) ए० एस० सी०, के० के० अनिल कुमार (आई० सी०-40830) इन्फैन्ट्री, एफ० ए० फरुकी (आई० सी०-40831) आर्टिलरी, एस० के० पट्टना (आई० सी०-40832) इन्फैन्ट्री, नवनीत मिश्र (आई० सी०-40833) इंजीनियर्स, शैलेन्द्र शुक्ला (आई० सी०-40834) रमन धाटिया (आई० सी०-40835) इन्फैन्ट्री, दीपेन्द्र मरीन (आई० सी०-40837) बी० ए० ए० नायक (आई० सी०-40838) इन्फैन्ट्री, बलजीत सिंह (आई० सी०-40840) इन्फैन्ट्री, ए० ए० भट्ट (आई० सी०-40841) सिगनल्स, अतुल शर्मा (आई० सी०-40842) इन्फैन्ट्री, अशिश घोष (आई० सी०-40843) इंजीनियर्स, एम० एम० नेहरू (आई० सी०-40844) इन्फैन्ट्री, पी० वींगरा (आई० सी०-40845) परमजीत सिंह निम्बर (आई० सी०-40846), राजीव सेठी (आई० सी०-40847), ए० पी० एस० जोहल (आई० सी०-40848) आर्टिलरी, परमिन्द्र सिंह (आई० सी०-40849) ए० सी०, जाय जोस (आई० सी०-40850) आर० के० नायर (आई० सी०-40851) आर्टिलरी, बी० भट्टाचार्य (आई० सी०-40852) इंजीनियर्स, सुधीर चक्रवर्ती (आई० सी०-40853) ए० एस० सी०, आर० ए० भाटिया (आई० सी०-40854) ए० सी०, राजीव खन्ना (आई० सी०-40856) आर्टिलरी, डी० के० डत्ता (आई० सी०-40858) इन्फैन्ट्री, एम० एस० धर्मे (आई० सी०-40859) ए० एस० सी०, एस० पन्ना (आई० सी०-40860) आर्टिलरी, संजय प्रसाद (आई० सी०-40861) ई० एम० ई०, ए० एस० रावत (आई० सी०-40862) ए० आर० भण्डारी (आई० सी०-40863) इन्फैन्ट्री, कृष्ण लाल (आई० सी०-40865) ए० एम० सी०, एस० के० चांद (आई० सी०-40866) ए० ओ० सी०, के० जे० एम० धालीवाल (आई० सी०-40867) आर्टिलरी,

राजीव मलिक (आई० सी०-40868) इंजीनियर्स, आर० सी० त्रिवेदी (आई० सी०-40869) इन्फैन्ट्री, आर० वेंकटरमन (आई० सी०-40870) इंजीनियर्स, ए० बाला जी (आई० सी०-40872), आर० नागराज (आई० सी०-40873) सिगनल्स, डी० वी० राजू (आई० सी०-40874) संजय राज कोठड़ (आई० सी०-40875) इन्फैन्ट्री, शरभ पचीरी (आई० सी०-40876) इन्फैन्ट्री, जे० एस० रीन (आई० सी०-40877) इंजीनियर्स, आर० आर० कामत (आई० सी०-40878) सिगनल्स, के० एस० गोविन्द (आई० सी०-40879) आर्टिलरी, राजेश दीक्षित (आई० सी०-40880) सिगनल्स, ए० मुखर्जी (आई० सी०-40881) आर्टिलरी, जे० के० तिवारी (आई० सी०-40882), बी०बी० चेरुवत्त (आई० सी०-40883), ए० एस० हरगे (आई० सी०-40884) इन्फैन्ट्री, आर० सी० बर्गिस (आई० सी०-40885) इंजीनियर्स, टी० एस० सन्धू (आई० सी०-40887) ए० सी० आर० एस० नाथ (आई० सी०-40888) इन्फैन्ट्री, एन० के० ऊनी (आई० सी०-40889) सिगनल्स—24 दिसम्बर, 1987।

विजय रत्न (आई० सी०-40742) ई० एम० ई०, वी० पी० पी० मेनन (आई० सी०-40743) सिगनल्स, संदीप थापर (आई० सी०-40744) इन्फैन्ट्री, यदुबिन्द्र बी० सूरी (आई० सी०-40745) आर्टिलरी, के० ए० चिनप्पा (आई० सी०-40746) इन्फैन्ट्री, एच० के० अरोड़ा (आई० सी०-40748) इंजीनियर्स, पी० एस० पनेर (आई० सी०-40749) सिगनल्स, एम० श्रीनिवासन (आई० सी०-40750) इंजीनियर्स, सुरेन्द्र कुमार (आई० सी०-40751) दीपक सेनी (आई० सी०-40752) आर्टिलरी, एम० जे० एस० केह्लों (आई० सी०-40753) ए० सी० विनायक भट (आई० सी०-40756), विक्रम साहनी (आई० सी०-40757) जोगिन्द्र सिंह (आई० सी०-40758) इन्फैन्ट्री, विरेन्द्र सिंह (आई० सी०-40759) ए० सी०, बी० एम० श्रीनिवासन (आई० सी०-40760) इन्फैन्ट्री, शैलेश गौतम (आई० सी०-40761) ए० सी०, रोहित दपूर (आई० सी०-40762) इन्फैन्ट्री, मृगिन्द्र सिंह (आई० सी०-40763) सिगनल्स, रवि मेनन (आई० सी०-40764) आर्टिलरी, पी० के० नेहन्ती (आई० सी०-40765) सिगनल्स, प्रताप सिंह (आई० सी०-40766) ए० ओ० सी०, एम० के० शर्मा, (आई० सी०-40767) इन्फैन्ट्री, एम० जी० हरीमोहन (आई० सी०-40769), य० टी० बाबू (आई० सी०-40770) आर्टिलरी, जिदा उर रहगान् (आई० सी०-40771), इंजीनियर्स, सैयद अलिमुद्दीन (आई० सी०-40772), नरेश राजोर (आई० सी०-40773), इन्फैन्ट्री, निशेष झालानी (आई० सी०-40774) इंजीनियर्स, ए० एस० कंधारी (आई० सी०-40775), ई० एम० ई०, शिव दयाल (आई० सी०-40776) ए० एस० सी०, एम० एस० नसवात (आई० सी०-40777), बलबीर सिंह (आई० सी०-40778), इन्फैन्ट्री, सुरेश कुमार (आई० सी०-40779), ए० एस० सी०, एम० एस०

(आई० सी०-40781), एम० एस० मान (आई० सी०-40782), इन्फैन्ट्री, वी० के० एच० सिंगल (आई० सी०-40783), इन्फैन्ट्री, आर० के० खेजा, (आई० सी०-40784) ई० एम० ई०, संजीव चंदेल (आई० सी०-40786), इन्फैन्ट्री, आर० के० सुभ्रामनी (आई० सी०-40787), ई० एम० ई०, बी० के० शर्मा (आई० सी०-40788), आर्टिलरी, आर० एन० एस० सिधल (आई० सी०-40789), सुनील मसीन (आई० सी०-40790), संजीव शर्मा (आई० सी०-40791), डी० ए० चतुर्धेदी (आई० सी०-40792), नसंत राव पी० शिंदे (आई० सी०-40793), इन्फैन्ट्री, बी० एस० नारंग (आई० सी०-40794), सिगनल्स, संजीव नारायण (आई० सी०-40795), आर० पी० एस० संधु (आई० सी०-40796) इन्फैन्ट्री, डी० एस० गहिया (आई० सी०-40797), इंजीनियर्स, के० पी० आर० हरी (आई० सी०-40798) बकी नदोल (आई० सी०-40799), इन्फैन्ट्री, वी० डी० अब्राहम (आई० सी०-40800), ई० एम० ई०, आर० के० बंसोपाल (आई० सी०-40801), इन्फैन्ट्री, राजीव धई (आई० सी०-40802), ई० एम० ई०, ए० के० आनन्द (आई० सी०-40803), इन्फैन्ट्री, दंग विजय सेतिया (आई० सी०-40804) जी० एस० शंकर (आई० सी०-40805) आई० जे० एस० हडल (आई० सी०-40806) आर्टिलरी जी० के० शर्मा (आई० सी०-40807), हरपाल सिंह पन्तू (आई० सी०-40808), डी० एस० भट्टी (आई० सी०-40810), इन्फैन्ट्री, पी० एम० बरत (आई० सी०-40812) इन्फैन्ट्री—24 दिसम्बर, 1987।

एस० सुरेश कुमार (आई० सी०-37865), पी० एस० दहिया (आई० सी०-37866), पी० पुरुषोत्तमन (आई० सी०-37867), पी० एस० गिल (आई० सी०-37868), इन्फैन्ट्री, जी० के० गजु (आई० सी०-37869), ए० एस० सी०, सुरेशिन्द्र सिंह (आई० सी०-37870), जी० एस० बंस (आई० सी०-37871), ए० सी०, वी० के० मार्क (आई० सी०-37872), इन्फैन्ट्री, अजालकुमारराने (आई० सी०-37873) पी० राभन (आई० सी०-37874), इंजीनियर्स, गुरुदेव सिंह (आई० सी०-37875), इन्फैन्ट्री, निर्मल सिंह (आई० सी०-37876), आर्टिलरी, दिनेश शर्मा (आई० सी०-37877), इन्फैन्ट्री, ए० के० शर्मा (आई० सी०-37878), आर्टिलरी, भवानी सिंह (आई० सी०-37879), आर० पी० शहता, (आई० सी०-37880), हरदप शर्मा (आई० सी०-37881), इन्फैन्ट्री, दलीप सिंह (आई० सी०-37882), ए० ओ० सी०, अगरेक सिंह (आई० सी०-37883), इन्फैन्ट्री, प्रदीप श्रवास्तव (आई० सी०-37884), ए० ओ० सी०, वी० के० सेनी, (आई० सी०-37885), आर्टिलरी, विनेश कुमार (आई० सी०-37887), आर्टिलरी, वी० सी० जोशी, (आई० सी०-37888), इन्फैन्ट्री, कमलदीप सिंह (आई० सी०-37889), ए० सी० अशोक सिंह (आई० सी०-37890), राकेश कुमार सिंह (आई० सी०-37891), इन्फैन्ट्री, अश्विनी कुमार (आई० सी०-37892), आर्टिलरी, रजिन्द्रन सी नायर (आई० सी०-37893), इन्फैन्ट्री, दिलीवर नाथ (आई० सी०-37894),

आर्टीलरी, हरीश जोशी, (आई० सी०-37895), राम दत्त शर्मा (आई० सी०-37896), डी० पी० एन० सोपौरी (आई० सी०-37897), इन्फैन्ट्री, गजराज सिंह (आई० सी०-37898) ए० सी० के० राजनविक्रम (आई० सी०-37899), सिगनल्स मुलमा रवी (आई० सी०-378900), इन्फैन्ट्री, आर० एस० दत्ता (आई० सी०-37901) आर्टीलरी, दलीप कुमार सिंह (आई० सी०-37902) सिगनल्स, एस० एस० भुल्लर, (आई० सी०-37903), इन्फैन्ट्री, सोमनाथ प्रहासन (आई० सी०-37904), सिगनल्स, अशोक कुमार (आई० सी०-37905), ए० ओ० सी०, ए० के० कोतवाल (आई० सी०-37906), ए० सी०, मलूक सिंह (आई० सी०-37907) सिगनल्स, एच० सी० आर० के० नायर (आई० सी०-37908), ए० एस० सी० नागयन अय्यर, (आई० सी०-37909), ए० ओ० सी०, त्रिन्द्र सिंह (आई० सी०-37911), ए० एस० सी०, पंकलकुलश्रेष्ठ (आई० सी०-37912), पी० एम० ए०, भास्टा (आई० सी०-37913), इन्फैन्ट्री, एस० पी० विलेकर, (आई० सी०-37914), ए० सी०, राजश्वर सिंह (आई० सी०-37915), ए० ओ० सी०, बी० एस० यादव (आई० सी०-37917), इन्फैन्ट्री, के० शतीश आगर (आई० सी०-37918), ई० एम० ई०, मारियो मरिमा (आई० सी०-37919), ए० ओ० सी०, एम० एस० चिकारा (आई० सी०-37920), इन्फैन्ट्री—27 अप्रैल, 1987।

आर० एस० पुरी (आई० सी०-42678), इंजीनियर्स, जे० पी० सिंह (आई० सी०-42679), ई० एम० ई०; सी० बी० एस० सहगल (आई० सी०-42681), इंजीनियर्स के० एस० आजाद (आई० सी०-42682), के० आर० बाबू, (आई० सी०-42683), जी० वेंकटरमन (आई० सी०-42684), पुरुषोत्तम कुमार (आई० सी०-42685), इंजीनियर्स एच० के० त्रिवेदी (आई० सी०-42686), सिगनल्स, डी० जे० पाठक (आई० सी०-42688), एन० के० यादव (आई० सी०-42689), इंजीनियर्स, राकेश कौल, (आई० सी०-42691), अशोक कुमार कोछड़ (आई० सी०-42693), सिगनल्स, राम दुलार सिंह (आई० सी०-42695), ई० एम० ई०, संजीव मुप्ता, (आई० सी०-42697), इंजीनियर्स, ए० के० जितल (आई० सी०-42699), एस० पी० जी० नायर (आई० सी०-42700), के० मेशासाय (आई० सी०-42701), इंजीनियर्स, आर० यादव (आई० सी०-42702) ई० एम० ई०, जगमोहन दुर्गापाल (आई० सी०-42703), सिगनल्स, संजय बाजपई (आई० सी०-42708) इंजीनियर्स, एस० मलाडी (आई० सी०-42710), ई० एम० ई०, एस० आर० धरमाजी (आई० सी०-42711) इंजीनियर्स, कृष्णचन्द (आई० सी०-42713), पी० ए० भीकाजी (आई० सी०-42715) इंजीनियर्स, वी० एन० मूर्ती (आई० सी०-42716), इंजीनियर्स, दीपक दीक्षित (आई० सी०-42717) ई० एम० ई०, ए० के० पाण्डे (आई० सी०-42723), इंजीनियर्स, डी० राठौर (आई० सी०-42724), वी० के० सिंह (आई० सी०-42725), सरवजीत सिंह (आई० सी०-42728), सिगनल्स, अलोक गायल (आई० सी०-42730), इंजीनियर्स, पी० प्राफल (आई० सी०-42734)

सिगनल्स, एन० यू० शेख (आई० सी०-42735) इंजीनियर्स, डी० के० बरथवाल (आई० सी०-42737), अश्विनी कुमार (आई० सी०-42740), सिगनल्स, ब्रह्मन्त सिंह (आई० सी०-42744) इंजीनियर्स—25 दिसम्बर, 1987।

ए० के० सान्याल (आई० सी०-40679), ए० सी०, पी० नागेश राव (आई० सी०-40680) इन्फैन्ट्री, के० मधुकर (आई० सी०-40681) ए० सी०, ए० एस० करकी (आई० सी०-40682), इन्फैन्ट्री, एस० पी० यादव (आई० सी०-40683) ई० एम० ई०, संजीव सहगल (आई० सी०-40684), इंजीनियर्स, राज शुक्ला (आई० सी०-40685), आर्टीलरी, के० ए० वी० भास्कर (आई० सी०-40686), इंजीनियर्स, एस० राजा शेकरन (आई० सी०-40687), ए० ओ० सी०, विजय सिंह रन (आई० सी०-40688), इन्फैन्ट्री, आर० एस० कोछड़ (आई० सी०-40689) ई० एम० ई०, तेजिन्द्र सिंह (आई० सी०-40690), ए० सी० अजय शर्मा (आई० सी०-40691) इंजीनियर्स, एस० वेदानायाभग (आई० सी०-40692), इन्फैन्ट्री, एस० के० पतीग्रही (आई० सी०-40693), आर्टीलरी, राम अवतार (आई० सी०-40694), इन्फैन्ट्री जे० एस० त्रिक (आई० सी०-40695), राजेश कुमार (आई० सी०-40696), ए० सी०, वी० वी० चन्द्रन, (आई० सी०-40697), एस० के० डी० पटनायक (आई० सी०-40698) इन्फैन्ट्री, केम्पाराज, सीताराम (आई० सी०-40699) इंजीनियर्स, संजय थापा (आई० सी०-40700), के० एस० शेखावत (आई० सी०-40701) आर्टीलरी, अजय तलवार (आई० सी०-40702), इन्फैन्ट्री, हरपाल सिंह (आई० सी०-40703) इंजीनियर्स, गजराज सिंह राना (आई० सी०-40704), ई० एम० ई०, अरुण शर्मा (आई० सी०-40705), इंजीनियर्स, रघुपाल सिंह (आई० सी०-40706) ए० सी०, डी० एस० गिल (आई० सी०-40707), आर्टीलरी, आई० एस० सिंह (आई० सी०-40708), ए० सी०, अजय अहलुवालिया, (आई० सी०-40709) इंजीनियर्स, सुरेन्द्र मेहता (आई० सी०-40710), टी० एस० सिन्हा (आई० सी०-40712), कुलदीप मेहता (आई० सी०-40713), इन्फैन्ट्री, बी० जी० गिलगांभी (आई० सी०-40714), सिगनल्स, आर० एस० रथोड़ (आई० सी०-40715), इन्फैन्ट्री, एम० सी० पाण्डे (आई० सी०-40716), इंजीनियर्स, संदीप धवन (आई० सी०-40717), एम० एस० पंवर (आई० सी०-40718), एस० नीरज राय (आई० सी०-40719), संदीप शर्मा (आई० सी०-40720), प्रीथी सिंह (आई० सी०-40721), इन्फैन्ट्री, कुलप्रीत सिंह (आई० सी०-40722), ए० सी०, बी० एस० संधू (आई० सी०-40723), इन्फैन्ट्री, आर० एस० पठानिया (आई० सी०-40724), इंजीनियर्स, परमजीत सलुजा (आई० सी०-40725), इन्फैन्ट्री, आर० पी० एस० दिल्लन (आई० सी०-40726), आर्टीलरी, आर० के० चौधरी (आई० सी०-40727), सिगनल्स, ए० के० सिराही, (आई० सी०-40728) ए० एस० सी०, डी० जे० एस० कटकर (आई० सी०-40729) इन्फैन्ट्री, ए० के० मुखर्जी (आई० सी०-40730), सिगनल्स एस० यू० आर० दशरथ (आई० सी०-40732), इन्फैन्ट्री, जाज जोसेफ (आई० सी०-40733), नवीन संभरवाल (आई०

सी०-40734), आर्टीलरी, एम० एस० सलारिया (आई० सी०-40735), इन्फैन्ट्री, एम० के० मुखर्जी (आई० सी०-40736), जी० जगजीव (आई० सी०-40737), एस० के० लखर (आई० सी०-40738), आर्टीलरी, बी० के० कोतवाल (आई० सी०-40739), बी० आर० हुडा (आई० सी०-40740), बी० एस० संघु (आई० सी०-40741), इन्फैन्ट्री—24 दिसम्बर, 1987।

एस० ए० घाबालगी (आई० सी०-37798), इन्फैन्ट्री एस० एस० बबशी (आई० सी०-37799) ए० ओ० सी०, राजन मगून (आई० सी०-37800), इर्ज नरिस, एच० के० तिवारी, (आई० सी०-37802), रमेश मूर्ति (आई० सी०-37803), विजय सिंह (आई० सी०-37805), इन्फैन्ट्री, एम० एन० एम० बाबू (आई० सी०-37806), सिगनल्स, आत्मासरण (आई० सी०-37807) ए० सी०, जे० मुखर्जी (आई० सी०-37808) आर्टीलरी, के० एस० चोहान (आई० सी०-37809), आर्टीलरी, के० एम० मैथ्यू (आई० सी०-37810) इन्फैन्ट्री, एस० टी० रेड्डी (आई० सी०-37811) आर्टीलरी, एम० जे० के० चेरियन (आई० सी०-37812) इन्फैन्ट्री, विनीता (आई० सी०-37813), इन्फैन्ट्री, प्रमोद सिंह (आई० सी०-37814) ए० ओ० सी०, एम० एस० सहोता (आई० सी०-37815) इन्फैन्ट्री, आर० पी० एस० राय (आई० सी० 37816) ए० ओ० सी०, के० आर० स्वामी (आई० सी०-37817), ई० एम० ई०, डी० एस० संघु (आई० सी०-37818), आर्टीलरी, शिंशरपाण्डे (आई० सी० 37819), ए० ओ० सी०, सुनील बख्शी, (आई० सी०-37820), पी० सी० नैथानी (आई० सी०-37821), इन्फैन्ट्री, बी० ए० शाहने (आई० सी०-37823), विक्रम शर्मा (आई० सी०-37824), जे० एस० सुहाग (आई० सी०-37825), एस० एस० फ़ोगट (आई० सी०-37827), श्री ओम सिंह (आई० सी०-37828), इन्फैन्ट्री, टी० के० बसु (आई० सी०-37829), सिगनल्स, राजेश सिंह (आई० सी०-37830), बी० सुब्बा (आई० सी०-37831), आर० एस० पुदीर (आई० सी०-37832), पवन कुमार (आई० सी०-37833) इन्फैन्ट्री, एल० चक्रवर्ती (आई० सी०-37835) इन्फैन्ट्री, एन० के० मोहन (आई० सी०-37836), एम० एम० वगिस (आई० सी०-37837) आर्टीलरी, नरेश कुमार (आई० सी०-37838), ए० ओ० सी०, डी० सी० वी० शाह (आई० सी०-37839), इन्फैन्ट्री, राजेश गंगोले (आई० सी०-37840) आर्टीलरी, किंशोर कुमार (आई० सी०-37841), ए० ओ० सी०, जी० डी० एस० रंधावा (आई० सी०-37842), ए० सी०, मोनीगोमरी (आई० सी०-37843), इन्फैन्ट्री, पी० सी० कुमार (आई० सी०-37844), इंजीनियर्स, के० आर० एस० शुक्ला (आई० सी०-37846), आर्टीलरी, जे० के० थापा (आई० सी०-37848) इन्फैन्ट्री, एस० मलिक (आई० सी०-37850), ए० सी०, सुशील सिंह (आई० सी०-37851), राजेश मिश्रा (आई० सी०-37852), इन्फैन्ट्री, के० वी० पी० एस० हुंडल (आई० सी०-37853), ए० एस० सी०, राजीव माधुर (आई० सी०-37854) ए० सी० —12 नवम्बर, 1986।

प्रशांत रावल (आई० सी०-37801) ए० सी०—19 जनवरी 1987।

लेफ्टिनेंट से कैप्टन

दीपक शर्मा (आई० सी०-41814) इंजीनियर्स, आर० जी० गीस्वामी (आई० सी०-41817) ई० एम० ई०, यू० एस० नरवल (आई० सी०-41819) ई० एम० ई०, एस० पी० राव मगापु (आई० सी०-41821) इंजीनियर्स, एलेक्संडर मैथ्यू (आई० सी०-41825) ई० एम० ई०, वी० के० ए० वी० वी० वेंकट (आई० सी०-41831) इंजीनियर्स, श्रील कुमार (आई० सी०-41835) इंजीनियर्स, सतिन्द्र कुमार सिंह (आई० सी०-41838) सिगनल्स,—20 दिसम्बर 1986।

डी० एच० परब, लै० कर्नल ए० एम० एस०-8

आर० आर० यादव (वी०-352)—17-7-1984 इस पद के लिए ज्येष्ठता की तिथि 16-10-1980

एम० एस० परमार (वी०-354)—167-1985

इस पद के लिए ज्येष्ठता की तिथि 03-9-1981।

सेना सेवा कोर

(पूर्ति)

नायब सूबेदार व्यक्तिगत सहायक के रैंक में

हवलदार गोजाला कृष्णन अत्रूर (14207333वीं अक्ष जे० सी०-175693वाई)—26 फरवरी 1988 (क)

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1987 से दी जाएगी।

हवलदार रुसतम सिंह (14280658 एल अक्ष जे० सी०-175694एफ)—01 फरवरी 1988 (ख)

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1987 से दी जाएगी।

हवलदार शलेन्द्रा कुमार सिंह (7765943ए अक्ष जे० सी०-175695के)—12 फरवरी 1988 (ग)

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1988 से दी जाएगी।

हवलदार हुसैन मोहम्मद मुबारक (14504321 एन अक्ष जे० सी०-175696एम)—25 फरवरी 1988 (घ)

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी 1988 से दी जाएगी।

हवलदार विद्या नाथ सिंह (4250042 एल अक्ष जे० सी०-175697पी)—18 मार्च 1988 (ङ)

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1988 से दी जाएगी।

हवलदार प्रेम चन्द गोस्वामी (1256141 एम अक्ष जे० सी०-175698एक्स)—11 मार्च 1988 (च)

हवलदार अब्बास निडूवनचेरी (14307038एफ अक्ष जे० सी०-175699ए)—04 मई 1988 (छ)

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1988 से दी जाएगी।

सैनिक शिक्षा कोर  
सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विशाचन्द्र पन्त (जे० सी०-112636 एफ) — 01 अक्टूबर 1988

नायब सूबेदार इन्द्राण (जे० सी०-112639 डब्ल्यू) — 01 अक्टूबर 1988

नायब सूबेदार धरम पाल सिंह (जे० सी०-113837एन) — 01 अक्टूबर 1988

नायब सूबेदार शिवावर सरा सिंह (जे० सी०-113812 एफ) — 01 अक्टूबर 1988

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह त्यागी (जे० सी०-115916 एफ) — 01 अक्टूबर 1988

नायब सूबेदार तेज सिंह (जे० सी०-113841 डब्ल्यू) — 01 अक्टूबर 1988

नायब सूबेदार राम धरण सिंह चौहान (जे० सी०-113813 के) — 01 अक्टूबर 1988

नायब सूबेदार भृगुनाथ राम (जे० सी०-115904एम) — 01 अक्टूबर 1988

नायब सूबेदार देवप्रताप हणदर (जे० सी०-113815पी) — 01 अक्टूबर 1988

नायब सूबेदार रज्जुपाल सिंह (जे० सी०-113821एच) — 01 अक्टूबर 1988

वी० सी० मंडल, प्रथम सचिव

ग्रामपंचना कोर

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार मंगल राम (सं० 3968070 एक्स अरब जे० सी०-175882एच) — 29 जून 1988

नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मई 1988 से दी जाती है।

हवलदार मलूक चन्द चटोपाध्याय (सं० 14305209 के अरब जे० सी०-175883एल) — 12 अगस्त 1988

नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मई 1988 से दी जाती है।

हवलदार रूप चन्द (सं० 3968814 डब्ल्यू अरब जे० सी०-175884एन) — 01 जुलाई 1988

हवलदार देवानन्द रतूड़ी (सं० 4052209पी अरब जे० सी०-175885 डब्ल्यू) — 08 अगस्त 1988

नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 1988 से दी जाती है।

हवलदार म.प्रति सिंह (सं० 1252036ए अरब जे० सी०-175886वाई) — 01 अगस्त 1988

हवलदार मदन लाल शर्मा (सं० 3968020 एल अरब जे० सी०-175887एफ) — 01 अगस्त 1988

हवलदार कृष्ण दत्त (सं० 4162564 वाई अरब जे० सी०-175888के) — 11 अगस्त 1988

नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 1988 से दी जाती है।

हवलदार भरत सिंह (सं० 13837916एन अरब जे० सी०-175889एम) — 01 अगस्त 1988

हवलदार अरमुगम पी० (सं० 14313813पी अरब जे० सी०-175890एफ) — 03 अगस्त 1988

नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 1988 से दी जाती है।

हवलदार गुरेमुख सिंह (सं० 13838150एम अरब जे० सी०-175891के) — 08 अगस्त 1988

नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 1988 से दी जाती है।

नायब सूबेदार/लिपिक के पद में

हवलदार/लिपिक जसवंत सिंह राणा (सं० 6645929एफ अरब जे० सी०-175892एम) — 07 अगस्त 1988

सूबेदार के पद में

नायब सूबेदार जगवीर चन्द (जे० सी०-115986ए) — 01 जुलाई 1988

नायब सूबेदार उदयभान सिंह रजावत (जे० सी०-115987-एच) — 01 जुलाई 1988

नायब सूबेदार संगारा सिंह धोतरा (जे० सी०-118942-एन) — 01 जुलाई 1988

नायब सूबेदार राज कुमार (जे० सी०-118944वाई) — 01 जुलाई 1988

नायब सूबेदार आत्मा राम (जे० सी०-118946के) — 01 जुलाई 1988

नायब सूबेदार पूरन सिंह कैरा (जे० सी०-118947एम) — 01 जुलाई 1988

नायब सूबेदार सोम नाथ (जे० सी०-118949एक्स) — 01 जुलाई 1988

नायब सूबेदार मंगल सिंह (जे० सी०-118961वाई) — 01 जुलाई 1988

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह थापा (जे० सी०-120409-एक्स) — 01 अगस्त 1988

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह शाह (जे० सी०-118962एफ) — 01 अगस्त 1988

नायब सूबेदार हिमालय देवनाथ (जे० सी०-118963-एक्स) — 01 अगस्त 1988

नायब सूबेदार जय सिंह (जे० सी०-124222वाई) — 01 अगस्त 1988

नायब सूबेदार हेम सिंह वर्मा (जे० सी०-124188एक्स) — 01 अगस्त 1988

नायब सूबेदार शिवनाथ सिंह चौहान (जे० सी०-124199ए) — 01 अगस्त 1988



नायब सूबेदार बसन्त सिंह दिल्ली (जे० सी०-124200के)  
01 सितम्बर 1988

नायब सूबेदार प्रभात कुमार पाठक (जे० सी० 124201—  
एम)—01 सितम्बर 1988

नायब सूबेदार चन्द्र भात (जे० सी०-124202पी)—  
01 सितम्बर 1988

नायब सूबेदार दयो कमल गौतम (जे० सी०-124213एफ)  
01 सितम्बर 1988

सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार (लिपिक) सुदागर चन्द (जे० सी०- 118958  
बाई)—01 अगस्त 1988

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार द्रगपाल सिंह राजपूत (जे० सी०-109510एक्स)—  
01 जुलाई 1988

सूबेदार कोईपुराथु जोसफ (जे० सी०-100518एच)—  
01 अगस्त 1988

सूबेदार चन्द्र सिंह (जे० सी०-100520ए)—01 अगस्त  
1988

सूबेदार जोगेन्द्र सिंह (जे० सी०-100522एल)—01  
सितम्बर 1988

वि० धर्माराम, डेस्क अधिकाारी

तीर खाना रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

बी०एच०एम० रामेश्वर (सं० 1281463एम अत्र जे० सी०-  
175484एम)—01 मार्च 1987

बी०एच०एम० रमेश चन्द्रा दुबे (सं० 1245065ए)—  
अत्र जे० सी०-175485ए)—20 मार्च 1987

हवलदार पीपल सिंह (सं० 1290174 बाई अत्र जे० सी०-  
175486एक्स)—24 फरवरी 1988\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 31 मार्च 1987 से दी जाएगी)।

बी०क्यू० एच० एम० सुरिन्द्र सिंह (सं० 1277019वाई  
अत्र जे० सी०-175487ए)—01 अप्रैल 1987

हवलदार धन बहादुर मल (सं० 1295818एक्स अत्र  
जे० सी०-175488एच)—20 अप्रैल 1987

हवलदार काहेर सिंह (सं० 1243892 के अत्र जे० सी०-  
175489एल)—01 जून 1987

बी०एच०एम० देबोलीरा ईहवासू (सं० 14313024एक्स  
अत्र जे० सी०-175490पी)—22 नवम्बर 1987\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 14 जून 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार कुनवर सिंह (सं० 1253466के अत्र जे० सी०-  
175491 एक्स)—17 जून 1987

हवलदार इन्दराज सिंह (सं० 1237166 बाई अत्र जे० सी०-  
175492ए)—07 सितम्बर 1987\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार तुलसाराम (सं० 11144127 एल अत्र जे०  
सी०-175493एच)—08 सितम्बर 1987

हवलदार नरपत सिंह जोधा (सं० 14300904पी अत्र जे०  
सी०-175494एल)—26 सितम्बर 1987

हवलदार मोहिन्द्र सिंह (सं० 1262791एल अत्र जे० सी०-  
175495एल)—26 सितम्बर 1987

हवलदार एम० राधाकृष्णन (सं० 1239483बाई अत्र जे०  
सी०-175496 डब्ल्यू)—25 जनवरी 1988\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 1987 से दी जाएगी)

बी०एच० एम० जगन सिंह (सं० 1280727 डब्ल्यू अत्र जे०  
सी०-175497वाई)—09 अक्टूबर 1987\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1987 से दी जाएगी)

हवलदार मचीन्द्रा पावर (सं० 1293386पी अत्र जे० सी०-  
175498एफ)—25 अक्टूबर 1988\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार केहर सिंह (सं० 1292740एम अत्र जे० सी०-  
175499के)—01 अक्टूबर 1987

बी०एच०एम० राजोले तिवारी (सं० 14306210एल अत्र  
जे० सी०-175500एन)—23 अक्टूबर 1987

बी०एच० एम० बन्सपति प्रसाद तिवारी (सं० 1245840  
एम अत्र जे० सी० 175501डब्ल्यू)—01 नवम्बर 1987

हवलदार भूपाल सिंह (सं० 1237327बाई अत्र जे० सी०-  
175502वाई)—01 नवम्बर 1987

हवलदार अंकार सिंह (सं० 1240800एफ अत्र जे० सी०-  
175503एफ)—05 नवम्बर 1987\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1987 से दी जाएगी)।

आर०एच०एम० जरनेल सिंह (सं० 14311537एन अत्र  
जे० सी०-175504के)—11 नवम्बर 1987\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1987 से दी जाएगी)।

बी०क्यू० एम० एच० राम पाल सिंह (सं० 1289674के  
अत्र जे० सी०-175505एम)—01 नवम्बर 1987

हवलदार सीताराम (सं० 14303747वाई अत्र जे० सी०-  
175506पी)—06 नवम्बर 1987

हवलदार जेधे हमबीराओ सरजेराओ (सं० 1266368एच  
अब जे०सी०-175507एफ)---06 नवम्बर 1987

बी०एच०एच० वसन्त आउटादे (सं० 1247502एन अब  
जे० सी०-175508ए)---06 नवम्बर 1987

हवलदार निक्कु राम (सं० 1248660पी अब जे०सी०-  
175509एच)---30 नवम्बर 1987

बी०एच० एम० कश्मीर सिंह (सं० 1288341एल अब  
जे०सी०-175510एक्स)---08 जनवरी 1988\*

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्योत्ता 01 दिसम्बर 1987 से दी जाएगी।

हवलदार नसीब सिंह (सं० 1252461वाई अब जे०सी०-  
175511ए)---01 दिसम्बर 1987

हवलदार जय नारायण (सं० 1279945एच अब जे०सी०-  
175512एच)---01 दिसम्बर 1987

बी०एच०एम० भूप सिंह (सं० 1275773एफ अब जे०सी०-  
175513एल)---01 दिसम्बर 1987

हवलदार शेर सिंह (सं० 1279991 एक्स अब जे०सी०-  
175514एन)---01 दिसम्बर 1987

बी०एच०एम० राम दत्त (सं० 1241544के अब जे०सी०-  
175515डब्ल्यू)---01 दिसम्बर 1987

बी०एच० एम० कादुरा सिन्हा (सं० 11228695-  
एफ अब जे०सी०-175516वाई)---01 जनवरी 1988

हवलदार सुरेन्द्रा प्रसाद सिंह (सं० 1281759एल अब  
जे०सी०-175517एफ)---04 जनवरी 1988

बी०एच०एम० शेर सिंह (सं० 1239031 डब्ल्यू अब जे०  
सी०-175518के)---27 जनवरी 1988

बी०एच०एम० बृज लाल (सं० 1232764एम अब जे०सी०-  
175519एम)---30 जनवरी 1988

हवलदार मोती सिंह (सं० 1254982 एल अब जे०सी०-  
175520एफ)---01 फरवरी 1988

हवलदार ब्रह्मानन्द (सं० 1231451एफ अब जे०सी०-  
175521के)---01 फरवरी 1988

बी०एच० एम० हारेन्द्रा सिंह मोरिया (सं० 1231336  
एफ अब जे०सी०-175522एम)---05 फरवरी 1988

हवलदार तारा सिंह (सं० 1297420 एफ अब जे०सी०-  
175523पी)---01 मार्च 1988

सब्सटेन्टिव सूबेदार मेजर (जी०डी०) के पद में

सूबेदार गुरजीत सिंह (जे०सी०-94279ए)---01 अगस्त  
1988

सूबेदार रूप सिंह (जे०सी०-94282ए)---01 अगस्त  
1988

सूबेदार सुखदेव सिंह (जे०सी०-95000एच)---01 अगस्त  
1988

सूबेदार मूलराज (जे०सी०-100124के)---01 सितम्बर  
1988

सूबेदार देवेप्रवर सिंह (जे०सी०-96677ए)---01 सितम्बर  
1988

सूबेदार मदन लाल (जे०सी०-97040एच)---01 सितम्बर  
1988

सूबेदार भंवर सिंह (जे०सी०-100144एक्स)---01  
सितम्बर 1988

सूबेदार राम फल (जे०सी०-92982पी)---01 सितम्बर  
1988

सूबेदार गुरचरण सिंह (जे०सी०-97076एफ)---01  
सितम्बर 1988

सूबेदार रामसिंह (जे०सी०-90153एच)---01 सितम्बर  
988

सूबेदार रामपाल यादव (जे०सी०-90165एक्स)---01  
सितम्बर 1988

सूबेदार सुखराज (जे०सी०-91429ए)---01 सितम्बर  
1988

सूबेदार सुखदेव सिंह (जे०सी०-91421एन)---01  
सितम्बर 1988

सूबेदार गोविन्दामामी कालिया पेरूमल (जे० सी०-95128  
एन०), 01 सितम्बर, 1988।

सूबेदार जरनैल सिंह (जे० सी०-97046 के०), 01  
सितम्बर, 1988।

सूबेदार हर लाल सिंह (जे० सी०-106985 डब्ल्यू०),  
01 सितम्बर, 1988।

सूबेदार कुरुक्कसिरील कुन्जूपति केन पपपोत्तमन (जे० सी०-  
95130 एल०), 01 सितम्बर, 1988।

सूबेदार गुरुस्वामी पिरूमल (जे० सी०-94590 ए०),  
01 सितम्बर, 1988।

सूबेदार पोपंट पदवाल (जे० सी०-95153 एम०), 01  
सितम्बर, 1988।

सूबेदार रामन नाथर सिवन कुट्टी नाथर (जे० सी०-91814  
के०), 01 सितम्बर, 1988।

सब्सटेन्टिव सूबेदार (एफ० जी० ए०) के पद में

नायब सूबेदार हीरा लाल (जे० सी०-125635 वाई०),  
01 सितम्बर, 6988।

नायब सूबेदार दीना नाथ (जे० सी०-123727 एम०),  
01 सितम्बर, 1988।

सब्सटेन्टिव सूबेदार (ओ० ई० एम०) के पद में

नायब सूबेदार गोपाल प्रसाद (जे० सी०-169796एफ०),  
13 मई, 1988।

सब्सटेन्टिव सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जे० सी०-123492 एल०),  
01 अप्रैल, 1987।

- नायब सूबेदार राम लड्डू शर्मा (जे० सी०-124491 पी०), 01 अप्रैल, 1987।
- नायब सूबेदार धीरेंद्रा प्रसाद सिंह (जे० सी०-140464 पी०), 01 अप्रैल, 1987।
- नायब सूबेदार माला राम (जे० सी०-144361 एन०), 01 जुलाई, 1987।
- नायब सूबेदार नसीब सिंह (जे० सी०-140463 एम०), 01 सितम्बर, 1987।
- नायब सूबेदार रोहिताशवा (जे० सी०-147144 एच०), 01 दिसम्बर, 1987।
- नायब सूबेदार मुरजीत सिंह (जे० सी०-124449 डब्ल्यू०), 01 जून, 1988।
- नायब सूबेदार करम सिंह (जे० सी०-123796 एच०), 28 जुलाई, 1987।
- नायब सूबेदार जैवीर सिंह (जे० सी०-134798 एन०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार कलिअप्पा बालासुब्रामनियन (जे० सी०-134677 एम०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार धनुसामी बालकृष्णन (जे० सी०-137179 एल०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार बाबाचन ए० वी० (जे० सी०-139355 डब्ल्यू०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार मलकित सिंह (जे० सी०-159366 के०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार पालियाकरा पावुअन्टोनी (जे० सी०-139322 एल०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार रूप चन्द (जे० सी०-139478 एच०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार गुरेशर भोजी राम (जे० सी०-137714 ए०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जे० सी०-139268 एच०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार चेल्लाप्पन (जे० सी०-142097 एम०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार मोहनन पीम्मीलेरी कोरोथ (जे० सी०-140171 के०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-146258 एफ०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार पियार सिंह (जे० सी०-151885 एक्स०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार तुकाराम शोबाले (जे० सी०-146284 एच०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार एप्पासामी कृष्णा मूर्ति (जे० सी०-144067 एन०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार शिव चरन लाल (जे० सी०-148074 एफ०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार राम नार्थसिंह (जे० सी०-148123 वाई०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार रघुबीर सिंह राय (जे० सी०-150477 वाई०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार उदय राम (जे० सी०-149901 एल०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार कनवार सिंह (जे० सी०-150428 एक्स०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार सवारियप्पन सेलवाम (जे० सी०-158097 डब्ल्यू०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार राम चन्द्रा (जे० सी०-159373 ए०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार श्रीधरन नायर कोदोली कुनी (जे० सी०-160019 एक्स०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार सुकुमारन वनिधनन (जे० सी०-160018 पी०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार समाई सिंह (जे० सी०-166401 के०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे० सी०-149619 ए०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार उत्तम चन्द (जे० सी०-129027 पी०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार प्रेमादासन धीयानचेरी (जे० सी०-145859 ए०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार कृष्ण लाल (जे० सी०-147830 डब्ल्यू०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार रोशन लाल (जे० सी०-149939 पी०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार मिल्खी राम (जे० सी०-151051 एल०), 01 अगस्त, 1988।
- नायब सूबेदार धीसा राम (जे० सी०-126999 एक्स०), 01 अगस्त, 1988।

टी० वी० नायर, डस्क अधिकारी

इन्फेन्ट्री

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दल बहादुर राना (सं० 5442368 एम० अब जे० सी०-175153 ए०), 1 फरवरी, 1988।

हवलदार तुलसी राम गुरूंग (सं० 5442379 एक्स० अब जे० सी०-175154 एच०), 1 फरवरी, 1988।

हवलदार दिल बहादुर गुरूंग (सं० 5442315 एन० अब जे० सी०-175155 एल०), 1 फरवरी, 1988।

हवलदार पुर्ना बहादुर घले (सं० 5442385 एम० अब जे० सी०-175152 एन०), 1 फरवरी, 1988।

हवलदार एक बहादुर गुरूंग (सं० 5442748 एल० अब जे० सी०-125157 डब्ल्यू०), 1 फरवरी, 1988।

हवलदार गंगा बहादुर बुराधोकी (सं० 5442734 एल० अब जे० सी०-175156 वाई०), 1 फरवरी, 1988।

8 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सन्ता बहादुर गुरूंग (सं० 5744100 एम० अब जे० सी०-175163 के०), 10 अगस्त, 1988।

हवलदार गुमान सिंह पुन (सं० 5743496 पी० अब जे० सी०-175159 एफ०), 1 अक्टूबर, 1987।

हवलदार शिव सिंह खर्का (सं० 5743797 वाई० अब जे० सी०-175160 डब्ल्यू०), 1 अक्टूबर, 1987।

हवलदार कालू गुरूंग (सं० 5743950 के० अब जे० सी०-175161 वाई०), 1 जनवरी, 1988।

हवलदार शमशेर सिंह थापा (सं० 5743789 एफ० अब जे० सी०-175162 एफ०), 1 जनवरी, 1988।

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैंट्री  
नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) मनी राम (9077581 डब्ल्यू० अब जे० सी०-175124 एल०), 23 मार्च 1988।\*

\*(01 जनवरी 1988 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)।

हवलदार (लिपिक) मखन लाल शर्मा (9077923 वाई० अब जे० सी०-175125 एन०), 01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मुन्शी राम (9078747 वाई० अब जे० सी०-175126 डब्ल्यू०), 07 मार्च, 1988।\*

\*(01 जनवरी 87 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)

हवलदार रमेश लाल (9077396 ए० अब जे० सी०-175127 वाई०), 01 जनवरी, 1988।%

%(13 फरवरी 87 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)।

हवलदार बशीर अहमद (9079049 एन० अब जे० सी०-175128 एफ०), 05 मार्च, 1988।×

×(01 अक्टूबर 87 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)।

हवलदार गुलाम हसन बर्ग (9077493 ए० अब जे० सी०-175129 के०), 05 मार्च, 1988।=

=(01 मार्च 88 के वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)

हवलदार अब्दुल ग़ायुम (9079402 के० अब जे० सी०-175130 वाई०), 22 मार्च, 1988।\*

\*(01 मार्च 88 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)।

आसाम रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अग्नी बांगचो (4346774 वाई० अब जे० सी०-175093 डब्ल्यू०), 14 मार्च, 1988।\*

हवलदार ननू शसनकाधरन (2568576 एल० अब जे० सी०-175094 वाई०), 14 मार्च, 1988।\*

हवलदार सूबा पेरुमल (2570579 एम० अब जे० सी०-175095 एफ०), 14 मार्च, 1988।\*

हवलदार जोगेन्द्रा नाथ सरमा (4346870 एन० अब जे० सी०-175096 के०), 24 मार्च, 1988।\*

हवलदार विक्रमन के० (2574965 एफ० अब जे० सी०-175097 एम०), 14 मार्च, 1988।\*

हवलदार सुरेश चन्द (3968393 वाई० अब जे० सी०-175098 पी०), 14 मार्च, 1988।\*

हवलदार कृष्णनअप्पा मरुत्ता (2573943 डब्ल्यू० अब जे० सी०-175099 एम०), 24 मार्च, 1988।\*

हवलदार कुलदीप सिंह (3971690 एम० अब जे० सी०-175100 एफ०), 14 मार्च, 1988।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 88 से दी जाएगी)।

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 11 फरवरी 88 से दी जाएगी)।

कुमाऊं रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गुमान सिंह (सं० 4162393 एक्स० अब जे० सी०-175089 एन०), 07 फरवरी, 1988।×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 88 से दी जाएगी)।

जम्मू और कश्मीर राइफल्स

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क बोध राज शर्मा (13726178 ए० अब जे० सी०-175104 एक्स०), 01 जनवरी, 1988।

हवलदार क्लर्क मोहन लाल शर्मा (13727430 ए० अब जे० सी०-175105 ए०), 01 जनवरी, 1988।

हवलदार क्लर्क अमर नाथ (13727961 एक्स० अब जे० सी०-175106 एच०), 01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पूरन चन्द (13727752 ए० अब जे० सी०-175107 एल०), 22 मई, 1987।

हवलदार करनैल सिंह (13727381 एच० अब जे० सी०-175108 एन०), 01 जून, 1987।

हवलदार जनक सिंह (13728724 ए० अब जे० सी०-175109 डब्ल्यू०), 01 अगस्त, 1987।

हवलदार जोगिन्दर सिंह (13728151 एफ० अरब जे० सी०-175110 एल०), 21 जनवरी, 1986 IX

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार गुरबचन सिंह (3362449 एम० अरब जे० सी०-175111 एन०), 05 फरवरी, 1988 I :

:(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1987 से दी जाएगी)

हवलदार श्रोम प्रकाश (13731212 वाई० अरब जे० सी०-175112 डब्ल्यू०), 01 जनवरी, 1988 I

हवलदार भाग मल (13728604 एफ० अरब जे० सी०-175113 वाई०), 22 जनवरी, 1988 I=

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार गणेश बहादुर (13731215 एम० अरब जे० सी०-175114 एफ०), 01 जनवरी, 1988 I

हवलदार मोहम्मद सबी (13732709 एच० अरब जे० सी०-175115 के०), 02 जनवरी, 1988 I

हवलदार सुदर्शन सिंह (13731056 ए० अरब जे० सी०-175116 एम०), 13 जनवरी, 1988 I

हवलदार सत्या पाल (13730753 एफ० अरब जे० सी०-175117 पी०), 12 मार्च, 1988 I\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जनवरी 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार सम्पूर्ण सिंह जम्मवाल (13731655 ए० अरब जे० सी०-175118 एम०), 29 जनवरी, 1988 I

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार पुन्डलिक निगप्पा मिरासी (2767298 ए० अरब जे० सी०-175119 ए०), 01 फरवरी, 1988 I

हवलदार बीरबल राम (13729828 एन० अरब जे० सी०-175120 पी०), 15 फरवरी, 1988 I

हवलदार जीत सिंह (13728014 एच० अरब जे० सी०-175121 एफ०), 01 मार्च, 1988 I

हवलदार बफादार खान (13727145 एफ० अरब जे० सी०-175122 ए०), 22 मार्च, 1988 I

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नाथ राम (9074256 एल० अरब जे० सी०-175123 एच०), 20 जनवरी, 1988 I

हवलदार गुसाई सिंह (सं० 4159234 पी० अरब जे० सी०-175083 एम०), 01 जनवरी, 1988 I

हवलदार धर्मपाल सिंह (सं० 4157434 एम० अरब जे० सी०-175084 पी०), 14 जनवरी, 1988 I

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं० 4160553 एन० अरब जे० सी०-175085 एफ०), 21 जनवरी, 1988 I

हवलदार सूरजा गुरंग (सं० 5239949 पी० अरब जे० सी०-175086 ए०), 25 दिसम्बर, 1987 I\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 87 से दी जायेगी)।

सी० एच० एम० मातबर सिंह बिष्ट (सं० 4048929 एच० अरब जे० सी०-175087 एच०), 01 नवम्बर, 1987 I

सी० एच० एम० रतन सिंह (सं० 4046247 वाई० अरब जे० सी०-175088 एल०), 01 जनवरी, 1988 I

मालिनी थडानी, अवर सचिव

कैटरींग

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धर्मवीर खाती (सं० 6366820 डब्ल्यू० अरब जे० सी०-176277-एफ०), 09 नवम्बर, 1987 I\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मितम्बर 87 से दी जाएगी)।

पशु परिवहन

नायब रिमालदार के रैंक में

दफादार सोहन लाल (सं० 6458137 डब्ल्यू० अरब जे० सी०-176278-के०), 08 जून, 1988 I

(नायब रिमालदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 86 से दी जाएगी)।

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

लेफ्टिनेंट से कप्तान के रैंक में

टी० एस० सचदेवा (वी०-356)--16-7-85 (इस पद के लिए ज्येष्ठता की तिथि 3-9-81)।

सुरिन्दर सिंह (वी०-368)--10-4-84 (इस पद के लिए ज्येष्ठता की तिथि 3-9-81)।

पी० एस० नरवाल (वी०-358)--17-7-84 (इस पद के लिए ज्येष्ठता की तिथि 3-9-81)।

अनिल कुमार, अवर सचिव

इन्फैन्ट्री

सिख रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार संसार सिंह (3370594 वाई० अरब जे० सी०-175039 एच०), 1 नवम्बर, 1987 I

## नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क किरपाल सिंह (3364690 एक्स० अब जे० सी०-175040 एक्स०), 6 अप्रैल, 1988 ।\*

\*(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 1988 से दी जाएगी।

## लद्दाख स्काउट्स

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नावाग रीगजीन (सं० 9920975 एम० अब जे० सी०-175131 एफ०), 01 जनवरी, 1987 ।

हवलदार हमीद खान (सं० 9920763 एफ० अब जे० सी०-175132 के०), 15 मई, 1987 ।\*

हवलदार छेरिंग दोरजे (सं० 9920901 के० अब जे० सी०-175133 एम०), 01 जून, 1987 ।

हवलदार छेवांग नूरबू (सं० 9920368 एन० अब जे० सी०-175139 पी०), 01 जून, 1987 ।@

हवलदार छेरिंग अंगदूस (सं० 9920579 डब्ल्यू० अब जे० सी०-175135 वाई०), 13 फरवरी, 1988 ।@

हवलदार मूटूप ग्यालचन (सं० 9920874 वाई० अब जे० सी०-175136 ए०), 13 फरवरी, 1988 ।@

हवलदार छेरिंग अंगचूक (सं० 9920976 पी० अब जे० सी०-175137 एच०), 28 अक्टूबर, 1987 ।

हवलदार कुन्गा नमग्याल (सं० 9920587 पी० अब जे० सी०-175138 एल०), 28 अक्टूबर, 1987 ।

हवलदार छेरिंग मुटुपे (सं० 9920990 एफ० अब जे० सी०-175139 एन०), 28 अक्टूबर, 1987 ।@

हवलदार कुन्गा नोरफल (सं० 9921077 ए० अब जे० सी०-175140 एच०), 28 अक्टूबर, 1987 ।

हवलदार छेरिंग अंगचूक (सं० 9921390 एल० अब जे० सी०-175141 एल०), 05 मार्च, 1988 ।@

हवलदार छेरिंग मुटुप (सं० 9921290 ए० अब जे० सी०-175142 एन०), 05 मार्च, 1988 ।@

हवलदार छेरियन अंगचूक (सं० 9921192 ए० अब जे० सी०-175143 डब्ल्यू०), 28 अक्टूबर, 1987 ।

हवलदार ताशी दोरजे (सं० 9921325 एल० अब जे० सी०-175144 वाई०), 28 अक्टूबर, 1987 ।

हवलदार छेरिंग मुटुप (सं० 9921337 ए० अब जे० सी०-175145 एफ०), 28 अक्टूबर, 1987 ।

हवलदार छेवांग फुन्चुक (सं० 9921366 पी० अब जे० सी०-175146 के०), 28 अक्टूबर, 1987 ।

हवलदार लोबजांग छेफेल (सं० 9921387 एल० अब जे० सी०-175147 एम०), 01 नवम्बर, 1987 ।

हवलदार मराज उल दीन (सं० 9920667 एम० अब जे० सी०-175148 पी०), 01 दिसम्बर, 1987 ।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 87 को दी जाएगी) ।

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अक्टूबर 87 को दी जाएगी) ।

## नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक प्रहाश चन्द मिरघ (सं० 9920983 एल० अब जे० सी०-175149 एक्स०), 31 जुलाई, 1987 ।\*

हवलदार लिपिक गुलाम अली मीर (सं० 13733032 पी० अब जे० सी०-175150 एम०), 12 सितम्बर, 1987 ।

हवलदार लिपिक परमा नन्द शर्मा (सं० 9079824 पी० अब जे० सी०-175151 पी०), 10 अक्टूबर, 1987 ।@

\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जुलाई 87 को दी जाएगी) ।

@(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 87 को दी जाएगी)

## 1 जी० आर०

## नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) संत सिंह (सं० 5037766 डब्ल्यू० अब जे० सी०-175152 एक्स०), 1 अप्रैल 1988 ।

## पंजाब रेजिमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं० 2464405 एम० अब जे० सी०-174910 वाई०), 01 सितम्बर, 1987 ।

हवलदार सतनाम सिंह (सं० 2465815 पी० अब जे० सी०-174911 ए०), 01 सितम्बर, 1987 ।

हवलदार बलबोर सिंह (सं० 2458424 एफ० अब जे० सी०-174912 एच०), 01 नवम्बर, 1987 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1987 से दी जायेगी) ।

हवलदार प्रोतम सिंह (सं० 2461183 एक्स० अब जे० सी०-174313 एल०), 01 नवम्बर, 1987 ।

हवलदार दलोप सिंह (सं० 2460053 एम० अब जे० सी०-174914 डब्ल्यू०), 08 नवम्बर, 1987 ।

हवलदार जसवन्त सिंह राना (सं० 2459085 वाई० अब जे० सी०-174915 डब्ल्यू०), 10 नवम्बर, 1987 ।

हवलदार गुरनाम सिंह (सं० 2458436 डब्ल्यू० अब जे० सी०-174916 वाई०), 04 दिसम्बर, 1987 ।

हवलदार राम रतन (सं० 2454458 एक्स० अब जे० सी०-174917 एफ०), 15 दिसम्बर, 1987 ।

हवलदार ध्यान सिंह (सं० 2460035-ए० अब जे० सी०-174918 के०), 19 दिसम्बर, 1987 ।

हवलदार किशोरी लाल (सं० 2453950—डब्ल्यू० अब जे० सी०—174919 एम०), 31 दिसम्बर 1987।

हवलदार योग राज (सं० 2457979 डब्ल्यू० अब जे० सी०—174920 एफ०), 01 जनवरी 1988।

हवलदार जगदेव सिंह (सं० 2461211 वाई० अब जे० सी०—174921 के०), 01 जनवरी 1988।

हवलदार हेम राज (सं० 2458554—बे० अब जे० सी०—174922 एम०), 12 जनवरी, 1988।

हवलदार बच्चन लाल (सं० 2456679—एच० अब जे० सी०—174923 पी०), 19 जनवरी, 1988।

हवलदार अमीन चन्द (सं० 2456115—ए० अब जे० सी०—174924 एक्स०), 20 जनवरी, 1988।

हवलदार बलविन्द्र सिंह (सं० 2462179—एफ० अब जे० सी०—174925 ए०), 20 जनवरी, 1988।

हवलदार सोहन सिंह (सं० 2459607—के० अब जे० सी०—174926 एच०), 23 जनवरी, 1988।

हवलदार हरबन्स सिंह (सं० 2458851—एक्स० अब जे० सी०—174927 एल०), 25 जनवरी, 1988।

हवलदार गुरनाम सिंह (सं० 2460762—एक्स० अब जे० सी०—174928 एन०), 01 फरवरी, 1988।

हवलदार हवा सिंह (सं० 2464309—एक्स० अब जे० सी०—174929 डब्ल्यू०), 01 फरवरी, 1988।

हवलदार तरसेम सिंह (सं० 2460946 डब्ल्यू० अब जे० सी०—174930 एल०), 01 फरवरी, 1988।

हवलदार तरसेम लाल (सं० 2456006—एन० अब जे० सी०—174931 एन०), 05 फरवरी, 1988।

हवलदार सुनील पटियाल (सं० 2459805—पी० अब जे० सी०—174932 डब्ल्यू०), 05 फरवरी, 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार गोविन्द राम (सं० 2459655—के० अब जे० सी०—174933 वाई०), 06 फरवरी 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 नवम्बर 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार हरदेव सिंह (सं० 2457573—एच० अब जे० सी०—174934 एफ०), 14 फरवरी, 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जनवरी 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार हरदेव सिंह (सं० 2460155—वाई० अब जे० सी०—174935 के०), 15 फरवरी, 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 नवम्बर 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार तरसेम सिंह (सं० 2465464—एल० अब जे० सी०—174936 एम०), 16 फरवरी, 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार मुलतान सिंह (सं० 2457645—एफ० अब जे० सी०—174937 पी०), 01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में  
हवलदार लिपिक नानक चन्द शर्मा (सं० 2457962—एच० अब जे० सी०—174938 एक्स०), 04 नवम्बर, 1987।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार लिपिक जगदीश चन्द्र रावपूत (सं० 2459483—एन० अब जे० सी०—174939 ए०), 01 जनवरी, 1988।

हवलदार लिपिक सुरजीत सिंह (सं० 2457640—एच० अब जे० सी०—174940 पी०), 17 फरवरी, 1988।

हवलदार लिपिक बालू सिंह (सं० 2457662—एम० अब जे० सी०—174941), 17 फरवरी, 1988।

हवलदार लिपिक केहर सिंह राणा (सं० 2458482—एल० अब जे० सी०—174942), 09 मार्च, 1988।

#### पैरागुट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में  
हवलदार गुरमेल सिंह (सं० 13606196 एम० अब जे० सी०—174909 एच०), 01 मार्च, 1988।

#### सिख रेजिमेंट

नायब सूबेदार कलक के रैंक में  
हवलदार कलक सुरजीत सिंह (3364945 एम० अब जे० सी०—175041 ए०), 1 अप्रैल 1988।

हवलदार कलक जोगिन्दर सिंह (3365097 एल० अब जे० सी०—175042 एच०), 1 अप्रैल, 1988।

#### सिख लाईट इन्फैन्ट्री

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार इन्द्रजीत सिंह (सं० 4453539 एक्स० अब जे० सी०—175043 एल०), 11 फरवरी, 1988।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जुलाई 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार जगतार सिंह मेहरा (सं० 4453642 एच० अब जे० सी०—175044 एन०), 05 नवम्बर, 1987।

हवलदार दर्शन सिंह (सं० 4452717 एच० अब जे० सी०—175045 डब्ल्यू०), 05 नवम्बर, 1987।

हवलदार जगतार सिंह (सं० 4453097 के० अब जे० सी०—175046 वाई०), 06 दिसम्बर, 1987।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 नवम्बर 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार गुरनेक सिंह (सं० 4451884 एम० अब जे० सी०—175047 एफ०), 14 दिसम्बर, 1987।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 नवम्बर 1987 से दी जाएगी)।

हवलदार राम प्रकाश सिंह (सं० 4454458 के० अथ जे० सी०-175048 के०), 06 नवम्बर, 1987।

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं० 4450285 ए० अथ जे० सी०-175048 एम०), 01 जनवरी, 1988।

हवलदार दर्शन सिंह (सं० 4450590 एम० अथ जे० सी०-175049 एफ०), 01 जनवरी, 1988।

हवलदार गुरदेव सिंह (सं० 4450437 डब्ल्यू० अथ जे० सी०-175051 के०), 01 जनवरी, 1988।

हवलदार बाबू सिंह भट्टी (सं० 4453640 एक्स० अथ जे० सी०-175052 एम०), 01 जनवरी, 1988।

हवलदार सुरेष्वा सिंह (सं० 4453381 ए० अथ जे० सी०-175053 पी०), 01 जनवरी, 1988।

हवलदार पूरन सिंह (सं० 4452807 के० अथ जे० सी०-175054 एक्स०), 01 जनवरी, 1988।

हवलदार बलविन्द सिंह (सं० 4450214 वाई० अथ जे० सी०-175055 ए०), 01 जनवरी, 1988।

हवलदार कर्म सिंह (सं० 4453378 ए० अथ जे० सी०-175056 ए०), 01 जनवरी, 1988।

हवलदार कर्म सिंह (सं० 4454060 पी० अथ जे० सी०-175057 एल०), 01 जनवरी, 1988।

#### डॉगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गांधी राम (सं० 3968482 एम० अथ जे० सी०-175058 एन०), 13 दिसम्बर, 1987।\*

हवलदार बलदेव सिंह वर्मा (सं० 3962909 ए० अथ जे० सी०-175059 डब्ल्यू०), 30 जनवरी, 1988।\*

\*—(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1988 से दी जाएगी)।

हवलदार प्रेम सिंह (सं० 3963111 एल० अथ जे० सी०-175060 एल०), 1 जनवरी, 1988।

हवलदार विशम्बर सिंह (सं० 3963599 एम० अथ जे० सी०-175061 एन०), 13 फरवरी, 1988।\*\*

\*\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जाएगी।

हवलदार प्रेम चन्द (सं० 3965625 एफ० अथ जे० सी०-175062 डब्ल्यू०), 12 फरवरी, 1988।

हवलदार जगदेव सिंह धननिया (सं० 3967311 वाई०-175063 वाई०), 11 मार्च, 1988।

हवलदार रतन सिंह (सं० 3967591 एक्स० अथ जे० सी०-175064 एफ०), 1 अप्रैल, 1988।

#### गढ़वाल राइफल

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रेम सिंह (सं०-4051774के अथ जे० सी०-175065-के)---22 नवम्बर 1987\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 नवम्बर 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार राजपाल सिंह नेगी (सं०-4051993-एल अथ जे० सी०-175066-एम)---1 दिसम्बर 1987।

हवलदार मदन सिंह (सं०-4054039-वाई अथ जे० सी०-175067-पी)---4 दिसम्बर 1987।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं०-4050846-डब्ल्यू अथ जे० सी०-175068-एक्स)---18 दिसम्बर 1987\*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार गजे सिंह (सं०-4046679-एन अथ जे० सी०-175069-ए)---8 दिसम्बर 1987।

हवलदार जगमोहन सिंह (सं०-4055411-एक्स अथ जे० सी०-175070-पी)---17 दिसम्बर 1987\*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार धर्मान सिंह (सं०-4051383-वाई अथ जे० सी०-175071-एक्स)---1 जनवरी 1988\*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रेम सिंह रावत (सं०-4049591-पी अथ जे० सी०-175072-ए)---31 दिसम्बर 1987।

हवलदार मोहन सिंह नेगी (सं०-4048964-एल अथ जे० सी०-175073-एच)---1 जनवरी 1988।

हवलदार गग्भीर सिंह बिष्ट (सं०-4050196-एन अथ जे० सी०-175074)---1 जनवरी 1988।

हवलदार दिलवर सिंह चौधरी (सं०-4055113-एफ अथ जे० सी०-175075-एन)---2 जनवरी 1988।

हवलदार महेशा नन्द ध्यानी (सं०-4052197-पी अथ जे० सी०-175076-डब्ल्यू)---2 जनवरी 1968।

हवलदार हंस राम मैदोली (सं०-4052996-एल अथ जे० सी०-175077-वाई)---2 जनवरी 1988।

हवलदार शिवा नन्द शर्मा (सं०-4051595-के अथ जे० सी०-175078-एफ)---2 जनवरी 1988।

हवलदार रघुनाथ सिंह (सं०-4052274-वाई अथ जे० सी०-175079-के)---2 जनवरी 1988।

हवलदार सोहकार सिंह (सं०-4048408-पी अथ जे० सी०-175080-वाई)---11 फरवरी 1988।

हवलदार प्रेम सिंह (सं०-4046030-पी अथ जे० सी०-175081-एफ)---18 फरवरी 1988।

हवलदार खुशाल सिंह बिष्ट (सं०-4049312-वाई अथ जे० सी०-175082-के)---1 मार्च 1988।

#### जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रूप चन्द (सं०-3163926-एल अथ जे० सी०-175019-पी)---5 जुलाई 1987।\*



(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1987 से दी जायेगी)

हवलदार हरी सिंह (सं०-3158829-के अर्ब जे० सी०-175020-के) —1 अक्टूबर 1987।

हवलदार बीरबल सिंह (सं०-3159157-पी अर्ब जे० सी०-175021-एम) —4 दिसम्बर 1987\*

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1987 से दी जायेगी)

हवलदार बिहारी लाल (सं०-3158198-एम अर्ब जे० सी०-175022-पी) —1 नवम्बर 1987।

हवलदार जिले सिंह (सं०-3159405-ए अर्ब जे० सी०-175023-एक्स) —1 नवम्बर 1987।

हवलदार मनवीर सिंह (सं०-3165588-एक्स अर्ब जे० सी०-175024-ए) —18 दिसम्बर 1987\*

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1987 से दी जायेगी)

हवलदार ईश्वर सिंह (सं०-3154779-एम अर्ब जे० सी०-175025-एच) —27 जनवरी 1988।

हवलदार धम पाल (सं०-3154784-एक्स अर्ब जे० सी०-175026-एल) —1 फरवरी 1988।

हवलदार कमल सिंह चौधरी (सं०-3162617-डब्ल्यू अर्ब जे० सी०-175027-एन) —18 मार्च 1988

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1988 से दी जायेगी)

हवलदार रघु राज (सं०-3161603-के अर्ब जे० सी०-175028-डब्ल्यू) —12 फरवरी 1988।

हवलदार भाजाब सिंह (सं०-3155849-एम अर्ब जे० सी०-175029-वार्ड) —1 मार्च 1988।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार इदल सिंह (सं०-3158366-ए अर्ब जे० सी०-175030-एन) —16 मार्च 1988।

हवलदार सुमेर सिंह (सं०-3162321-एक्स अर्ब जे० सी०-175031-डब्ल्यू) —16 मार्च 1988।

हवलदार होशियार सिंह (सं०-3158084-एफ अर्ब जे० सी०-175032-वार्ड) —25 मार्च 1988।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क जगदीश प्रसाद (सं०-3157801-एक्स अर्ब जे० सी०-175033-एफ) —10 नवम्बर 1987।

हवलदार क्लर्क जयनारायण सिंह पुनिया (सं०-3158058-ए अर्ब जे० सी०-175034-के) —1 जनवरी 1988।

हवलदार क्लर्क मनी राम वर्मा (सं०-3159047-ए अर्ब जे० सी०-175035-एम) —1 मार्च 1988।

हवलदार क्लर्क अमर चन्द (सं०-3159163-एच अर्ब जे० सी०-175036-पी) —1 मार्च 1988।

4-344 GI/88

हवलदार क्लर्क भंवर सिंह तनवर (सं०-3158277-एफ अर्ब जे० सी०-175037-एक्स) —1 मार्च 1988।

हवलदार क्लर्क अमर सिंह झाभरिया (सं०-3159280-एन अर्ब जे० सी०-175038-ए) —15 मार्च 1988।\*

\*(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 1988 से दी जायेगी)

मद्रास रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मनोहरन पिल्ले के के (सं०-2575290-वार्ड अर्ब जे० सी०-174985-पी) —1 मार्च 1988।

हवलदार वात्सियानिअम्मा कृष्ण रिल्लै (सं०-2567956-एक्स अर्ब जे० सी०-174986-एक्स) —1 मार्च 1988।

हवलदार मुत्तुनामि ए (सं०-2569192-एच अर्ब जे० सी०-174987-ए) —1 मार्च 1988।

हवलदार गिरिअज्जे गौडा (सं०-13855170-एन अर्ब जे० सी०-174988-एच) —1 मार्च 1988।

हवलदार ए अन्ड्रूल मुतार्लोव (सं०-2570944-एन अर्ब जे० सी०-174989-एल) —1 मार्च 1988।

हवलदार बी रामराज (सं०-13854884-एम अर्ब जे० सी०-174990-ए) —1 मार्च 1988।

हवलदार विजयकमार के (सं०-2573509-के अर्ब जे० सी०-174991-एच) —1 मार्च 1988।

हवलदार एन मोहनचन्द्रन नायर (सं०-2576434-एच अर्ब जे० सी०-174992-एल) —1 मार्च 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क टी तिमाम्पू (सं०-2566003-एच अर्ब जे० सी०-174993-एन) —1 मार्च 1988।

हवलदार क्लर्क पुल्लमयलाविल जौन वर्गिस (सं०-2566326-एल अर्ब जे० सी०-174994-डब्ल्यू) —1 मार्च 1988।

पंजाब रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार करतार सिंह (सं०-2461603-एम अर्ब जे० सी०-174943-एच) —25 जुलाई 1987।

हवलदार गिता राम (सं०-2459508-एच अर्ब जे० सी०-174944-एल) —01 अगस्त 1987।

हवलदार बन्धुल सिंह (सं० 2461925 एम अर्ब जे० सी० 174945 एन) —01 सितम्बर 1987।

हवलदार जीत राज डांगरा (सं० 2459892 एन अर्ब जे० सी० 174946 डब्ल्यू) —06 सितम्बर 1987।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 1987 से दी जायेगी)

हवलदार हरचरण सिंह (सं० 2453700 पी अर्ब जे० सी 174947 वार्ड) —12 सितम्बर 1987।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जून 1987 से दी जायेगी)

हवलदार राजपत्र सिंह सन्धु (सं० 2458551 डब्ल्यू एच जे० सी० 174948 एफ) — 01 अक्टूबर 1987।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जनवरी 1987 से दी जायेगी)

हवलदार रोशन लाल (सं० 2453567 एक्स एच जे० सी० 174949 के) — 01 नवम्बर 1987।

हवलदार मनशा राम (सं० 11035794 एच एच जे० सी० 174950 वाई) — 07 अक्टूबर 1987।

हवलदार रघवीर सिंह (सं० 2455194 एच एच जे० सी० 174951 एफ) — 09 नवम्बर 1987।

हवलदार रोशन लाल (सं० 2458044 एच एच जे० सी० 174952 के) — 10 नवम्बर 1987।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1987 से दी जायेगी)

हवलदार राज सिंह (सं० 2462713 एन एच जे० सी० 174953 एम) — 13 नवम्बर 1987।

हवलदार गुरनाम सिंह (सं० 2457257 के एच जे० सी० 174954 पी) — 18 नवम्बर 1987।

हवलदार मरत राम (सं० 2458340 एन एच जे० सी० 174955 एक्स) — 22 नवम्बर 88

हवलदार सुरजीत सिंह (सं० 13856559 एन एच जे० सी० 174956 ए) — 22 नवम्बर 1987।

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं० 2458950 ए एच जे० सी० 174957 एच) — 01 दिसम्बर 1987।

हवलदार भगवान सिंह (सं० 2458246 के एच जे० सी० 174958 एल) — 01 दिसम्बर 1987।

हवलदार तरनाम सिंह (सं० 2460373-एक्स एच जे० सी०-174959-एन) — 01 दिसम्बर 1987।

हवलदार बलवीर सिंह (सं० 2458961-एम एच जे० सी०-174960-एच) — 20 दिसम्बर 1987।

हवलदार सुष्मा सिंह (सं०-2461128-एफ एच जे० सी०-174961-एल) — 20 दिसम्बर 1987।

हवलदार किशोरी लाल (सं०-2455951-एक्स एच जे० सी०-174962-एन) — 20 दिसम्बर 1987।

हवलदार योरु राम (सं० 2458699-पी एच जे० सी०-174963-डब्ल्यू) — 27 दिसम्बर 1987।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)

हवलदार चमन लाल (सं० 2458260 डब्ल्यू एच जे० सी०-174964-वाई) — 27 दिसम्बर 1987।

हवलदार करम चन्द (सं० 2458273 एन एच जे० सी०-174965 एफ) — 01 जनवरी 1988।

हवलदार गोरखी राम (सं०-2453722-एन एच जे० सी०-174966-के) — 01 जनवरी 1988।

हवलदार बलदेव सिंह (सं० 2453316-एन एच जे० सी०-174967-एम) — 01 जनवरी 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)

हवलदार हलिप सिंह (सं०-2453745पी एच जे० सी०-174968-पी) — 01 जनवरी 1988।

हवलदार जगत सिंह चौहान (सं० 2455255ए एच जे० सी०-174969-एक्स) — 01 जनवरी 1988।

हवलदार चैन सिंह (सं० 2453646 एम एच जे० सी०-174970-एम) — 01 जनवरी 1988।

हवलदार दिना नाथ (सं० 2462498-एन एच जे० सी०-174971 पी) — 01 जनवरी 1988।

हवलदार मंगत राम (सं० 2458254-एच एच जे० सी०-174972-एक्स) — 01 जनवरी 1988।

हवलदार परत राम (सं० 2455801-एफ एच जे० सी०-174973-ए) — 08 जनवरी 1988।

हवलदार बिशाल दास नरवाल (सं० 2455687पी एच जे० सी०-174974-एच) — 08 जनवरी 1988।

हवलदार जगत राम (सं० 2457001-एफ एच जे० सी०-174975-एल) — 09 जनवरी 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1988 से दी जायेगी)

हवलदार निर्मल सिंह (सं० 2462987-वाई एच जे० सी०-174976-एन) — 19 जनवरी 1988।

हवलदार जगदीश धन्ना (सं० 2457785-एन एच जे० सी०-174977-डब्ल्यू) — 20 जनवरी 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जनवरी 1988 से दी जायेगी)

हवलदार भीख राज (सं० 2463437-एच एच जे० सी०-174978-वाई) — 26 जनवरी 1988।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) गुरनाम सिंह (सं०-2458084-के एच जे० सी०-174979-एफ) — 16 दिसम्बर 1987।

हवलदार (लिपिक) बलवीर सिंह गुराया (सं०-2458092-एच एच के० सी०-174980-ए यू) — 16 दिसम्बर 1987

हवलदार (लिपिक) रुमाल सिंह रैना (सं०-2458161 एन एच के० सी०-174981-वाई) — 16 दिसम्बर 1987

हवलदार (लिपिक) तारा चन्द्र शर्मा सं०-2458068-एम एच जे० सी०-174982-एफ) — 28 दिसम्बर 1987।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1987 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) सोम शाय अरोरा (सं०-2458070-के अत्र जे० सी०-174983-के)—27 जनवरी 1988।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव वाले बिना ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) शंकर दाम (सं०-2454369-वाई अत्र जे० सी०-174984-एम)—06 फरवरी 1988।

#### सिख रेजिमेन्ट

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जे० सी०-128950-ए)—1 अप्रैल 1988।

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अजैब सिंह (जे० सी०-137050-एक्स)—1 मार्च 1988।

नायब सूबेदार प्यारा सिंह (जे० सी०-140559-पी)—1 मार्च 1988।

#### राजपुताना राइफल

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शिव सिंह (जे० सी०-118866-एम)—1 फरवरी 1988।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-118892-एन)—1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार भीम सिंह (जे० सी०-133397-एम)—1 जून, 1988।

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जे० सी०-130596-पी)—1 जून, 1988।

नायब सूबेदार भोला राम मान (जे० सी०-148404 पी)—1 जून, 1988।

नायब सूबेदार हवा सिंह (जे० सी०-140665-एन)—1 जून, 1988।

नायब सूबेदार शीण राम (जे० सी०-142802-ए)—1 जुलाई, 1988।

#### ग्रिनेडियर्स

##### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कल्याण सिंह शेखावत (जे० सी०-93373-एक्स)—01 मई 1988।

सूबेदार चन्द्र सिंह (जे० सी०-82626-एफ)—01 जून 1988।

सूबेदार रतबीर सिंह (जे० सी०-85971-ए)—01 जून 1988।

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जहिर खान (जे० सी०-122250-डब्ल्यू)—01 मई 1988।

नायब सूबेदार केवल राम (जे० सी०-126574-वाई)—15 मई 1988।

नायब सूबेदार केहर सिंह (जे० सी०-111850-वाई)—01 जून 1988।

नायब सूबेदार अमजद अली (जे० सी०-104734-एन०)—01 जून 1988।

नायब सूबेदार शोभा राम (जे० सी०-114177-एन)—01 जून 1988।

नायब सूबेदार रमनिक सिंह (जे० सी०-127503-के)—01 जून 1988।

नायब सूबेदार घिसा राम (जे० सी०-145416-वाई)—01 जून 1988।

नायब सूबेदार माहूकर (जे० सी०-132401-एक्स)—01 जून 1988।

नायब सूबेदार हरपाल सिंह चौहान (जे० सी०-114180 एन)—01 जून 1988।

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जे० सी०-143562-ए)—01 जून 1988।

##### सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) राम बलि यादव (जे० सी०-122249-एफ)—01 जून 1988।

नायब सूबेदार (लिपिक) केवल कृष्ण (जे० सी०-122247-डब्ल्यू)—01 जून 1988।

नायब सूबेदार (लिपिक) पूरन चन्द (जे० सी०-122248-वाई)—01 जून 1988।

नायब सूबेदार (लिपिक) जिलै सिंह (जे० सी०-122255 पी)—01 जून 1988।

#### मद्रास रेजिमेन्ट

##### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार परमेश्वरः पिल्ले सिवशंकरन नायर (जे० सी०-65856-वाई)—1 जून 1988।

सूबेदार रवीन्द्रन नायर (जे० सी०-84083-वाई)—1 जुलाई 1988।

सूबेदार के० गोपाल कृष्ण पिल्लै (जे० सी०-79444-एन)—1 जुलाई 1988।

#### पैराशूट रेजीमेन्ट

##### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार करन सिंह (जे० सी०-78379-एफ)—01 जून 1988।

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पंचम सिंह (जे० सी०-136934-एक्स)—01 फरवरी 1988।

नायब सूबेदार खुशाल सिंह (जे० सी०-140517-एन)—01 अप्रैल 1988।

#### मालिनी थडानी, अवर सचिव

##### नायब सूबेदार के पद में

वी एच एम चीकन्दा थिम्मयाह मोंसापा (सं० 1258206-ए अत्र जे० सी०-176234-एम)—01 अप्रैल 1987।

हवलदार बलदेव सिंह (सं०-1292871-एक्स अरब जे० सी०-176235पी)—02 नवम्बर 1987 \*।

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अप्रैल 1987 से दी जायेगी) ।

हवलदार दीना नाथ सिंह (सं०-1266327-वाई अरब जे० सी०-176236-एक्स)—01 मई 1987 ।

बी एच एम भखन सिंह (सं०-1284440-डब्ल्यू अरब जे० सी०-176237-ए)—07 नवम्बर 1987 \*।

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 1987 से दी जायेगी) ।

हवलदार राम निहाल (सं० 14308073-डब्ल्यू अरब जे० सी०-176238-एच)—03 अगस्त 1987 ।

हवलदार प्यारे लाल (सं० 1241965-एम अरब जे० सी०-176239-एल)—14 सितम्बर 1987 \*।

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1987 से दी जायेगी) ।

हवलदार आयोध्या बक्स सिंह (सं० 1245632-एक्स अरब जे० सी०-176240-ए)—28 अक्टूबर 1987 \*।

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 सितम्बर 1987 से दी जायेगी) ।

हवलदार अमर सिंह (सं० 1233650-एन अरब जे० सी०-176241-एच)—05 दिसम्बर 1987 \*।

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1987 से दी जायेगी) ।

बी एच एम राजन सिंह (सं० 1239099-एक्स अरब जे० सी०-176242-एल)—09 अक्टूबर 1987 ।

बी एच एम प्रियाम सिंह (सं०-1232937-वाई अरब जे० सी०-176243-एन)—30 दिसम्बर 1987 \*।

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1987 से दी जायेगी) ।

बी एच एम गोपालकृष्ण के० (सं०-14321769-ए अरब जे० सी०-176244-डब्ल्यू)—01 नवम्बर 1987 ।

बी क्यू एम एच कताकर प्रताप जगन्नाथ (सं० 1258771-ए अरब जे० सी०-176245-वाई)—01 नवम्बर 1987 ।

बी एच एम धर्म चन्द (सं० 1283535-के अरब जे० सी०-176246-एफ)—17 नवम्बर 1987 ।

हवलदार शक्ति चन्द (सं० 1285717-डब्ल्यू अरब जे० सी०-176247-के)—12 दिसम्बर 1987 ।

हवलदार जनक सिंह (सं० 1295667-के अरब जे० सी०-176248-एम)—01 दिसम्बर 1987 ।

बी एच एम पाल सिंह (सं०-1232669-ए अरब जे० सी०-176249-पी)—17 जनवरी 1988 \*।

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी)

हवलदार छटू सिंह (सं० 1251656-एक्स अरब जे० सी०-176250-के)—11 मार्च 1988 \*।

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी) ।

हवलदार प्यार सिंह (सं० 1235627-वाई अरब जे० सी०-176251-एम)—19 जनवरी 1988 \*।

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी) ।

आर एच एम बिहारी लाल (सं० 1253108-एफ अरब जे० सी०-176252पी)—16 फरवरी 1988 \*।

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 दिसम्बर 1987 से दी जायेगी) ।

बी एच एम कृपाल सिंह (सं० 1284846 के अरब जे० सी०-176253-एक्स)—01 जनवरी 1988 ।

हवलदार इन्द्रा महाबुर गुरंग (सं०-1258936-एन अरब जे० सी०-176254-ए)—05 मार्च 1988 \*।

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1988 से दी जायेगी) ।

हवलदार गुलाब सिंह भदौरिया (सं० 1248727-एच अरब जे० सी०-176255-एच)—15 फरवरी 1988 \*।

\* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1988 से दी जायेगी) ।

आर एच एम राजेन्द्रा सिंह (सं० 1240143-एच अरब जे० सी०-176256-एल)—05 फरवरी 1988 ।

हवलदार जर्नेल सिंह (सं० 1235331-ए अरब जे० सी०-176257-एन)—01 फरवरी 1988 ।

हवलदार सत पाल (सं०-1236555-एम अरब जे० सी०-176258-डब्ल्यू)—01 फरवरी 1988 ।

हवलदार बासावनसापा तीराकनावर (सं० 1259586-वाई अरब जे० सी०-176259-वाई)—05 फरवरी 1988 ।

हवलदार रामजी लाल (सं० 1257071-ए अरब जे० सी०-176260-एच)—15 फरवरी 1988 ।

हवलदार हरभजन सिंह (सं० 14305573-एच अरब जे० सी०-176261-डब्ल्यू)—01 मार्च 1988 ।

बी एच एम राम निवास गिलवाघट (सं० 1243957-एम अरब जे० सी०-176262-वाई)—01 मार्च 1988 ।

बी एच एम अमर जीत सिंह (सं० 1236734-एम अरब जे० सी० 176263-एफ)—01 मार्च 1988 ।

बी एच एम बोध चन्द (सं० 1233059-ए अरब जे० सी०-176264-के)—01 मार्च 1988 ।

बी एच एम शत्रुघ्न (सं० 1298262-के अरब जे० सी०-176265-एम)—01 मार्च 1988 ।

हवलदार बलदेव सिंह (सं०-1294397-एन अथ जे० सी०-176266 पी)—01 मार्च 1988।

हवलदार विक्रम सिंह (सं० 3971141-एक्स अथ जे० सी०-176267-एक्स)—01 मार्च 1988।

हवलदार बाबन सिंह (सं० 14316027-डब्ल्यू अथ जे० सी०-176268-ए)—01 मार्च 1988।

हवलदार नारेन्द्रा सिन्हा (सं० 1263261-एच अथ जे० सी०-176269-एच)—01 मार्च 1988।

बी एच एम तुलु बहादुर राना (सं० 5444739-एच अथ जे० सी०-176270-एक्स)—01 मार्च 1988।

बी एच एम राम बाघ शर्मा (सं० 1249638-डब्ल्यू अथ जे० सी०-176271-ए)—05 मार्च 1988।

हवलदार लाल प्रताप सिंह (सं० 1290003-एम अथ जे० सी०-176272-ए)—06 मार्च 1988।

हवलदार बिष्कर सिंह (सं० 1242837-एफ अथ जे० सी०-176273-एफ)—09 मार्च 1988।

हवलदार प्रीतम सिंह (सं० 14323368-के अथ जे० सी०-176274-एन)—17 मार्च 1988।

हवलदार राम सिंह (सं० 1287805-एल अथ जे० सी०-176275-डब्ल्यू)—22 मार्च 1988।

बी एच एम देवी बास (सं०-1233263-वाई अथ जे० सी०-176276-वाई)—23 मार्च 1988।

टी० वी० नायर, डेस्क प्रधिकारी

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लेफ्टिनेंट से कैंपेन बनाया जाता है

फूल सिंह विमल (टी० ए०-41462), इर्जीनियर्स--04 जून, 1985।

एच० डी० सिन्हा, अवर सचिव

गारद ब्रिगेड

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं० 13667792पी अथ जे० सी०-174894एल)—25 दिसम्बर, 1987।

हवलदार जगवन्दन सिंह (सं० 13667062के अथ जे० सी०-174895एन)—29 दिसम्बर, 1987।

हवलदार कपूर सिंह (सं० 13666155एम अथ जे० सी०-174896डब्ल्यू)—01 जनवरी, 1988।

हवलदार दान सिंह (सं० 13664043एम अथ जे० सी०-174897वाई)—23 जनवरी, 1988।

हवलदार सनम राय (सं० 13664901एल अथ जे० सी०-174898आर)—23 जनवरी, 1988।

हवलदार सोहन सिंह (सं० 13665596डब्ल्यू अथ जे० सी०-174899के)—23 जनवरी, 1988X।

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार जागर सिंह (सं० 13666655के अथ जे० सी०-174900एन)—16 फरवरी, 1988।

हवलदार फकीरा सिंह (सं० 13663826ए अथ जे० सी०-174901डब्ल्यू)—07 मार्च, 1988 XX।

XX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार करम सिंह (सं० 13667416एफ अथ जे० सी०-174902वाई)—01 मार्च, 1988।

हवलदार बलबीर सिंह (सं० 13667252डब्ल्यू अथ जे० सी०-174903एफ)—01 मार्च, 1988।

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं० 13667376एल अथ जे० सी०-174904के)—01 मार्च, 1988।

हवलदार धर्म सिंह (सं० 13667558वाई अथ जे० सी०-174905एम)—01 मार्च, 1988।

पैराग्रेड रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी एच एम सूरज भान (सं० 13608578पी अथ जे० सी०-174906पी)—02 दिसम्बर, 1987 \*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर, 1987 से दी जायेगी)।

हवलदार पूरन मल (सं० 13608691के अथ जे० सी०-174907एक्स)—01 दिसम्बर, 1987।

हवलदार बलबीर सिंह (सं० 13604311एच अथ जे० सी०-164908ए)—08 जनवरी, 1988।

मालिनी थडानी, अवर सचिव

नियमित सेना

सेना सेवा कोर

(पूर्ति)

नायब सूबेदार लिपिल (सामान्य ड्यूटी स्टाफ ड्यूटी) के रैंक में

हवलदार भागीरथ मल (सं० 6644113के अथ जे० सी०-175303एल)—14 जनवरी, 1988 \*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार वासुदेव शर्मा (सं० 6644125ए अथ जे० सी०-175304एन)—01 जनवरी, 1988 ख।

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं० 6644340वाई अथ जे० सी०-175305डब्ल्यू)—08 फरवरी, 1988 ख।

ख (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार हरनाम सिंह (सं० 6643332ए अब जे० सी०—175306वाई)—12 फरवरी, 1988 ग

ग (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार शिव नाथ सिंह (सं० 6644203एम अब जे० सी०—175307एफ)—11 फरवरी, 1988 घ

घ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार ज्योय डेनियल (सं० 6643394ए अब जे० सी०—175309के)—12 फरवरी, 1988 च

च (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार भास्करन पिल्लै एन० (सं० 6643415एल अब जे० सी०—175309एम)—01 फरवरी, 1988 छ

हवलदार कोलानचेरी पुथानवीटिल राजेन्द्रन (सं० 6643482 डब्ल्यू अब जे० सी०—17531एफ)—15 फरवरी, 1988 छ

छ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार कैलाश चन्द शर्मा (सं० 6643650के अब जे० सी०—175311के)—29 फरवरी, 1988 झ

झ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार अनायब सिंह (सं० 6643751एक्स अब जे० सी०—175312एम)—01 अप्रैल, 1988 ढ

ढ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार धान धरन सिंह (सं० 6643573ए अब जे० सी०—175313पी)—02 अप्रैल, 1988 द

द (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार अजीत सिंह वनवैत (सं० 6643770एच अब जे० सी०—175314एक्स)—01 अप्रैल, 1988।

हवलदार कुन्धु कुन्जीअम्बा सिषाडुटी नायर (सं० 6643729एच अब जे० सी० 175315ए)—01 अप्रैल, 1988

हवलदार धानामनी जयामोहन (सं० 6643740 एल अब जे० सी०—175316एच)—01 अप्रैल, 1988।

#### 5 जी० आर० (एफ एफ)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ओम बहादुर भाले (जे० सी०—126652एल 1 जुलाई, 1988।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (सिविल) धीरपाल सिंह पारमर (जे० सी०—117225एन)—1 अप्रैल, 1988।

#### 8 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेघ सिंह धले (जे० सी० 83810वाई)—1 मई, 1988।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जाकिर बुरा (जे० सी० 117241एल)—1 अक्टूबर, 1987।

नायब सूबेदार ओम कुमार प्रधान (जे० सी० 117234पी)—1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार वान बहादुर गुरूम (जे० सी० 117236ए)—1 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार पूर्ण बहादुर बुरा (जे० सी० 117237एच०)—1 मार्च, 1988।

जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) बीरबल शर्मा (जे० सी०—129502 वाई)—01 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) चमन लाल बट (जे० सी०—91980एक्स)—01 जुलाई, 1987।

मराठा लाइट इन्फैंट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार महमूद मन्नर महमूद उमर (सं० 13857268एक्स अब जे० सी०—175004एम)—06 अप्रैल, 1988 \*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जनवरी, 1988 से दी जाती है)।

हवलदार राजाराम महादेव कदम (सं० 2760717के अब जे० सी० 175005पी)—23 मार्च, 1988\*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1988 से दी जाती है)।

हवलदार ए० सी० अचप्पा (सं० 2768280 डब्ल्यू अब जे० सी०—175006 एक्स)—01 मार्च, 1988।

हवलदार गनपत पडवल (सं० 2763508एक्स अब जे० सी०—175007ए)—14 मार्च, 1988X।

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मार्च, 1988 से दी जाती है)।

हवलदार हरीशचन्द्र कदम (सं० 2760807एल अब जे० सी०—175008एच)—11 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मामरेज खां (सं० 2861470पी अब जे० सी० 175009एल)—19 जुलाई, 1987X।

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 मई, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार हनुमान सिंह (सं० 2861716एच० अब जे० सी०-175010ए०)---4 दिसम्बर, 1987 ।

हवलदार सुखी राम (सं० 2858765ए० अब जे० सी०-175011एच०)---1 फरवरी, 1988 ।

हवलदार वेद प्रकाश डूडी (सं० 2862048के० अब जे० सी०-175012एल०)---24 फरवरी, 1988 ।

हवलदार ईश्वर सिंह (सं० 28647115एल० अब जे० सी०-175013एन०)---26 फरवरी, 1988 ।

हवलदार श्री चन्द (सं० 2862639एल० अब जे० सी०-175014डब्ल्यू०)---28 फरवरी, 1988 ।

हवलदार उदय भान सिंह (सं० 2867613ए० अब जे० सी०-175015वाई०)---1 मार्च, 1988 ।

हवलदार पारस सिंह महेशा (सं० 2869269वाई० अब जे० सी०-175016एफ०)---17 मार्च, 1988 ।

हवलदार भंवर सिंह (सं० 2862769एन० अब जे० सी०-175017के०)---28 मार्च, 1988 ।

हवलदार मोती सिंह (सं० 2861556एन० अब जे० सी०-175018एम०)---8 अप्रैल, 1988 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम० राजबीर सिंह (सं० 2664394पी० अब जे० सी०-174995वाई०)---06 अगस्त, 1987 ।

सी० एच० एम० बावशाह (सं० 2659848एक्स० अब जे० सी०-174995एफ०)---01 सितम्बर, 1987 ।

सी० एच० एम० जगपाल सिंह (सं० 2666224के० अब जे० सी०-174997के०)---01 सितम्बर, 1987 ।

हवलदार हेम राज (सं० 2658752वाई० अब जे० सी०-174998एम०)---02 सितम्बर, 1987 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अगस्त, 1987)

हवलदार सुदेश कुमार (सं० 2662989एन० अब जे० सी०-174999पी०)---11 सितम्बर, 1987 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अगस्त 1987 )

हवलदार गणपत राम (सं० 2658670डब्ल्यू० अब जे० सी०-175000डब्ल्यू०)---18 सितम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) राम पत (सं० 2654616 एल० अब जे० सी०-175001वाई०)---02 अप्रैल, 1987 ।

हवलदार (लिपिक) सांझी राम सैनी (सं० 2654890 एच० अब जे० सी०-175002एफ०)---02 अप्रैल, 1987 ।

हवलदार (लिपिक) बनवारी लाल (सं० 2654589एम० अब जे० सी०-175003के०)---01 मई, 1987 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल, 1987 )

मालिनि थडानी  
अवर सचिव

105 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी० ए०)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद इबाम (टी० जे० 2876एक्स०) 05 अगस्त, 1988 ।

124 इन्फैन्ट्री बटालियन (टी० ए०)

सूबेदार के रैंक

नायब सूबेदार महेन्द्रा सिंह (टी० जे० 2809एम०)---05 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार आर० एम० दहिधा (टी० जे०-2902एन०) 05 अगस्त, 1988 ।

इंजीनियर्स

970 मुख्यालय रेलवे इंजिनियर्स (टी० ए०)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पी० के० अहीरे (टी० जे० 2367)---22 मई, 1987 ।

नायब सूबेदार एन० सी० भारद्वाज (टी० जे० 2040)---01 अक्टूबर, 1988 ।

एच० डी० सिन्हा  
अवर सचिव

बिहार रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जज यादव (जे० सी०-108420के०)---16 नवम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार वैकेश तिकी (जे० सी०-114001एच०)---1 मई, 1988 ।

नायब सूबेदार सिगराय सुन्डी (जे० सी०-112726के०)---1 मई, 1988 ।

नायब सूबेदार मांझी सोरेन (जे० सी०-125181डब्ल्यू०) 1 मई, 1988 ।

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बल बहादुर सिंह (जे० सी०-91972वाई०)---01 मार्च, 1988 ।

सूबेदार खेमा लन्द (जे० सी०-91961एम०)---01 अप्रैल 1988 ।

सूबेदार वरधाम चन्द (जे० सी०-91986वाई०)---01 अप्रैल, 1988 ।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार तरलोक नाथ शर्मा (जे० सी०-127262पी०)  
01 मार्च, 1988 ।

## गढ़वाल राइफल

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बीरेन्द्र प्रसाद (जे० सी०-82789पी०)--1 नवम्बर  
1987 ।

सूबेदार विशम्बर सिंह (जे० सी०-79871वाई०)--1  
दिसम्बर, 1987 ।

सूबेदार सुदान सिंह अंसवाल (जे० सी०-85089एम०)  
1 दिसम्बर, 1987 ।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सत्या सिंह (जे० सी०-130609एफ०)--  
31 अगस्त, 1987 ।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे० सी०-112774के०)--  
1 सितम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार मातबर सिंह रावत (जे० सी०-108938  
एफ०)--1 सितम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार शेर सिंह (जे० सी०-125287एच०)--  
1 अक्टूबर, 1987 ।

नायब सूबेदार ताजबर सिंह रावत (जे० सी०-124600  
इन्ड्यु०)--22 अक्टूबर, 1987 ।

नायब सूबेदार जगमोहन सिंह (जे० सी०-118902एम०)  
31 अक्टूबर, 1987 ।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह रावत (जे० सी०-124598के०)  
1 नवम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार जीत सिंह (जे० सी०-130839पी०)--  
12 नवम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार जवाला सिंह (जे० सी०-118932के०)--  
28 नवम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार शिव सिंह (जे० सी०-125279के०)--  
1 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार भूपाल सिंह बण्डारी (जे० सी०-125268  
एफ०)--1 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जे० सी०-118916एम०)--  
1 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार जगजीत सिंह (जे० सी०-112886पी०)--  
2 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद (जे० सी०-115819एन०)--  
13 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जे० सी०-116274एफ०)--  
31 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार नन्दन सिंह (जे० सी०-111833वाई०)--  
1 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार कुंवर सिंह बिष्ट (जे० सी०-118922ए०)  
1 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार तीरथ सिंह (जे० सी०-128388एफ०)--  
1 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार बचन सिंह (जे० सी०-119710एफ०)--  
1 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार बचन सिंह (जे० सी०-127320एन०)--  
1 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार चण्डी प्रसाद (जे० सी०-127321इन्ड्यु०)--  
1 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जे० सी०-130840के०)--  
1 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार नसीब राम (जे० सी०-100596ए०)--  
1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार मेहरबान सिंह सिरनवाल (जे० सी०--  
112769वाई०)--1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार उमराव सिंह गुसाई (जे० सी०-112773  
एफ०)--1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार भगत सिंह (जे० सी०-112776पी०)--  
1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार हुकम सिंह (जे० सी०-112779एच०)--  
1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह कुंवर (जे० सी०-118903पी०)  
1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद ध्यानी (जे० सी०-115822  
के०)--1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार प्रेम लाल सिंह (जे० सी०-118920पी०)  
1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार रामेश्वर प्रसाद जोशी (जे० सी०-118923  
एच०)--1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे० सी०-118925इन्ड्यु०)--  
1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार चन्द्र सिंह (जे० सी०-117299एच०)--  
1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार साबर सिंह नेगी (जे० सी०-124602एफ०)  
1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह गुसाई (जे० सी०-118927  
वाई०)--1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जे० सी०-125290एच०)--  
1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जे० सी०-122159ए०)--  
6 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जे० सी०-124605पी०)--  
1 मार्च, 1988 ।

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह रावत (जे० सी०-125283  
एम०)--1 मार्च, 1988 ।



- नायब सूबेदार कन्हैया लाल (जे० सी०-125284पी०)—  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार चैत सिंह भण्डारी (जे० सी०-125295एफ०)—1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार उमेश सिंह नेगी (जे० सी०-125285एक्स०)  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार बर्खा सिंह राणा (जे० सी०-125296के०)  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार गम्भीर सिंह रावत (जे० सी०-125270पी०)  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार अवतार सिंह (जे० सी०-125298पी०)—  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जे० सी०-128396ए०)—  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार बुद्धी सिंह (जे० सी०-128397एच०)—  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार हरेंद्र सिंह (जे० सी०-128939एफ०)—  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जे० सी०-127322वाई०)—  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार बलबन्त सिंह (जे० सी०-129467एच०)—  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार भगवान सिंह (जे० सी०-128400एक्स०)—  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार धनवीर सिंह (जे० सी०-132131एन०)—  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार इन्द्र सिंह (जे० सी०-128384एल०)—  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार महिपाल सिंह (जे० सी०-128385एन०)  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार तिलोत्तन प्रसाद (जे० सी०-128389के०)  
1 मार्च, 1988 ।
- नायब सूबेदार दलबीर सिंह गुमाई (जे० सी०-130841एम०)—1 मार्च, 1988 ।
- सूबेदार मेजर (लिपिक) केरक में  
सूबेदार सच्चिदानन्द पोखरियाल (जे० सी०-86589डब्ल्यू०)—1 फरवरी, 1988 ।
- मिख लाईट इन्फैन्ट्री  
सूबेदार के रैंक में  
नायब सूबेदार जर्नेल सिंह (जे० सी०-124691एल०)—  
10 नवम्बर, 1987 ।
- नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-117724एच०)—  
01 अप्रैल, 1988 ।
- नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जे० सी०-121904एच०)—  
01 अप्रैल, 1988 ।
- नायब सूबेदार प्यारा सिंह (जे० सी०-101494डब्ल्यू०)—  
01 फरवरी, 1987 ।
- नायब सूबेदार सरवन सिंह (जे० सी०-117762वाई०)—  
01 अप्रैल, 1987 ।
- नायब सूबेदार हाकम सिंह (जे० सी०-117765एम०)—  
01 अप्रैल, 1987 ।
- नायब सूबेदार जागीर सिंह (जे० सी०-117766पी०)—  
01 अप्रैल, 1987 ।
- नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जे० सी०-117725एल०)—  
01 अप्रैल, 1987 ।
- नायब सूबेदार दारा सिंह (जे० सी०-117767एक्स०)—  
26 जून, 1987 ।
- नायब सूबेदार करनैल सिंह (जे० सी०-125253पी०)—  
31 अक्टूबर, 1987 ।
- नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जे० सी०-102091एच०)—  
01 दिसम्बर, 1987 ।
- नायब सूबेदार मुखतियार सिंह (जे० सी०-102094डब्ल्यू०)—01 अप्रैल, 1988 ।
- नायब सूबेदार बन्त सिंह (जे० सी०-108459डब्ल्यू०)—  
01 अप्रैल, 1988 ।
- नायब सूबेदार श्याम सिंह (जे० सी०-117764के०)—  
01 अप्रैल, 1987 ।
- नायब सूबेदार रेशम सिंह (जे० सी०-110933एक्स०)—  
01 अप्रैल, 1987 ।
- नायब सूबेदार उजागर सिंह (जे० सी०-114099एफ०)—  
16 जुलाई, 1987 ।
- नायब सूबेदार नाजर सिंह (जे० सी०-107802एफ०)—  
05 सितम्बर, 1987 ।
- नायब सूबेदार कौर सिंह (जे० सी०-107803के०)—  
14 नवम्बर, 1987 ।
- नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जे० सी०-108601पी०)—  
01 दिसम्बर, 1987 ।
- नायब सूबेदार नौरंग सिंह (जे० सी०-108460एल०)—  
04 दिसम्बर, 1987 ।
- नायब सूबेदार दौलत सिंह (जे० सी०-109142एन०)—  
29 जनवरी, 1988 ।
- नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जे० सी०-120144वाई०)—  
1 फरवरी, 1988 ।
- नायब सूबेदार नार सिंह (जे० सी०-127417वाई०)—  
1 मई, 1988 ।
- नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-125314एन०)—  
1 जून, 1988 ।
- नायब सूबेदार गजन सिंह (जे० सी०-125315के०)—  
1 जून, 1988 ।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-125317पी०)--  
1 जून, 1988 ।

नायब सूबेदार गुरजन्त सिंह (जे० सी०-132553आई०)--  
1 जून, 1988 ।

सं० 1813 दिनांक 21 अक्टूबर 1988 --राष्ट्रपति  
सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के पद पर

श्यामल कुमार भट्टाचार्यजी (टी० जे०-3063)--1  
जनवरी, 1986 ।

शेख बाबासाहेब बालेसाहेब (टी० जे०-3064)--05  
अप्रैल, 1986 ।

प्रेम बल्लभ पाण्डे (टी० जे०-3065)--12 जुलाई,  
1986 ।

राम प्रयोजन यादव (टी० जे०-3066)--16 जुलाई,  
1986 ।

जयाराम राम (टी० जे०-3067)--16 जुलाई,  
1986 ।

दुर्गा प्रसाद यादव (टी० जे०-3068)--16 जुलाई,  
1986 ।

सिमानवल पण्डा (टी० जे०-3069)--16 जुलाई,  
1986 ।

विरगोंडा रामगोंडा पाटील (टी० जे०-3070)--  
15 सितम्बर, 1986 ।

श्रीवाजी जाधव (टी० जे०-3071)--15 सितम्बर,  
1986 ।

बाबासाहेब इमामसाहेब देसाई (टी० जे०-3072)--  
15 सितम्बर, 1986 ।

संदेश राव (टी० जे०-3073)--25 सितम्बर, 1986 ।

रणजीत सिंह (टी० जे०-3074)--02 अक्टूबर,  
1986 ।

हरिश्चन्द्र महान्त (टी० जे०-3075)--01 जनवरी,  
1987 ।

जोस एम० पी० (टी० जे०-3111)--01 फरवरी,  
1987 ।

नरेश चन्द (टी० जे०-3115)--22 अगस्त,  
1987 ।

सतपाल (टी० जे०-3117)--01 जनवरी,  
1987 ।

कमान सिंह गुरूंग (टी० जे०-3118)--25 मार्च,  
1987 ।

ए० कृष्णा मूर्ति (टी० जे०-3119)--01 जून,  
1987 ।

जनार्दन टुनरी (टी० जे०-3120)--01 जून,  
1987 ।

अधीर कुमार डी० इ० (टी० जे०-3121)--01  
जून, 1987 ।

गुरबचन सिंह (टी० जे०-3122)--01 जनवरी,  
1988 ।

ताराचन्द वर्मा (टी० जे०-3123)--17 नवम्बर,  
1987 ।

सुरेश सिंह चौहान (टी० जे०-3124)--01  
दिसम्बर, 1987 ।

राजपाल सिंह (टी० जे०-3133)--18 अगस्त,  
1986 ।

बुलबीर सिंह (टी० जे०-3134)--01 अप्रैल,  
1987 ।

हरबंस लाल (टी० जे०-3135)--01 अप्रैल,  
1987 ।

माध सिंह (टी० जे०-3136)--01 अप्रैल,  
1987 ।

कुमूद चन्द्रा सेकिया (टी० जे०-3137)--01  
अप्रैल, 1987 ।

सदाशिव मालाप्पा मडिवासर (टी० जे०-3138)  
--01 मई, 1987 ।

बसया गोडर (टी० जे०-3139)--01 मई, 1987 ।

नागाप्पा भुसी (टी० जे०-3140)--01 मई,  
1987 ।

मारुती लक्ष्मप्पा नीयक (टी० जे०-3141)--01  
मई, 1987 ।

तमाकान्त तमन्नावर (टी० जे०-3142)--01  
मई, 1987 ।

रतनाकर लक्ष्मणाचारी (टी० जे०-3143)--  
01 मई, 1987 ।

बालासाहेब पाटील (टी० जे०-3144)--01 मई,  
1987 ।

जिनगोंडा पाटील (टी० जे०-3145)--01 मई,  
1987 ।

मारुती तुकाराम कोगनुलकर (टी० जे०-3146)--  
01 मई, 1987 ।

चिलमिलीया घन्टी (टी० जे०-3147)--01 जून,  
1987 ।

दिलवर सिंह (टी० जे०-3148)--31 अक्टूबर,  
1987 ।

लोकनाथ सिंह यादव (टी० जे०-3149)--31  
अक्टूबर, 1987 ।

अयोध्या सिंह (टी० जे०-3155)--11 जुलाई,  
1987 ।

हाग कुमार मुकर्जी (टी० जे०-3160)—01 नवम्बर, 1987 ।  
 इन्द्रासन राय (टी० जे०-3161)—01 नवम्बर, 1987 ।  
 जगदीश सिंह (टी० जे०-3162)—01 नवम्बर, 1987 ।  
 इन्द्रा रंजन राय (टी० जे० 3163)—01 नवम्बर, 1987 ।  
 स्वापन कुमार दत्ता (टी० जे०-3164)—01 नवम्बर, 1987 ।  
 पी० खेलेन्द्रो सिंह (टी० जे०-3165)—21 दिसम्बर, 1987 ।  
 कुशवन्त सिंह (टी० जे०-3166)—01 जनवरी, 1988 ।  
 अमर नाथ सिंह यादव (टी० जे०-3667)—14 जनवरी, 1988 ।  
 प्रयाग वत्त (टी० जे०-3168)—14 जनवरी, 1988 ।  
 मोहन बहादुर (टी० जे०-3169)—14 जनवरी, 1988 ।  
 नरेन्द्रा राम (टी० जे०-3170)—14 जनवरी, 1988 ।  
 शिव मंगल सिंह (टी० जे०-3171)—15 जनवरी, 1988 ।  
 रतन दास (टी० जे०-3172)—15 जनवरी, 1988 ।  
 जगदीश राय (टी० जे०-3173)—01 फरवरी, 1988 ।  
 पाथ चन्द्रा (टी० जे०-3174)—01 फरवरी, 1988 ।  
 कलवले पांडुरंग (टी० जे०-3175)—01 फरवरी, 1988 ।  
 भगवान सिंह (टी० जे०-3176)—01 फरवरी, 1988 ।  
 रामाराम चंदेरिया (टी० जे०-3177)—05 मार्च, 1988 ।  
 मोहन सिंह (टी० जे०-3178)—01 अप्रैल, 1988 ।  
 गंगाराम ठाकरे (टी० जे०-3179)—01 अप्रैल, 1988 ।  
 लक्ष्मण (टी० जे०-3180)—01 अप्रैल, 1988 ।  
 चुना राम हुडा (टी० जे०-3181)—01 अप्रैल, 1988 ।  
 वशरथ सिंह (टी० जे०-3182)—01 अप्रैल, 1988 ।  
 श्री चन्द्र (टी० जे०-3183)—01 अप्रैल, 1988 ।

धर्मपाल सिंह (टी० जे०-3184)—01 मई, 1988 ।  
 मोनी मोहन सिधा (टी० जे०-3196)—01 जनवरी, 1988 ।  
 मारुती जाधव (टी० जे०-3197)—01 जनवरी, 1988 ।  
 पुन्वा काम्बले (टी० जे०-3198)—03 अप्रैल, 1988 ।  
 अमृत बेलेकर (टी० जे०-3199)—03 अप्रैल, 1988 ।  
 चिन्ता मणी (टी० जे०-3200)—15 मई, 1988 ।  
 एम० आई० कृष्णन (टी० जे०-3201)—01 जून, 1988 ।  
 राम चन्द्र (टी० जे०-3202)—01 अगस्त, 1988 ।

## इन्जिनियर्स

## नायब सूबेदार के पद पर

दौलत राम (टी० जे०-3076)—06 नवम्बर, 1986 ।  
 एल० रामाकृष्णन (टी० जे०-3077)—20 जनवरी, 1987 ।  
 एम० राजामणिकम (टी० जे०-3078)—20 जनवरी, 1987 ।  
 के० वेंकटा नारायणन (टी० जे०-3079)—20 जनवरी, 1987 ।  
 एम० परमाशिवम (टी० जे०-3080)—20 जनवरी, 1987 ।  
 एस० लक्ष्मीनारायणन (टी० जे०-3081)—20 जनवरी, 1987 ।  
 वी० श्री रमूलू (टी० जे०-3082)—20 जनवरी, 1987 ।  
 डी० कृष्णामूर्ति (टी० जे०-3083)—20 जनवरी, 1987 ।  
 सी० वी० नारासन्ना (टी० जे०-3084)—20 जनवरी, 1987 ।  
 डी० ई० पाण्डे (टी० जे०-3112)—01 जनवरी, 1987 ।  
 पी० जे० थामस (टी० जे०-3113)—01 जनवरी, 1987 ।  
 दिनेश कुमार पाण्डे (टी० जे०-3114)—01 जनवरी, 1987 ।  
 एम० सी० पूर्ति (टी० जे०-3116)—19 दिसम्बर, 1986 ।  
 एस० एल० पाटे (टी० जे०-3150)—18 अक्टूबर, 1984 ।

के० सी० दयाल बाल (टी० जे०-3151)--18  
अक्तूबर, 1984 ।

एन० बी० साबरकर (टी० जे०-3152)--18  
अक्तूबर, 1984 ।

पी० सेलवारज (टी० जे०-3153)--20 अक्तूबर,  
1987 ।

ए० दुराई राज (टी० जे०-3154)--20 अक्तूबर,  
1987 ।

तपश कुमार घोष (टी० जे०-3156)--15  
नवम्बर, 1987 ।

भार० शमाया (टी० जे०-3185)--15 मार्च,  
1988 ।

नेत्र पाल सिंह (टी० जे०-3186)--11 जुलाई,  
1988 ।

सुरजा राम (टी० जे०-3187)--11 जुलाई,  
1988 ।

अश्विनी कुमार मेहता (टी० जे०-3188)--11  
जुलाई, 1988 ।

विजय चन्द्र श्रीवास्तव (टी० जे०-3189)--11  
जुलाई, 1988 ।

प्रम जाल मेहरा (टी० जे०-3190)--11  
जुलाई, 1988 ।

सुश्री लाल राठीर (टी० जे०-3191)--11  
जुलाई, 1988 ।

विजय पाल सिंह (टी० जे०-3203)--11 जुलाई,  
1988 ।

सावर मल जांगीड (टी० जे०-3204)--11  
जुलाई, 1988 ।

#### मेडिकल

नायब सूबेदार के पद पर

दुलाल चन्द्र दे (टी० जे०-3192)--20 जून,  
1988 ।

एच० डी० सिन्हा  
अवर सचिव

सं० 1814 दिनांक 21 अक्तूबर, 1988--निम्न-  
लिखित भ्रतपूर्व जूनियर कमिश्नड अफसरों को पुनः नौकरी  
पर बहाल किया जाता है । रैंक और बहाली की तिथि  
नाम के सामने अंकित है :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेजर कम्पोतर सिंह वर्मा (जे० सी०-  
74389 एन), पहले राज राईफल्स--03 नवम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार फतेह सिंह सन्धू (जे० सी०-  
141059 के), पहले आर्टिलरी--04 मई, 1987 ।

नायब सूबेदार लाल चन्द वर्मा (जे० सी०-73356  
डब्ल्यू), पहले ई० एम० ई०--01 सितम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह मनहाम (जे० सी०-  
105449 एफ), पहले आर्टिलरी--01 सितम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार कर्म चन्द सुमारिया (जे० सी०-  
62865 पी), पहले पायनियर कोर--01 सितम्बर  
1987 ।

नायब सूबेदार नफे सिंह (जे० सी०-82365  
वाई), पहले ग्रेनेडियर्स--04 सितम्बर, 1987 ।

टी० बी० नाथर, डैस्क अधिकारी

सं० 1815 तारीख 28 अक्तूबर, 1988--राष्ट्रपति,  
निम्नलिखित अफसर को, 7 वर्ष की आबंध-शर्तें समाप्त  
करने पर प्रादेशिक सेना सेवा से सेवा-विमुक्त करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कर्मीशन

2/लैफ्टीनेन्ट चन्द्र भूषण कुमार राव (टी० ए०-  
41626), इन्जिनियर्स--12 जून, 1986 (अपराह्न) ।

2/लैफ्टीनेन्ट मिर्जा अहसान मुतजा (टी० ए०-  
41620), इन्जिनियर्स--16 अप्रैल, 1986 (अपराह्न) ।

लैफ्टीनेन्ट गीरगा मोहन दास (टी० ए०-41635),  
इन्जिनियर्स--30 अगस्त, 1986 (अपराह्न) ।

लैफ्टीनेन्ट नागराजन श्यामराजन (टी० ए०-41624),  
इन्जिनियर्स--12 जून, 1986 (अपराह्न) ।

2/लैफ्टीनेन्ट आदित्य कुमार कंसल (टी० ए०-  
41630), इन्जिनियर्स--30 अगस्त, 1986 (अपराह्न) ।

लैफ्टीनेन्ट चन्द्र भान मिह्रा (टी० ए०-41554),  
इन्जिनियर्स--30 जून, 1984 (अपराह्न) ।

2/लैफ्टीनेन्ट शशी भूषण मलिक (टी० ए०-41695),  
इन्जिनियर्स--7 मई, 1988 (अपराह्न) ।

लैफ्टीनेन्ट अनिल मदान (टी० ए०-41558),  
इन्जिनियर्स--30 जून, 1984 (अपराह्न) ।

एच० डी० सिन्हा  
अवर सचिव

रक्षा मन्त्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास  
संगठन  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

सं० 1816 दिनांक 26 अक्टूबर, 1988—इंजीनियरी निदेशालय, अनुसंधान तथा विकास संगठन, नई दिल्ली के श्री एस० एल० दत्ता, वैज्ञानिक "डी" की सेवानिवृत्ति की आयु होने पर उन्हें तारीख 31-8-1988 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त कर दिया गया तथा तारीख 1-9-1988 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित कर दिया गया।

जितेन्द्र दुवे, उपनिदेशक (कार्मिक)

तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु)  
रक्षा वैमानिक गुणता आधवासन सेवा

सं० 1817 दिनांक 26 अक्टूबर, 1988—तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु), रक्षा मन्त्रालय नई दिल्ली के निम्नलिखित अधिकारियों से उनके नाम के आगे दी गई तारीख से अधिवार्षिता प्राप्त कर ली है :—

1. श्री एच० एस० चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी—  
30-4-1988 (अपराह्न)।
2. श्री आर० नारायणन, उप मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी—  
30-6-1988 (अपराह्न)।
3. श्री एच० सी० कपूर, अवर निदेशक (निदेशक श्रेणी-II)—31-7-1988 (अपराह्न)।
4. श्री महेश अन्ना, उप मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी—  
31-7-1988 (अपराह्न)।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्य शाखा, दिल्ली के प्रो० ए० एस० 667/88 और 837/88 द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश के कारण इन अधिकारियों को 31-8-1988 तक सेवा करते रहने की अनुमति दी गयी थी। उपर्युक्त स्थगन आदेश को दिनांक 31-8-1988 से रद्द कर दिया गया है और इसलिए इन अधिकारियों को 31-8-1988 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। इनके 58 वर्ष की आयु के बाद की सेवा पर अन्य स्वीकार्य लाभ के लिए अधिकरण/सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के आधार पर ही विचार किया जायेगा।

एम० एस० चांपड़ा  
डैस्क अधिकारी, रक्षा मन्त्रालय

सं० 1818, दिनांक 31 अक्टूबर, 1988—अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर महानिदेशक आर्चनेंस फेक्टरी/अध्यक्ष, आर्चनेंस फेक्ट्री बोर्ड, कलकत्ता, श्री एन० के० पद्मनाभन 31 अक्टूबर, 1988 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

एम० एल० मम्पतकुमारन  
निदेशक (पी)

सं० 1819, दिनांक 17 अक्टूबर, 1988—निवर्तन की आयु होने पर, मानकीकरण निदेशालय में कार्यरत, कार्यालय महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के उप सहायक महानिदेशक (अण्डार) (सिविलियन), श्री कन्हैया प्रसाद, 30 सितम्बर, 1988 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

बी० बी० राय  
कर्नल ए०डी०जी० (योजना)

(वायु शाखा)

सं० 1820, तारीख 21 अक्टूबर, 1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित मूल पवोसतियां करते हैं :—

भारतीय वायुसेना

प्रशासन शाखा

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक में

बी० एस० चौहान (9994)—1-2-1986।

पदक्रम सूची में इनका नाम विंग कमांडर ए० सार्दवाबा (9996) प्रशासन के नाम से पहले आएगा।

के० एम० दामोदरन  
सहायक निदेशक कार्मिक (अफसर) 2-ए

सं० 1821, तारीख 19 अक्टूबर, 1988—राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मन्त्रालय के पत्र संख्या वाभयु/18731/16/699/यू० एल०/डी० (एयर-4) दिनांक 19 अप्रैल 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित को स्थायी कर्मचारी तथा विंग (एक वर्ष के लिए परखाधीन प्रदान करते हूँ) यह अफसर स्थायी कमीशन तथा विंग (परखाधीन) प्रदान किये जाने की तारीख अर्थात् 14 जून, 1985 से उठान वेतन प्रदान किये जाने के पात्र होंगे।

भारतीय वायुसेना

उड़ान (पायलट) शाखा

(भूतपूर्व वायुसैनिक कौडेट की पायलट अफसर के रूप में)

(682982) ए० सी० प्रशिक्षण अन्तर्गत ओस्कर जोसेफ स्टेफन (17860)—14 जून, 1985 से ।

वी० बालागोपालन  
स्ववाङ्मन लीडर ए० डी० पी० ओ०  
3(डी)

सं० 1822, तारीख 26 अक्टूबर, 1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को, उसके नाम के सामने लिखी तारीख से उड़ान (नेविगेटर) शाखा से परिभारिकी शाखा में स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी में स्थानान्तरित करते हैं। परन्तु भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से यु / 21901/15000/पी० ओ० 3(डी)/4118/यू एस/डी (एयर-III) तारीख 15 दिसम्बर, 1986 के अनुसार परिभारिक शाखा में उनकी शाखान्तरित दरिष्ठता वहीं होगी, जैसे कि उन्हें इस शाखा में मूलरूप से कमीशन प्रदान किया गया हो ।

भारतीय वायुसेना

उड़ान (नेविगेटर) शाखा

फ्लाइट लेफ्टनेन्ट के० एम० गफफार (15000)—  
18 जुलाई, 1986 ।

के० सी० गांगुली  
विंग कमांडर सहा निदेशक का अफसर 3(डी)  
एक्स : 351

सं० 1823 तारीख 16 सितम्बर, 1988—  
राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों जिन्हें स्थायी कमीशन  
(परखाधीन) प्रदान किया गया था, की पुष्टि करते हैं ।

भारतीय वायुसेना

मौसम विभाग

पायलट अफसर आर० के० डीगरां (18429),  
एस० के० वशिष्ठ (18425), ए० के० गोयल (18424),  
के० आर० नारायण (18428), एस० त्यागी (18430),  
एन० के० राणा (18431), एस० एन० मिश्रा (18427),  
आर० जैन (18420), एन० शर्मा (18421), संजय  
(18418)—13 जू, 1987 ।

सं० 1824 तारीख 21 अक्टूबर, 1988—राष्ट्रपति,  
वा से अनु 20/76, 28/76 तथा वा से अनु (शुफि पत्र)  
7/78 तथा 13/81 के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित  
की पायलट अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परखाधीन)  
प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

शिक्षा शाखा

(भूतपूर्व वायुसैनिक पायलट अफसर के रूप में)  
670074 कारपोरल गुरमीत सिंह (19268)—  
19 दिसम्बर से ।

वी० बालगोपालन  
स्ववाङ्मन लीडर ए० डी० पी० ओ० 3(डी)

सं० 1825, तारीख 21 अक्टूबर, 1988—राष्ट्रपति,  
निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

उड़ान शाखा

ग्रुप कैप्टन से एयर कमांडर के मूल रैंक में  
डी० एन० राठीर, वी० आ०, सी० वी० एस० (5780)  
उ० (पायलट)—2-5-1987 ।

जगदीर सिंह, वी० आर० सी० (5783) एफ० (पी०)—  
2-5-1987 ।

एस० के० बहल, वा० से० मे० (5786) उ० (पा०)—  
2-5-1987 ।

भरत कुमार, अति० वि० से० मे० (5737) उ० (पा०)  
—2-5-1987 ।

के० खन्ना, वा० से० मे० (5795) उ० (पा०)—  
2-5-1987 ।

डी० बैनर्जी (5800) उ० (पा०)—2-5-1987 ।

ए० ब्रह्मवार, वा० से० मे० (5858) उ० (पा०)—  
1-10-1987 ।

ए० वाई० दिपनीस, वि० से० मे० (5859) उ० (पा०)  
—1-10-1987 ।

एस० डी० मिले, वा० से० मे० (5924) उ० (ने०)—  
1-10-1987 ।

के० बी० सिंह, वा० से० मे० वि० से० मे० (5865)  
उ० (पा०)—1-12-1987 ।

डी० एस० सहिया (5866) उ० (पा०)—1-12-  
1987 ।

के० आर० दत्तन, वा० से० मे० (5873) उ० (पा०)  
—1-12-1987 ।

के० के० बाबू (5874) उ० (पा०)—1-4-1988 ।

के० एम० दामोदरन  
सहा० निचे० का अफ० 2(ए)

शुद्धि-पत्र

सं० 1826, दिनांक 31 अक्टूबर, 1988—भारत के  
राजपत्र नं० 1932 दिनांक 9 सितम्बर, 1985 (भाग-I  
खण्ड 4) में 'नियमित सेना'—स्थायी कमीशन के अन्तर्गत  
सब हैडिंग 'मेजर से लफ्टिनेंट कर्नल (न्यून द्वारा)' मेजर  
एस० के० बिशनोई (बी० 256) आर० वी० सी० के सामने :—

के लिए :—

मेजर एस० के० बिशनोई (बी०—256) आर० वी० सी०  
—12 अक्टूबर, 1983 ।

पढ़ा जाए :—

मेजर एल० के० बिशनोई (बी०—256) आर० वी० सी०  
—11 अक्टूबर, 1983 ।

ले० कर्नल पी० बी० पाण्डे,  
सहायक सेना सचिव

के लिए :—

बी० एच० एम० गोपीचन्द्र यादव (नं० 1292962 एफ अरब  
जे० सी०—171433 डब्ल्यू)—1 अगस्त 1987 ।

पढ़ा जाए :—

बी० एच० एम० गोपीचन्द्र यादव (नं० 1292962 एफ  
अरब जे० सी०—171433 डब्ल्यू)—1 अगस्त, 1987 ।

के लिए :—

हवलदार जारे भानुदास शम्भाजी (नं० 1268607 एल  
अरब जे० सी०—171446 एन)—1 मितम्बर, 1987 ।

पढ़ा जाए :—

हवलदार जर भानुदास शम्भाजी (नं० 1268607 एल  
अरब जे० सी०—171446 एन)—1 मितम्बर, 1987 ।

टी० बी० नायर  
उस्क अधिकारी

शुद्धि-पत्र

नियमित सेना : स्थायी कमीशन

सं० . ल . . . . . दिनांक . . . . .

रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 749/88 दिनांक  
27 अप्रैल, 1988 के अन्तर्गत जो कि भारत के राजपत्र  
में दिनांक 28 मई, 1988 के शीर्षक 'नियमित सेना'  
स्थायी कमीशन और उन शीर्षक स्थायी मेजर से स्थायी  
ले० कर्नल के बाद त्रुटि हुयी : जे० के० नांगपाल  
(आई० सी०—16105) इम्प्रीनियर्स,—01 जून, 1987 :—  
'जोड़ा जाये

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

स्थायी ले० कर्नल से स्थायी कर्नल

बी० एन० अवाटी  
अवर सचिव

वित्त प्रभाग

सं० 22013/4/84—स्था०—1—दिनांक 10 नवम्बर,  
1988—राष्ट्रपति, के० से० आ० से० के ग्रेड "ग" के स्थायी  
आशुलिपिक, श्री शिव नारायण सिंह को दिनांक 1-5-1988  
से 14-11-1988 (दिनांक 9-6-1988 और 8-10-  
1988) के एक दिन के विच्छेद सहित) तक की अवधि के  
लिए अथवा नियमित अधिकारी के आने तक इसमें से जो भी  
पहले हो, उस तक के लिए वित्त प्रभाग में तदर्थ आधार पर  
सेवा के मिश्रित ग्रेड "क" और "ख" में सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

ए० पी० कथूरिया  
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th November 1988

No. 1802, dated 31st October, 1988.—The President is pleased to appoint the following Grade 'A' Officers of CSSS Cadre, Ministry of Defence, to officiate as Private Secretaries in the up-graded posts in the pay scale of Rs. 3000—4500 on ad-hoc basis for a further period upto 11-1-1989 or till empanelled officers become available or till further orders whichever is earlier :—

1. Shri O. P. Bahal
2. Shri B. K. Khanna
3. Shri H. L. Maini
4. Shri M. L. Dargan.

No. 1803, dated 31st October, 1988.—The President is pleased to appoint the following permanent Assistants of Ministry of Defence cadre as Section Officers in the Ministry with effect from the forenoon of the 31st October 1988, until further orders, consequent on their inclusion in the Select List of Section Officers Grade (Examination Quota) for the year 1987 :—

1. Smt. Sujasha Chaudhary.
2. Shri Gurcharan Singh Audhkhasi.
3. Shri Lahorru Raru.
4. Shri K. J. Jayaprakash.
5. Shri Rajendra Chaturvedi.
6. Smt. Mary Bahalen Barla.
7. Shri Khatchin Langel.

The above appointments shall be subject to the result of the application No. OA.1189/87 filed in the Tribunal.

No. 1804, dated 1st November, 1988.—On completion of tenure, the services of Shri S. Bagchee, IAS (MH : 73) Director, Ministry of Defence, are placed at the disposal of the Government of Maharashtra with effect from the afternoon of 31st October 1988.

G. B. WADAWADIGI, Under Secy.

## (ARMY BRANCH)

No. 1805, dated 13th October, 1988.—The President is pleased to make the following appointments :—

## REGULAR ARMY

## Army Ordnance Corps

To be Substantive Subedar Amn Tech

Paid Acting Sub Amn Tech Digamber Rao Anna Rao Kulkarni (JC-101386M) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Amn Tech Kulwant Singh (JC-92090K) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Amn Tech Charan Singh (JC-92089P) 01 Sep 88.

To be Substantive Subedar Clerk AOC

Paid Acting Sub Clk S Cont Kamleshwar Prasad Srivastava (JC-111242K) 01 Mar 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont Ram Sewak Verma (JC-130408N) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont Gajendra Nath Sharma (JC-121761W) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Clk S Prov Hardwari Lal Kanwat (JC-121809W) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont Chhatter Pati (JC-121805A) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont Ram Lubhaya (JC-121806A) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Clk S Prov Sri Krishna Rai (JC-121763Y) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont Hari Singh (JC-121804X) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont Ram Pati Singh (JC-121760L) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont Girwar Singh (JC-121807L) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont Ram Narayan Singh (JC-130409L) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont Kurda Ram (JC-130410A) 01 Sep 88.

To be Substantive Subedar SK Tech

Paid Acting Sub Skt MT Jagdish Prasad Tripathi (JC-110440W) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Skt MT Bhanwar Singh Rathore (JC-110886L) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Skt MT Amar Singh Dhanwal (JC-110434H) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Skt MT Sardar Singh Dagar (JC-110438Y) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Skt MT Jai Narayan Khatri (JC-110436N) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Skt MT Sansar Chand (JC-110606M) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Skt MT Panam Patta Gopalan (JC-110439F) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Skt MT Baldev Singh (JC-110437W) 01 Sep 88.

To be Substantive Subedar Drivers

Paid Acting Sub OHME Jai Chand (JC-140741P) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Dvr MT Bhanwar Singh (JC-144039F) 01 Sep 88.

To be Substantive Subedar Tex Rep

Paid Acting Sub Tex Rep Chander Jit Ram (JC-139145W) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Tex Rep Phoola Ram (JC-131514N) 01 Sep 88.

To be Substantive Subedar OLP

Paid Acting Sub OLP Chhabi Nath Ram (JC-153504K) 01 Sep 88.

To be Substantive Subedar ER (Unit)

Paid Acting Sub SH GD Laxman Kamble (JC-121843-Sep 88).

To be Substantive Subedar SH GD

Paid Acting Sub SH GD Laxman Kamble (JC-121843-W) 01 Sep 88.

Paid Acting Sub SH GD Mukh Ram (JC-117153P), 01 Sep 88.

To be Substantive Subedar SII Tech

Paid Acting Sub SH Tech Raja Ram Yadav (JC-141936-M), 01 Sep 88.

Paid Acting Sub Maj OMHE Baboo Lal (JC-103685K), 01 Jul 88.

To be Substantive Subedar Major SH GD

Paid Acting Sub Maj SH GD Tarsem Lal (JC-81397P), 01 Jun 88.

A. S. RAO, Under Secy.



## DEFENCE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 1806, dated 24th October, 1988.—Shri Nirmal Chander, Assistant Civilian Staff Officer Armed Forces Headquarters (Civil Service), Ministry of Defence, New Delhi is appointed on deputation as Junior Analyst in Directorate of Vigilance and O&M, Research & Development Organisation, New Delhi in the pay scale of Rs. 2000—3500/- for a period of three years with effect from 04-10-1988 (F/N).

No. 1807, dated 25th October, 1988.—The President is pleased to make the following promotion:—

Shri A. Sampath, Senior Administrative Officer, Combat Vehicles Research & Development Establishment, Avadi, Madras, to be officiating Chief Administrative Officer, in the same Establishment, with effect from 19-8-88 (F/N).

I. B. P. DUBEY, Deputy Director (Pers)

## (KARYALAYA MAHA NIDESHAK SASHTRA SENA CHIKITSA SEWA)

No. 1808, dated 24th October, 1988.—The President is pleased to appoint following Pt Senior Stores Supdt as Officiating Stores Officer (Civilian) in Armed Forces Medical Stores Depot Cadre with effect from the dates shown against each. They will be on probation for a period of two years.

- (a) Shri G. Krishnaswamy SO (CIV), 09 Mar 1988.
- (b) Shri G G Ahuja SO (CIV), 09 Mar 1988.
- (c) Shri G K Sawant SO (CIV), 25 Mar 1988.

B B ROY,  
Col  
ADG (Plng)

## INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRADUN

No. 1809, dated 23rd October, 1988.—The President is pleased to confirm Shri L. Thustob, Lecturer in Tibetan in Indian Military Academy, Dehradun as permanent Lecturer with effect from 01 April 1986.

R. R. KOSHAL, Under Secy.

## NATIONAL DEFENCE ACADEMY, KHADAKWASLA

No. 1810, dated 23rd October, 1988.—The President is pleased to confirm the following lecturers of National Defence Academy, Khadakwasla, in the grade of Lecturer with effect from the date shown against their names:—

1. Dr C V Ramaiah, 15 Jul 72.
2. Shri P C Haldar, 04 Nov 72.
3. Shri P B Mohod, 26 Aug 75.
4. Shri J C Maurya, 03 May 73.
5. Shri B C Kalita, 03 May 73.
6. Shri N. Hariharan, 10 Mar 75.
7. Shri S N Maitra, 29 Jul 73.
8. Shri R P Saxena, 05 Oct 73.
9. Shri D T Misal, 15 Mar 74.
10. Shri S H Hussainy, 01 Apr 75.
11. Shri K D Dhavse, 01 Apr 75.
12. Shri L N Jatwa, 01 Apr 75.
13. Shri B S Rajyum, 01 Apr 75.
14. Shri Y G Marathe, 01 Apr 75.
15. Shri V G Dixit, 01 Apr 75.
16. Shri V K Nigam, 06 Aug 75.
17. Shri A U Khan, 31 Jan 76.

6—344G1/88

18. Shri P P Handa, 14 Nov 76.
19. Shri M M Manwatkar, 14 Nov 76.
20. Shri G S Pandey, 14 Nov 76.
21. Shri K. Madhavan, 14 Nov 76.
22. Shri S S Bhatti, 05 Dec 76.
23. Dr. M K Nagpal, 09 Dec 76.
24. Shri Surjit Singh, 10 Dec 76.
25. Shri B C Srivastava, 18 Jan 77.
26. Shri N N Newaliya, 12 May 77.
27. Shri S M Chavan, 20 Sep 78.
28. Shri S C Bose, 05 Feb 79.
29. Shri J K Mehta, 05 Feb 79.
30. Shri S P Shettar, 11 Apr 79.
31. Shri T K Kamble, 03 Aug 79.
32. Shri M R Chawdhary, 03 Aug 79.
33. Shri A R Wankhade, 01 Dec 79.
34. Shri K Z Ansari, 22 Jan 81.
35. Dr. M M Mishra, 11 Jun 81.
36. Shri M R Chaube, 11 Jun 81.
37. Dr. B K Bohra, 11 Jun 87.
38. Dr. S. De, 11 Jun 81.
39. Shri J K Bhagwat, 11 Jun 81.
40. Shri V Chidambaram, 14 May 82.
41. Shri H N Dakua, 14 May 82.
42. Shri S P Dwevedi, 14 May 82.
43. Dr. (Mrs) S K Singh, 14 May 82.
44. Shri Anand Kishore, 14 Nov 82.
45. Shri A. Ranadey, 14 May 82.
46. Dr. Kishori Lal, 07 Oct 82.
47. Shri J. Dasgupta, 06 May 83.
48. Dr. B K Jain, 06 May 83.
49. Shri S. Patre, 06 May 83.
50. Dr. V B Singh, 06 May 83.
51. Shri K D Mehra, 06 May 83.
52. Shri V C Gaikwad, 23 Dec 83.
53. Dr. R P Rai, 08 Mar 84.
54. Dr. S K Upadhyay, 08 Mar 84.
55. Dr. V C Misra, 08 Mar 84.
56. Shri S K Mago, 08 Mar 84.
57. Dr. N K Kumar, 08 Mar 84.
58. Miss M R Katare, 08 Mar 84.
59. Dr. Q J A Khan, 14 Sep 85.
60. Dr. (Mrs) S. Muralidharan, 14 Sep 85.
61. Dr. A S Rao, 14 Sep 85.
62. Dr. R L Kothari, 14 Sep 85.
63. Dr. A N Srivastava, 14 Sep 85.
64. Shri V D Mahajan, 14 Sep 85.
65. Shri B N Rao, 01 Jan 86.
66. Dr. S. Rajasekhara, 31 May 86.
67. Shri A. Banerjee, 01 Jun 86.

R R KOSHAL, Under Secy.

## (ARMY BRANCH)

No. 1811, dated 23rd October, 1988.—The President is pleased to make the following promotions:—

## (REGULAR ARMY)

## ARMY SERVICE CORPS

## (SUPPLY)

To be Nb Sub Clerk (Store)

Hav Shri Krishna Singh (6644317-X now JC-175900A), 31 Dec 87.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 87 without effect on pay and allowance).

Hav Ram Niwas Tiwari (6643999-F now JC-175901H), 01 Jan 88.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 87 without effect on pay and allowance)

Hav Sivarama Pillai C G (6644451-H now JC-175902L), 01 Sep 87.

Hav Gaj Raj Singh (6644387-W now JC-175903N), 01 Sep 87.

Hav Tej Pratap Singh (6644455-Y now JC-175904W), 25 Dec 87.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Sep 87 without effect on pay and allowance).

Hav Hari Shanker (6643994-L now JC-175905Y), 23 Nov 87.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 87 without effect on pay and allowance).

Hav Kashmir Singh (6644494-X now JC-175906F), 23 Nov 87.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 87 without effect on pay and allowance).

Hav Amir Singh Guraya (6644495-A now JC-175907K), 26 Nov 87.\*

Hav Randhir Singh (6644476-P now JC-175908M), 14 Dec 87.\*

Hav Kishor Kumar Mehta (6644496-H now JC-175909P), 20 Nov 87.\*

Hav Ram Mehar Antil (6644500-A now JC-175910K), 04 Dec 87.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 87 without effect on pay and allowance).

Hav Amarjit Singh Randhawa (6644509-P now JC-175911M), 29 Dec 87.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Nov 87 without effect on pay and allowance).

Hav Inder Singh (6644516-L now JC-175912P), 11 Jan 88."/

Hav Nafe Singh (6644517-H now JC-175913X), 15 Jan 88."/

Hav Chandra Bhusan Singh (6644560-P now JC-175914A), 29 Dec 87."/

Hav Tej Ram (6644562-A now JC-175915H), 01 Jan 88."/

Hav Brahm Singh (6643676-Y now JC-175916L), 16 Feb 88."/

Hav Dharam Pal (6644603-Y now JC-175917N), 01 Jan 88."/

Hav Sivaraman Nair C N (6644638-P now JC-175918W), 31 Jan 88."/

Hav Vijai Darshan Singh (6644639-X now JC-175919Y), 31 Dec 87."/

Hav Mahabir Singh Koslia (6644646-N now JC-175920N), 31 Dec 87."/

Hav Balbir Singh (6644651-Y now JC-175921W), 30 Dec 87."/

Hav Prem Singh Dosanjh (6644671-M now JC-175922-Y), 05 Jan 88."/

Hav Bhim Singh (6644675-H now JC-175923F), 01 Jan 88."/

Hav Avtar Singh (6644686-P now JC-175924K), 03 Jan 88."/

"/(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 87 without effect on pay and allowance).

Hav Ram Niwas Khatana (6644413-M now JC-175925M), 13 Apr 88.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Dec 87 without effect on pay and allowance).

Hav Kedari Lal Shah (6643660-N now JC-175926P), 02 Jul 88.&

Hav Keshav Nath Mishra (6643784-H now JC-175927X), 24 Mar 88.&

Hav Nag Deo Singh (6644332-M now JC-175928A), 25 Mar 88.&

Hav Udaivir Singh (6644255-H now JC-175929H), 25 Mar 88.&

Hav Lakhbir Singh Randhawa (6644449-L now JC-175930X), 23 Mar 88.&

Hav Thellore Chinnappa Munisami (6643973 M now JC-175931A), 03 Jun 88.&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 88 without effect on pay and allowance).

Hav Rajendra Singh Yadav (6644278-K now JC-175932-H), 24 Mar 88.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 88 without effect on pay and allowance).

Hav Chhotu Ram (6644515-H now JC-175933L), 19 Apr 88.@

Hav Jai Bhan Dalal (6644701-Y now JC-175934N), 21 Mar 88.@

Hav Pursottam Pandey (6644700-W now JC-175935W), 04 Jun 88.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowance).

Hav Rajinder Kumar Singh (6643838-Y now JC-175936-Y), 11 Apr 88.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Mar 88 without effect on pay and allowance).

Hav Banwari Lal Thakan (6644705-P now JC-175937F), 05 May 88.%

Hav Kailash Tripathi (6644755-A now JC-175938K), 27 Jun 88.%

Hav Upendra Nath Tiwari (6643785-K now JC-175939-M), 04 May 88.%

Hav Um Rao Singh Yadav (6644791-L now JC-175940-F), 07 May 88.%

Hav Pashu Patinath Singh (6644833-M now JC-175941-K), 16 May 88.

Hav Gopinath Pal (6644824-A now JC-175942M), 10 May 88.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 88 without effect on pay and allowance).

Hav Jaswant Singh (6644810-L now JC-175943P), 20 Jun 88.% %

Hav Chandrika Singh Yadav (6644841-L now JC-175944-X), 16 May 88.% %

Hav Narmadeshwar Kumar Singh (6644803-P now JC-175945A), 26 May 88.%%

%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowance).

Hav Bijai Singh Negi (6644905-L now JC-175946H), 04 Jul 88.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 88 without effect on pay and allowance).

ANIL KUMAR, Under Secy.

No. 1812, dated 23rd October, 1988.—The President is pleased to make the following promotions:—

### REGULAR ARMY

#### Armoured Corps

##### To be Ris

Naib Risaldar Bharat Thakur (JC-127812M), 01st Aug 1987.

Naib Risaldar Kabul Singh (JC-133967X), 01st Sep 1987.

Naib Risaldar Chhail Singh (JC-113043H), 9th Sep 1987.

Naib Risaldar Ajit Singh (JC-138044W), 01st Nov 1987.

Naib Risaldar Shiv Rattan Singh (JC-133933K), 01st Nov 1987.

Naib Risaldar Kellappa Kade Mani (JC-144524W), 01st Dec 1987.

Naib Risaldar Ved Singh (JC-133950K), 01st Jan 1988.

Naib Risaldar Rajinder Singh (JC-128207L), 01st Feb 1988.

Naib Risaldar Prakash Chand (JC-127787Y), 28th Apr 1988.

Naib Risaldar Harinder Singh (JC-126650A), 01st May 1988.

##### Infantry

#### The Mechanised Infantry Regiment

##### To be Subedar

Nb Sub Narain Singh (JC-144197W), 02nd Jul 1987.

Nb Sub Ramasamy Narayanasamy (JC-127129M), 01st Aug 1987.

Nb Sub Ravinder Kumar (JC-144198Y), 20th Oct 1987.

Nb Sub Seromani D (JC-127130F), 01st Nov 1987.

Nb Sub K.P. Vijayan (JC-133726X), 01st Nov 1987.

Nb Sub Rengasamy Venuraj (JC-133727A), 01st Mar 1988.

Nb Sub Gopalsamy Pothirajan (JC-133728H), 01st Mar 1988.

Nb Sub Mahipal Singh (JC-130971P), 03rd Mar 1988.

Nb Sub Dalbir Singh (JC-128169A), 01st Apr 1987.

Nb Sub Balbir (JC-128170P), 01st Apr 1987.

Nb Sub Deb Singh Negi (JC-129360H), 01st Feb 1988.

Nb Sub Sabal Singh (JC-133734W), 01st Mar 1988.

Nb Sub Amar Singh (JC-135918N), 01st Apr 1988.

Nb Sub Mohan Singh (JC-135919W), 01st Apr 1988.

##### To be Subedar Major

Subedar Kirpa Ram Mangain (JC-95768X), 01st Feb 1988.

Subedar Maheshwar Jang (JC-82861A), 01st Mar 1988.

Subedar Goverdhan Singh, VrC (JC-83780M), 01st Mar 1988.

Subedar Mul Raj Thapa (JC-82862H), 01st Apr 1988.

Subedar Govind Singh (JC-90909X), 01st Apr 1988.

Subedar Anand Singh (JC-100500M), 01st Apr 1988.

##### To be Subedar

Nb Sub Tek Bahadur Thapa (JC-128086P), 01st Jan 1988.

Nb Sub Randhoj Thapa (JC-128087X), 01st Jan 1988.

Nb Sub Damar Bahadur Gurung (JC-128088A), 01st Feb 1988.

Nb Sub Kushal Singh (JC-128486F), 01st Mar 1988.

Nb Sub Nar Bahadur Gurung (JC-128139H), 01st Apr 1988.

Nb Sub Moti Ram (JC-132004Y), 01st Apr 1987.

Nb Sub Kishan Lal (JC-134485P), 01st May 1987.

Nb Sub Ishwar Singh (JC-140328X), 01st Oct 1987.

Nb Sub Khajan Singh (JC-135913P), 19th Mar 1988.

Nb Sub Netar Chand (JC-131993A), 01st Sep 1987.

Nb Sub Sohan Singh (JC-133445F), 01st Mar 1988.

Nb Sub Gunj Bahadur Basnet (JC-132014F), 01st Apr 1988.

Nb Sub Clerk Ran Singh Sehwat (JC-135932A), 01st Feb 1988.

Nb Sub Clerk Chacko Lukose (JC-135933H), 01st May 1988.

##### To be Substantive Subedar

Sub An Singh Pal (JC-100501P), 01st May 1988.

Sub Francis Pathrose (JC-100494K), 01st May 1988.

##### To be Subedar

Nb Sub Chhattar Singh (JC-127219N), 01st Apr 1988.

Nb Sub Balik Das Sharma (JC-126505H), 01st May 1988.

Nb Sub Kuldip Singh (JC-138536P), 01st Mar 1988.

Nb Sub Roshan Lal (JC-128485Y), 09th Apr 1988.

Nb Sub Mahipal Singh (JC-127239F), 01st Jun 1988.

Nb Sub Chander Bhan (JC-138537X), 01st Jun 1988.

#### Armoured Corps

##### To be Ris Maj

Risaldar Bali Ram Singh (JC-64607N), 01st Mar 1988.

Risaldar Dashrath Singh (JC-82474L), 01st Mar 1988.

Risaldar Bahadur Singh (JC-95513X), 01st Mar 1988.

Risaldar Om Prakash (JC-97140N), 01st Mar 1988.

Risaldar Rajendra Prasad Singh (JC-90114K), 01st Apr 1988.

Risaldar Clk GD Avtar Singh (JC-104405Y), 01st Apr 1988.

Risaldar Harbans Singh (JC-99768P), 01st Apr 1988.

Risaldar Yousuf Ali Khan (JC-91771A), 01st Apr 1988.

Risaldar Bijay Singh (JC-97122N), 01st May 1988.

Risaldar Brij Lal (JC-90111W), 01st May 1988.

Risaldar Darshan Singh Deol (JC-95518W), 01st May 1988.

Risaldar Kashmir Singh (JC-105396A), 01st May 1988.

Risaldar Shankar Singh (JC-87479P), 01st May 1988.

#### The Mahar Regiment

##### To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Clk Yeshavant Kamble (No. 4540271F now JC-175101K), 17th Feb 1988.

Hav Clk Sukumaran G (No. 4540284Y now JC-175102M), 17th Feb 1988.

Hav Clk Ram Pal Singh (No. 9210683K now JC-175103P), 01st Apr 1988.

MALINI THADANI, Under Secy.

## Lt to be Capt

Rajnish Handa (IC-40890), Harpreet Singh (IC-40892) Inf, Virendra Singh (IC-40894), N N Bhattacharjee (IC-40895) Inf, V K Bhardwaj (IC-40896) Sigh, S K Arora (IC-40897) ASC, P V Hari (IC-40898) Arty, Atul Kashyap (IC-40899) Inf, A K Mall (IC-40900) Arty, K Mendonca (IC-40901) ASC, Rajiv Devgan (IC-40902) AOC, Najmul Ahasan (IC-40903) Sigs, K S Nijjar (IC-40904) Arty, R S N Singh (IC-40905), Raja Kumar Nanda (IC-40906) Inf, R N Bali (IC-40907), Samit Ghosh (IC-40908) Arty, Nilesh Lal (IC-40909) AC, Gumsor Ango (IC-40910), P Y Parbately (IC-40912) Inf, R K Goyal (IC-40913), Arty, M K Mishra (IC-40914) ASC, Hari Easwaran (IC-40915) Engrs, Vipin Bihari (IC-40916) Inf, Badri Vittal (IC-40918) Engrs, P S Gill (IC-40919) Inf, Har Raj Singh (IC-40920) Arty, H S Sidhu (IC-40921) Engrs, Manjit Singh (IC-40922), Vijay Kohli (IC-40923) Arty, H S Rawat (IC-40924), Amitabh Joshi (IC-40925) Inf, S L Jangid (IC-40926) ASC, Abhijit K Bhattacharyya (IC-40927) Inf, Navin Mohan (IC-40929) Engrs, P K Biswas (IC-40930) Inf, S Gautama (IC-40932) Engrs, M Vinaya Chandran (IC-40933), A K Sharma (IC-40934) Inf, NP Chandran (IC-40936) ASC, S V Patil (IC-40937) Engrs, Niranjan Pati (IC-40938) Arty, D R Bhotia (IC-40940), D S Sodhi (IC-40942), R C Chhillal (IC-40943), D K Mitra (IC-40944), S S Hooda (IC-40945) Inf, B L Chaudhary (IC-40946), Arty, S S Rao (IC-40947) Inf, R P Kalisipudi (IC-40948) Arty, L V Ramana (IC-40949), P K S Roy (IC-40950) Inf, M R Karim (IC-40951) Engrs, K D Prasad (IC-40952) Inf, K Reji (IC-40954) Arty, Shashikant Sinha (IC-40955) Arty, Lalit Kapoor (IC-40956), K K Bhatia (IC-40957), R K Sharma (IC-40958) Engrs, Arun Khanna (IC-40959), A K Tyagi (IC-40960), Rajeev Srivastava (IC-40961) Inf, R K Nayyar (IC-40962) Arty, Amitabh Amit (IC-40963) Inf, B M Vijay (IC-40965) Sigs, Shachin Suri (IC-40966) Arty, Vivek Saran (IC-40967) Inf, Y S Rana (IC-40968) Arty, 24th Dec 1987.

D H PARAB,  
Lt Col  
AMS-8A

## DEFENCE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT SERVICE

Shri T. R. Gangadharan, Scientist 'D', Combat Vehicles Research & Development Establishment Avadi, Madras to be officiating Scientist 'E' in the same Establishment with effect from 1-7-83.

J. B. P. DUBEY, Deputy Director (Pers.)

## PERMANENT COMMISSION

## Lt to be Capt

Jawahar Mandal (IC-40969) Inf, Hardip Judge (IC-40970) AOC, A K Singh (IC-40972) Arty, N K Sharma (IC-40973) Inf, P P Singh (IC-40974) ASC, Nimish Gupta (IC-40975) Sigs, Manoj Misra (IC-40976) Arty, S S Dhillon (IC-40977) EME, Rajinder K Palta (IC-40978) Inf, K L Davera (IC-40979) ASC, A K Basu (IC-40980), Narinder Singh (IC-40981) Inf, G S Aul (IC-40982), R K Saxena (IC-40984) R K Rai (IC-40985) Arty, Pankaj Mittal (IC-40986) Engrs, Murl Dhar N (IC-40987) Arty, A K Panda (IC-40989), Amit Timothy (IC-40991) Inf, S S Bhaduria (IC-40992), Arun Dhawan (IC-40993) Arty, Saibal Banerjee (IC-40994), Vijay Chopra (IC-40996) Inf, Mukesh Yadav (IC-40999), Neeraj Sharma (IC-41000) Arty, P K Sharma (IC-41001) Inf, Joseph Josey (IC-41002), Tilak Raj (IC-41003) ASC, Raman Mahnas (IC-41004) ASC, P C Patnaik (IC-41005) Arty, Sanjeev Batra (IC-41006), Sekhar Roy (IC-41010) Inf, Albert Raj (IC-41011) EME, Ajay Kumar Sharma (IC-41012), Rajeev Sandhir (IC-41013) Inf, I P S Wallia (IC-41016) AOC, Rakesh Sharma (IC-41017) Inf, Ranvir Manha (IC-41018), David Roga (IC-41019) Arty, Rajan Kadyan (IC-41020) ASC, Kumar Sachindra. (IC-41021) Arty, Pardeep Naithani (IC-41022) ASC, Sunil Pasricha (IC-41023) Arty, C G Nandanani (IC-41024) Inf, T S A Narayanan (IC-41025) EME, P C Jha (IC-41027) Arty, Kanwar Singh (IC-41028), M S Singh (IC-41029) Inf, Raman Srinivasachari (IC-41030) Arty.

P S Virdi (IC-41033), Y V R Vijay (IC-41034) EME, M R Jagdale (IC-41035) Arty, Sanjay Chhikara (IC-41036) AOC, Tahseen Hussain (IC-41038) Inf, Manoj Venglet (IC-41040) AOC, 24th Dec 1987.

## Crops of Signals

## To be Nb Sub (Y of S)

Hav Pradip Kumar Lal (No. 14215523W now JC 175751 X), 1st Mar 1988.

Hav Hardev Singh (No. 14217522M now JC 175752A), 8th Apr 1988\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Karnail Singh (No. 14217690L now JC 175753H), 2nd Apr 1988.\*\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Hare Ram Sharma (No. 14288742A now JC 175754 L), 20th May 1988.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Anthony Joseph (No. 14214463A now JC 175755N), 1st May 1988.

Hav Purusottam Parida (No. 14286858X now JC 175756 W), 11 Jun 1988.\*\*\*\*

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Puran Chand (No. 14287646Y now JC-175757Y), 27th May 1988\*\*\*\*

Hav Jagdish Chand (No. 14217655H now JC 175758F), 13th May 1988.\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Vinayak Ram Sharma (No. 14218117F now JC 175759 K), 1st May 1988.

## To be Nb Sub (F of S)

Hav Shish Pal Singh Tomar (No. 14220147X now JC 175760Y), 29th Jan 1988."

" (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Prayesh Singh (No. 14290953F now JC 175761 F), 20th Jan 1988."

" (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav SK MONI Ruddin (No. 14280875F now JC-175762 K), 24th May 1988." ""

" "" (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Hari Shankar (No. 14221264P now JC 175563M), 3rd Jun 1988." ""

" "" (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Bahadur Ram (No. 14209420F now JC 175764 P), 24th May 1988." "" ""

" "" "" (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Santokh Singh (No. 14282086 N now JC 175765X), 8th Jun 1988.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Daryab Singh Tangar (No. 14216804Y now JC 175766 A), 27th May 1988.% %

% % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Tanga Samy Paramanandham (No. 14219063X now JC 175767H), 24th May 1988.%%%

%%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Bhupal Singh (No. 14219830L now JC 175768L), 20th May 1988.%%%

%%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav K Achutha Kurup (No. 14218300K now JC 175769N), 26th May 1988.%%%

%%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Dhan Raj Singh (No. 14284645L now JC 175770H), 27th May 1988.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Majar Singh (No. 14219515P now JC 175771L), 27th May 1988.@@

@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav S Ganesan (No. 14219161X now JC 175772N), 25th May 1988.@@@

@@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Pratap Narain Singh (No. 14220220I, now JC 175773W), 1st May 1988.

Hav Thomas KV (No. 14291183M now JC 175774Y), 17th May 1988.@@@

@@@((Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Mahendarkar Khandoji Rao (No. 14221390F now JC 175775F), 17 May 1988.@@@@

@@@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1988 without effect on pay and allowances).

Regiment of Artillery  
To be Nb Sub

Hav Harbans Singh (No. 1243112N now JC 176460K), 24th Feb 1988.

Hav Surjit Singh (No. 1243634K now JC-176461M), 24th Feb 1988.

RHM Sahib Singh (No. 1296533X now JC-176462P), 01st Mar 1988.

Hav Gurdip Singh (No. 1297833L now JC 176463X), 01st Mar 1988.

Hav Surat Singh (No. 1245691K now JC-176464A), 01st Mar 1988.

Hav Bachan Singh Randhawa (No. 14307716N now JC 176465H), 03rd Mar 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Mar 1988 without effect on pay and allowances).

BHM Lal Singh (No. 1260702H now JC-176466L), 01st Mar 1988.

RHM Kishem Datta (No. 1287158W now JC-176467N), 20th May 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 02nd Mar 1988 without effect on pay and allowances).

BHM Prabh Dayal (No. 1235892P) now JC 176468W), 02nd Mar 1988.

BHM Roopa Ram Jat (No. 1242907P now JC 176469Y), 22nd Apr 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 02nd Mar 1988 without effect on pay and allowances).

RHM Mukhtiar Singh (No. 1251953L now JC-176470N), 02nd Mar 1988.

Hav Pritam Singh (No. 14317979H now JC 176471W), 10th Mar 1988.

Hav Poonacha NP (No. 1267043F now JC-176472Y), 10th Mar 1988.

Hav Santaram (No. 11194499M now JC 176573F), 11th Mar 1988.

Hav Lakshmanan D (No. 1268624L now JC 176474K), 14th Mar 1988.

Hav Akas Manik Roy (No. 13852896H now JC 176475M), 15th Mar 1988.

Hav Chhote Lal Tiwari (No. 1265446H now JC 176476P), 15th Mar 1988.

Hav Mahaveer Prasad (No. 1244358Y now JC 176477X), 15th Mar 1988.

Hav Satpal Singh (No. 13809215F now JC 176478A), 15th Mar 1988.

BHM Bir Singh Dhani (No. 1298734P now JC 176479H), 15th Mar 1988.

BHM Sivaji Tukaram Dhavle (No. 1243178K now JC 176480X), 15th Mar 1988.

Hav Ajit Singh (No. 1239044N now JC 176481A), 20th Mar 1988.

BHM Randhir Singh (No. 1289236F now JC 176482H), 20th Mar 1988.

RHM Viswas Nigad (No. 14304199Y now JC 176483L), 21st Mar 1988.

Hav Ghanwat Ramdas Bhau (No. 14321348X now JC-176484N), 24th May 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 21st Mar 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Chakr Pal Singh (No. 14318192A now JC 176485W), 22nd Mar 1988.

BHM Tarlok Singh (No. 1237164N now JC 176486Y), 25th Mar 1988.

RHM Sadanand Misra (No. 1296428F now JC-176487F), 01st Apr 1988.

BHM Swinder Singh (No. 1275510H now JC 176488K), 18th Apr 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Apr 1988 without effect on pay and allowances).

BHM Ramanand (No. 1252739X now JC 176489M), 01st Apr 1988.

Hav Pal Singh (No. 1250978L now JC 176490F), 10th Apr 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Apr 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Pardeshi Ratan (No. 1260603A now JC 176491K), 01st Apr 1988.

Hav Subey Singh (No. 1265022M now JC 176492M), 01st Apr 1988.

Hav Gian Singh (No. 1296201N now JC 176493P), 01st Apr 1988.

BHM Sipahi Ram (No. 14320594W now JC-176494X), 01st Apr 1988.

Hav Ram Avtar Singh Bhadoria (No. 1252589K now JC 176495H), 01st Apr 1988.

Hav Jaswant Singh (No. 1259125P now JC 176496H), 06th Apr 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Apr 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Gajraj Singh Yadav (No. 1244670F now JC 176497L), 01st Apr 1988.

BHM Amar Singh (No. 1287978H now JC 176498N), 01st Apr 1988.

BMH Raghbir Singh (No. 1250292K now JC 176499W), 01st Apr 1988.

Hav Gurusamy S (No. 14322967X now JC 176500A), 01st May 1988.

Hav Voletiantineyulu Naidu (No. 14322875L Now JC 176501H), 01st May 1988.

Hav Ranachandran CS (No. 14322855X now JC-176502 L), 01st May 1988.

Hav Raveendran G (No. 14322856A now JC 176503N), 01st May 1988.

Hav YC Mal Reddy (No. 1260995Y now JC 176504W), 01st May 1988.

RHM Ganesh Patil (No. 1238281L now JC 176505Y), 01st May 1988.

RHM Tara Chand (No. 1235051M Now JC 176506F), 01st May 1988.

Hav Vidya Dhar Singh (No. 14309910K now JC 176507 K), 01st Jun 1988.

BHM Nasib Singh (No. 1286043W now JC-176508M), 01st May 1988.

To be Substantive Sub (AIG)

Nb Sub Kanwal Singh Sangh (JC-139972X), 1st Aug 1988.

Nb Sub Roop Lal (JC-140200W), 1st Sep 1988.

Nb Sub Balkar Singh (JC-139973F), 1st Sep 1988.

Nb Sub Joga Singh (JC-147746W), 1st Sep 1988.

Nb Sub Shri Chand Yadava (JC-147723P), 1st Sep 1988.

Nb Sub Diwan Singh (JC-147715W), 1st Sep 1988.

Nb Sub Ram Ekbal Jha (JC-147725A), 1st Sep 1988.

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Mohan Singh (JC-144058M), 1st Sep 1988.

Nb Sub Dekshinamoorthy Jayuram (JC-159379F), 1st Sep 1988.

Nb Sub Mir Singh (JC-157611H), 1st Sep 1988.

Nb Sub Vithal Khadke (JC-104612K), 1st Sep 1988.

Nb Sub Madan Lal (JC-151013P), 1st Sep 1988.

Nb Sub Ram Phul (JC-135432H), 1st Sep 1988.

To be Nb Sub

BHM Harbhajan Singh (No. 1234532M now JC 176426 K), 16th Nov 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Nov. 1987 without effect on pay and allowances).

BHM Surinder Singh (No. 1294110L now JC 176427M), 01st Nov 1987.

Hav Ram Singh Yadav (No. 1289862L now JC 176428P), 06th Dec 1987.

Hav Sher Singh (No. 1256873X now JC 176429X), 22nd Dec 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 21st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

RHM Amrik Singh (No. 1234276Y now JC 176430M), 01st Jan 1988.

Hav Kasho Ram (No. 1245177A now JC 176431P), 01st Jan 1988.

Hav Hareswar Medhi (No. 1296572W now JC 176432X), 01st Mar 1988.

Hav Amrik Singh (No. 1281345Y now JC 176433A), 01st Mar 1988.

BHM Bha Dar Singh (No. 14305347L now JC 176434H), 22nd Mar 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 5th Mar 1988 without effect on pay and allowances).

BHM Tarlok Singh (No. 1243669A now JC 176435L), 08th Mar 1988.

BHM Bikrama Ram (No. 1288225H now JC 176436N), 08th Mar 1988.

BHM Bhanwar Singh (No. 1246201X now JC 176437W), 11th Mar 1988.

Hav Jagdish Chand (No. 14301178Y now JC 176438Y), 11th Mar 1988.

BHM Bhupati Kumar Singha (No. 1247560X now JC 176439F), 25th Mar 1988.

BHM Jitendra Nath Singh (No. 14301714P now JC 176440W), 25th Mar 1988.

Hav Budhi Singh Rana (No. 1234497P now JC 176441Y), 25th Mar 1988.

Hav Gajendra Singh (No. 14325726H now JC-176442F), 25th Mar 1988.

Hav Satyapal Singh (No. 1292421A now JC-176443K), 12th Mar 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25th Mar 1988 without effect on pay and allowances).

RHM Agya Ram Misra (No. 1292677H now JC 176444M), 01st Apr 1988.

Hav Michal Ambrosirudayanathan (No. 1258198P now JC 176445P), 01st Apr 1988.

BHM Mailappa Balappa Hukeri (No. 1299559X now JC 176446X), 11th Apr 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Apr 1988 without effect on pay and allowances).

BHM Sewa Ram (No. 1238654N now JC 176447A), 01st Apr 1988.

Hav Ved Parkash (No. 14304315W now JC-176448H), 01st Apr 1988.

BHM Amar Singh (No. 1247461P now JC 176449L), 04th Apr 1988.

BHM Partap Singh (No. 1235827P now JC 176450A), 03rd May 1988.

RHM Ram Pravin Sharma (No. 14300101H now JC 176451H), 04th Jun 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 13th May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Baboo Singh (No. 14301206Y now JC-176452L), 14th May 1988

Hav Hardial Singh (No. 1243647F now JC 176453N), 01st Jun 1988.

Hav Jagdish Chand (No. 1238340M now JC 176454W), 09th Jun 1988.

Hav Jitmal Singh (No. 1255624M now JC 176455Y), 20th Jun 1988.

Hav Amar Singh (No. 1240706X now JC 176456F), 10th Jul 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 29th Jun 1988 without effect on pay and allowances).

RHM Hukam Singh (No. 1277392Y now JC 176457K), 01st Jul 1988.

BHM Jagir Singh (No. 14300108M now JC 176458M), 02nd Jul 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Jul 1988 without effect on pay and allowances).

BHM Mohinder Singh (No. 1275703H now JC 176459P), 02nd Jul 1988.

T. B. NAIR,  
Desk Officer

## Lt to be CAPT

Mandeep Singh (IC-40813) Arty, Kamal Kishore (IC-40814) Arty, Anup Bhaskar (IC-40815) Sigs, Vishwanath Karad (IC-40816) Inf, HS Mehta (IC-40817) AC, RS Mann (IC-40818) Inf, RK Chopra (IC-40819) Sigs, JN Cyriac (IC-40820), T Sivakumar (IC-40821) Inf, S Ramakrishnan (IC-40822) Sigs, Ajay Seth (IC-40824), JC Rangra (IC-40825) Inf, SK Tiwari (IC-40826) Engrs, Amrendra Kumar (IC-40827) Inf, GRS Rajan (IC-40828) Engrs, Sanjay Dubey (IC-40829) ASC, KK Anil Kumar (IC-40830) Inf, FA Farooquee (IC-40831) Arty, SK Pabuja (IC-40832) Inf, Navneet Mittal (IC-40833) Engrs, Shailendra Shukla (IC-40834), Raman Bhatia (IC-40835) Inf, Dipendra Sarin (IC-40837), B Patnaik (IC-40838) Inf, Baljeet Singh (IC-40840) Inf, AA Bhat (IC-40841) Sigs, Atul Sharma (IC-40842) Inf, Ashish Ghosh (IC-40843) Engrs, MM Nehru (IC-40844) Inf, P Dhingra (IC-40845), Premjeet Singh Nijjar (IC-40846), Rajiv Sethi (IC-40847), APS Johal (IC-40848) Arty, Parminder Singh (IC-40849) AC, Joy Jose (IC-40850), RK Nayar (IC-40851) Arty, B Bhattacharya (IC-40852) Engrs, Subir Chakravarti (IC-40853) ASC, RS Bhatia (IC-40854) AC, Rajiv Khanna (IC-40856) Arty, DK Putta (IC-40858) Inf, MS Ghai (IC-40859) ASC, S Patra (IC-40860) Arty, Sanjay Prasad (IC-40861) EME, AS Rawat (IC-40862), AR Bhandari (IC-40863) Inf, Krishan Lal (IC-40865) AOC, SK Chand (IC-40866) AOC, KJS Dhaliwal (IC-40867) Arty, Rajeev Malik (IC-40868) Engrs, RC Dwivedi (IC-40869) Inf, Venkataraman (IC-40870) Engrs, A Balaji (IC-40872), R Nagraj (IC-40873) Sigs, DV Raju (IC-40874), Sanjay Raj Kochar (IC-40875) Inf, Sharabh Pachory (IC-40876) Inf, JS Reen (IC-40877) Engrs, RR Kamat (IC-40878) Sigs, KS Govind (IC-40879) Arty, Raiesh Dixit (IC-40880) Sigs, A Mukherjee (IC-40881) Arty, JK Tiwari (IC-40882), BB Cherukat (IC-40883), AS Harge (IC-40884) Inf, RC Varghese (IC-40885) Engrs, TS Sandhu (IC-40887) AC, RS Bath (IC-40888) Inf, NK Unni (IC-40889) Sigs, 24th Dec 1987.

Vijav Rawat (IC-40742) EME, VVP Menon (IC-40743) Sigs, Sandeep Thapar (IC-40744) Inf, Yadavinder V Suri (IC-40745) Arty, KA Chinappa (IC-40746) Inf, HK Arora (IC-40748) Engrs, PS Pancsar (IC-40749) Sigs, M Srinivasan (IC-40750) Engrs, Surendra Kumar (IC-40751), Deepak Saini (IC-40752) Arty, MJS Kahlon (IC-40753) AC, Vinayak Bhat (IC-40756), Vikal Sahni (IC-40757), Joginder Singh (IC-40758) Inf, Birendra Singh (IC-40759) AC, VS Sreenivas (IC-40760) Inf, Shaunik Gautam (IC-40761) AC, Rohit Kapur (IC-40762) Inf, Bhupender Singh (IC-40763) Sigs, Ravi Menon (IC-40764) Arty, PK Mohanty (IC-40765) Sigs, Pratap Singh (IC-40766) AOC, MK Sharma (IC-40767) Inf, MG Harimohan (IC-40769), UT Babu (IC-40770) Arty, Zia Ur Rehman (IC-40771) Engrs, Syed Azimuddin (IC-40772), Naresh Razora (IC-40773) Inf, Vishesh Jhalani (IC-40774) Engrs, AS Kandhari (IC-40775) EME, Shiv Daval (IC-40776) ASC, MS Jaswal (IC-40777), Balbir Singh (IC-40778) Inf, Suresh Kumar (IC-40779) ASC, SS Chauhan (IC-40781), MS Mann (IC-40782) Inf, VKH Pingale (IC-40783) Inf, RK Jadeja (IC-40784) EME, Sanjiv Chandel (IC-40786) Inf, RK Sugramani (IC-40787) EME, BK Sharma (IC-40788) Arty, RNS Singal (IC-40789), Sunil Bhasin (IC-40790), Sanjiv Sharma (IC-40791), DA Chaturvedi (IC-40792), Vasantrao P Shinde (IC-40793) Inf, VS Narang (IC-40794) Sigs, Sanjeev Narain (IC-40795), RPS Sandhu (IC-40796) Inf, DS Dahiya (IC-40797) Engrs, KPR Hari (IC-40798), Vankeer Badola (IC-40799) Inf, VT Abraham (IC-40800) EME, RK Bansawal (IC-40801) Inf, Rajiv Ghai (IC-40802) EME, AK Anand (IC-40803) Inf, Dig Vilav Setia (IC-40804) Engrs, GM Sankar (IC-40805), IIS Hundal (IC-40806) Arty, GK Sharma (IC-40807), Harpal Singh Pannu (IC-40808), DS Bhat (IC-40810) Inf, PM Vats (IC-40812) Inf, 24th Dec 1987.

S Curesh Kumar (IC-37865), PS Dahiya (IC-37866), P Purushothaman (IC-37867), PS Gill (IC-37868), Inf, PK Ganjoo (IC-37869) ASC, Gurbinder Singh (IC-37870), GS Bains (IC-37871) AC, VB Mark (IC-37872) Inf, Ait Pama Rane (IC-37873), P Rajan (IC-37874) Engrs, Gurdev Singh (IC-37875) Inf, Nirmal Singh (IC-37876) Arty, Dinesh Sharma (IC-37877) Inf, NK Sharma (IC-37878) Arty, Bhawani Singh (IC-37879), RS Mehta (IC-37880), Hardeco Sharma (IC-37881) Inf, Dalip Singh (IC-37882) AOC, Amarek Singh (IC-37883) Inf, Pardeep Srivastava (IC-37884) AOC, VK Saini (IC-37885) Arty, Dinesh Kumar (IC-37887) Arty, VC Joshi (IC-37888) Inf, Kamaldeep Singh (IC-37889) AC, Kashmir Singh (IC-37890), Rakesh Kumar Singh (IC-37891) Inf, Ashwani Kumar (IC-37892) Arty, Ravindran C

Nair (IC-37893) Inf, Dileshwar Nath (IC-37894) Arty, Harish Joshi (IC-37895), Ram Dutt Sharma (IC-37896), DPN Sopori (IC-37897) Inf, Gajraj Singh (IC-37898) AC, K Raja Vikraman (IC-37899) Sigs, Munama Ravi (IC-37900) Inf, RS Datta (IC-37901) Arty, Dalip Kumar Singh (IC-37902) Sigs, SS Bhullar (IC-37903) Inf, Somnath Praharaj (IC-37904) Sigs, Ashok Kumar (IC-37905) AOC, AK Kotwal (IC-37906) AC, Malook Singh (IC-37907) Sigs, MCRK Nair (IC-37908) ASC, Narayan Iyer (IC-37909) AOC, Mirinder Singh (IC-37911) ASC, Pankal Kulshreshtra (IC-37912), PMA Aston (IC-37913) Inf, SP Vilekar (IC-37914) AC, Rajeshwar Singh (IC-37915) AOC, VS Yadav (IC-37917) Inf, K Satish Omar (IC-37918) EME, Mario Magima (IC-37919) AOC, MS Chhikara (IC-37920) Inf, 27th April, 1987.

RS Puri (IC-42678) Engrs, JP Singh (IC-42679) EME, CVS Sehgal (IC-42681) Engrs, KS Azad (IC-42682), KR Babu (IC-42683), G Venkataramana (IC-42684), Purushottam Kumar (IC-42685) Engrs, HK Trivedi (IC-42686) Sigs, DI Pathak (IC-42688), NK Yadav (IC-42689) Engrs, Rakesh Kaul (IC-42691), Ashok Kumar Kochbar (IC-42693) Sigs, Ram Dular Singh (IC-42695) EME, Sanjeev Gupta (IC-42697) Engrs, AK Jindal (IC-42699), SPG Nair (IC-42700), K Seshasai (IC-42701) Engrs, R Yadav (IC-42702) EME, Jagmohan Durgapal (IC-42703) Sigs, Ramendra Mathur (IC-42705), Sanjay Bajpai (IC-42708) Engrs, S Malladi (IC-42710) EME, SR Dharmaji (IC-42711) Engrs, Krishan Chand (IC-42713), PA Bhikaji (IC-42715) Engrs, VN Murthy (IC-42716) Engrs, Deepak Dixit (IC-42717) EME, AK Pandey (IC-42723) Engrs, D Rathore (IC-42724), VK Singh (IC-42725), Sarabjit Singh (IC-42728) Sigs, Alok Goel (IC-42730) Engrs, P Praful (IC-42734) Sigs, NU Sheikh (IC-42735) Engrs, DK Barthwal (IC-42737), Ashwini Kumar (IC-42740) Sigs, Beant Singh (IC-42744) Engrs, 25th Dec, 1987.

AK Sanyal (IC-40679) AC, P Nagesh Rao (IC-40680) Inf, K Madhukar (IC-40681) AC, AS Karki (IC-40682) Inf, SP Yadav (IC-40683) EME, Sanjeev Sehgal (IC-40684) Engrs, Raj Shukla (IC-40685) Arty, KAV Bhaskar (IC-40686) Engrs, S Raja Sekaran (IC-40687) AOC, Vijay Singh Ran (IC-40688) Inf, RS Kochhar (IC-40689) EME, Tejinder Singh (IC-40690) AC, Ajay Sharma (IC-40691) Engrs, S Vedhanayagam (IC-40692) Inf, SK Panigrahi (IC-40693) Arty, Ram Avtar (IC-40694) Inf, JS Virk (IC-40695), Rajesh Kumar (IC-40696) AC, VV Chandran (IC-40697), SKD Patnaik (IC-40698) Inf, Kemparaj Sitaram (IC-40699) Engrs, Sanjay Thapa (IC-40700), KS Shekhawat (IC-40701) Arty, Ajay Talwal (IC-40702) Inf, Harpal Singh (IC-40703) Engrs, Gajraj Singh Rana (IC-40704) EME, Arun Sharma (IC-40705) Engrs, Rachhpal Singh (IC-40706) AC, DS Gill (IC-40707) Arty, IS Singh (IC-40708) AC, Ajay Ahluwalia (IC-40709) Engrs, Surendra Mehta (IC-40710), TS Sinha (IC-40712), Kuldip Mehta (IC-40713) Inf, BG Gilganchi (IC-40714) Sigs, RS Rathod (IC-40715) Inf, MC Pande (IC-40716) Engrs, Sandeep Dhawan (IC-40717), MS Panwar (IC-40718), S Neeraj Roy (IC-40719), Sandeep Sharma (IC-40720), Prithi Singh (IC-40721) Inf, Kulpreet Singh (IC-40722) AC, BS Sandhu (IC-40723) Inf, RS Pathania (IC-40724) Engrs, Prameet Saluja (IC-40725) Inf, RPS Dhillon (IC-40726) Arty, RK Chaudhary (IC-40727) Sigs, AK Sirohi (IC-40728) ASC, DJS Katkar (IC-40729) Inf, AK Mukherjee (IC-40730) Sigs, SUR Dashrath (IC-40732) Inf, George Joseph (IC-40733), Navin Sabharwal (IC-40734) Arty, MS Salaria (IC-40735) Inf, MK Mukherjee (IC-40736), G Jagajeeve (IC-40737), SK Laskar (IC-40738) Arty, VK Kotwal (IC-40739), BR Hooda (IC-40740), BS Sandhu (IC-40741) Inf, 24th Dec 1987.

SA Dhawalgi (IC-37798) Inf, SS Bakshi (IC-37799) AOC, Rajan Magoon (IC-37800) Engrs, HK Tiwari (IC-37802),

Ramesh Murthy (IC-37803), Vijay Singh (IC-37805) Inf, MNM Babu (IC-37806) Sigs, Atma Saran (IC-37807) AC, J Mukherjee (IC-37808) Arty KS Chauhan (IC-37809) Arty, KM Mathew (IC-37810) Inf, ST Reddy (IC-37811) Arty, MJK Cherian (IC-37812) Inf, Vinoda (IC-37813) Inf, Pramod Singh (IC-37814) AOC, MS Sahota (IC-37815) Inf, RPS Rai (IC-37816) AOC, KR Swamy (IC-37817) EME, DS Sandhu (IC-37818) Arty, Shishir Pandey (IC-37819) AOC, Sunil Bakshi (IC-37820), PC Naithani (IC-37821) Inf, BA Shahane (IC-37823), Vikram Sharma (IC-37824), JS Suhag (IC-37825), SS Phogat (IC-37827), Shri Om Singh (IC-37828) Inf, TK Basu (IC-37829) Sigs, Rajesh Singh (IC-37830), V Subbiah (IC-37831), RS Pundir (IC-37832), Pawan Kumar (IC-37833) Inf, SPS Toor (IC-37834) ASC, S Chak aboriy (IC-37835) Inf, NK Mohan (IC-37836), MM Varghese (IC-37837) Arty, Naresh Kumar (IC-37838) AOC, DCV Shah (IC-37839) Inf, Rajesh Gangole (IC-37840) Arty, Kishore Kumar (IC-37841) AOC, GDS Randhawa (IC-37842) AC, Monigomery (IC-37843) Inf, P Sree Kumar (IC-37844) Engrs, KRS Shukla (IC-37846) Arty, JK Thapa (IC-37848) Inf, S Mallick (IC-37850) AC, Sushil Singh (IC-37851), Rajesh Mishra (IC-37852) Inf, KVPS Hundal (IC-37853) ASC, Rajiv Mathur (IC-37854) AC, 12th November, 1986.

Prashant Rawal (IC-37801) AC, 19th Jan 87.

Deepak Sharma (IC-41814) Engrs, RG Goswami (IC-41817) EME, US Nerwal (IC-41819) EME, SP Rao Magapu (IC-41821) Engrs, Alexander Mathew (IC-41825) EME, VKN Veera Venkata (IC-41831) Engrs, Anil Kumar (IC-41835) Engrs, Satendra Kumar Singh (IC-41838) Sigs, 20th December, 1986.

Susheel Chand (IC-41818) Engrs, 01st February, 1987.

D. H. PARAB, Lt. Col. AMS-8

R R Yadava (V-352)—17-7-84 with seniority in that rank wef 16-10-80.

M S Parmar (V-354)—16-7-85 with seniority in that rank wef 03-9-81.

#### ARMY SERVICE CORPS

(SUPPLY)

##### TO BE NAIB SUBEDAR PERSONAL ASSISTANT

Hav Gopala Krishnan Attoor (No. 14207333-P now JC-175693Y), 26 Feb 88\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 87 without effect on pay and allowances)

Hav Rustam Singh (No. 14280658-L now JC-175694F), 01 Feb 88\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 87 without effect on pay and allowances)

Hav Shailendra Kumar Singh (No. 7765943-A now JC-175695-K), 12 Feb 88\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 88 without effect on pay and allowances)

Hav Hussain Muhamad Mubarak (No. 14504321-N now JC-175696M), 25 Feb 88\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 24 Jan 88 without effect on pay and allowances)

Hav Baidya Nath Singh (No. 4250042-L now JC-175697-P), 18 Mar 88\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 88 without effect on pay and allowances)

Hav Prem Chand Goswami (No. 1256141-F now JC-175698X), 11 Mar 88.

Hav Abbas Neduvancheri (No. 14307038-F now JC-175699A), 04 May 88\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 88 without effect on pay and allowances)

ANIL KUMAR, Under Secy.

#### ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Sub

Nb Sub Kishan Chandra Pant (JC-112636H), 01st Oct., 1983.

Nb Sub Inder Pal (JC-112639W), 01st Oct, 1988.

Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-113837N), 01st Oct, 1988.

Nb Sub Siyāwar Sharan Singh (JC-113812F), 01st Oct, 1988.

Nb Sub Brijendra Singh Tyagi (JC-115916F), 01st Oct, 1988.

Nb Sub Tej Singh (JC-113841W), 01st Oct, 1988.

Nb Sub Ram Sharan Singh Chauhan (JC-113813K), 01st Oct, 1988.

Nb Sub Bhrigu Nath Ram (JC-115904M), 01st Oct, 1988.

Nb Sub Debabrata Haldar (JC-113815P), 01st Oct, 1988.

Nb Sub Rachhpal Singh (JC-113821H), 01st Oct, 1988.

B. C. MANDAL, Under Secy.

#### INTELLIGENCE CORPS

TO BE NB SUB

Hav Mangal Ram (No. 3968070X now JC-175882H), 29 Jun 88.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances)

Hav Mukul Chand Chattopadhyay (No. 14305209K now JC-175883L), 12 Aug 88.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances)

Hav Rup Chand (No. 3968814W now JC-175884N), 01 Jul 88.

Hav Deva Nand Raturi (No. 4052209P now JC-175885W), 08 Aug 88.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 88 without effect on pay and allowances)

Hav Manpreet Singh (No. 1252036N now JC-175886Y), 01 Aug 88.

Hav Madan Lal Sharma (No. 3968020L now JC-175887F), 01 Aug 88.

Hav Krishan Datt (No. 4162564Y now JC-175888K), 11 Aug 88.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 88 without effect on pay and allowances)

Hav Bharat Singh (No. 13837916N now JC-175889M), 01 Aug 88.

Hav Arumugam P (No. 14213813P now JC-175890F), 03 Aug 88.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 88 without effect on pay and allowances)

Hav Gurmukh Singh (No. 13838150F now JC-175891K), 08 Aug 88.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 88 without effect on pay and allowances)

##### TO BE NB SUB (CLK)

Hav (Clk) Jaawant Singh Rana (No. 6645929F now JC-175892M), 07 Aug 88.

To be Sub

Nb Sub Jagdish Chand (JC-115986A), 01 July 1988.

Nb Sub Udai Bhan Singh Rajawat (JC-115987H), 01 July 1988.

Nb Sub Sangara Singh Ghotra (JC-118942N), 01 July 1988.

Nb Sub Raj Kumar (JC-118944Y), 01 July 1988.

Nb Sub Atma Ram (JC-118946K), 01 July 1988.



Nb Sub Puran Singh Kaira (JC-118947M), 01 July 1988.  
 Nb Sub Som Nath (JC-118949X), 01 July 1988.  
 Nb Sub Mangal Singh (JC-118961Y), 01 July 1988.  
 Nb Sub Surender Singh Thapa (JC-120409X), 01 August 1988.  
 Nb Sub Narender Singh Shah (JC-118962F), 01 August 1988.  
 Nb Sub Himanand Bailwal (JC-118963X), 01 August 1988.  
 Nb Sub Jai Singh (JC-124212Y), 01 August 1988.  
 Nb Sub Hem Singh Verma (JC-124198X), 01 August 1988.  
 Nb Sub Shivnath Singh Chauhan (JC-124199A), 01 August 1988.  
 Nb Sub Wassan Singh Dhillon (JC-124200K), 01 September 1988.  
 Nb Sub Prabhat Kumar Pathak (JC-124201M), 01 September 1988.  
 Nb Sub Chander Bhan (JC-124202P), 01 September 1988.  
 Nb Sub Deo Kamal Gautam (JC-124213F), 01 September 1988.

To be Sub (Clk)

Nb Sub Sudagar Chand (Clk) (JC-118958Y) 01 August 1988.

To be Sub Maj

Sub Draggpal Singh Rajput (JC-109510X), 01 July 1988.  
 Sub Koipurathu Joseph Joseph (JC-100518H), 01 August 1988.  
 Sub Chander Singh (JC-100520A), 01 August 1988.  
 Sub Joginder Singh (JC-100522L), 01 September 1988.

V. DHARMA RAO, Desk Officer

To be Nb Sub

BHM Rameshwar (No. 1281463 M now JC-175484M), 01st Mar 1987.  
 BHM Ramesh Chandra Dubc (No. 1245065 A now JC-175485 P), 20th Mar 1987.  
 Hav Pipal Singh (No. 1290174 Y now JC-175486X), 24th Feb 1988.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 31st Mar 1987 without effect on pay and allowances).  
 BQMH Surender Singh (No. 1277019 Y now JC-175487-A), 01st Apr 1987.  
 Hav Dhan Bahadur Mall (No. 1295818 X now JC-175488-H), 20th Apr 1987.  
 Hav Kaher Singh (No. 1243892 K now JC-175489 L), 01st Jun 1987.  
 BHM Nellira Devaiahvasu (No. 14313024X now JC-175490 P), 22nd Nov 1987.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb-Sub with effect from 14th Jun 1987 without effect on pay and allowances).  
 Hav Kunwar Singh (No. 1253466 K now JC-175491X), 17th Jun 1987.  
 Hav Inderaj Singh (No. 1237166 Y now JC-175492A), 07th Sep 1987.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Aug 1987 without effect on pay and allowances).  
 Hav Tulsha Ram (No. 11144127L now JC-175493H), 08th Sep 1987.  
 Hav Narpal Singh Jodha (No. 14300904 P now JC-175494 L), 26th Sep 1987.

Hav Mohinder Singh (No. 1262791 L now JC-175495-N), 26th Sep 1987.

Hav M Radhakrishnan (No. 1239483Y now JC-175496-W) 25th Jan 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 28th Sep 1987 without effect on pay and allowances).

BHM Jagan Singh (No. 1280727W now JC-175497Y), 09th Oct 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Oct 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Macchindra Pawar (No. 1293386 P now JC-175498-F) 25th Oct 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Oct 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Kehar Singh (No. 1292740 M now JC-175499 K), 01st Oct 1987.

BHM Rajole Tewari (No. 14306210 L now JC-175500N), 23rd Oct 1987.

BHM Banspati Prasad Tiwari (No. 1245840 M now JC-175501W), 01st Nov 1987.

Hav Bhupal Singh (No. 1237327 Y now JC-175502 Y), 01st Nov 1987.

Hav Onkar Singh (No. 1240800 F now JC-175503 F), 05th Nov 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Nov 1987 without effect on pay and allowances).

RHM Jarnail Singh (No. 14311537N now JC-175504 K), 11th Nov 1987.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Nov 1987 without effect on pay and allowances).

BQMH Ram Pal Singh (No. 1289674K now JC-175505-M), 01st Nov 1987.

Hav Sita Ram (No. 14303747Y now JC-175506P), 06th Nov 1987.

Hav Jedhe Hambirao Sarjerao (No. 1266368H now JC-175507X), 06th Nov 1987.

BHM Vasant Autade (No. 1247502N now JC-175508A), 06th Nov 1987.

Hav Nikku Ram (No. 1248660 P now JC-175509H), 30th Nov 1987.

BHM Kashmir Singh (No. 1288341L now JC-175510X), 08th Jan 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Nasib Singh (No. 1252461Y now JC-175511A), 01st Dec 1987.

Hav Jai Narain (No. 1279945H now JC-175512H), 01st Dec 1987.

BHM Bhoop Singh (No. 1275773F now JC-175513L), 01st Dec 1987.

Hav Sher Singh (No. 1279991X now JC-175514N), 01st Dec 1987.

BHM Ram Dutt (No. 1241544K now JC-175515W), 01st Dec 1987.

BHM Kadura Sinha (No. 11228695F now JC-175516Y), 01st Jan 1988.

Hav Surendra Prasad Singh (No. 1281759L now JC-175517F), 04th Jan 1988.

BHM Sher Singh (No. 1239031W now JC-175518K), 27th Jan 1988.

BHM Brij Lal (No. 1232764M now JC-175519M), 30th Jan 1988.

Hav Moti Singh (No. 1254982L now JC-175520F), 01st Feb 1988.

Hav Brahma Nand (No. 1231451F now JC-175521K), 01st Feb 1988.

BHM Harendra Singh Morya (No. 1231336F now JC-175522M), 05th Feb 1988.

Hav Tara Singh (No. 1297420F now JC-175523P), 01st Mar 1988.

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub Gurjit Singh (JC-94279A), 1st Aug 1988.

Sub Roop Singh (JC-94282A), 1st Aug 1988.

Sub Sukhdev Singh (JC-95000H), 1st Aug 1988.

Sub Doveswar Singh (JC-96677A), 1st Sep 1988.

Sub Mul Raj (JC-100124K), 1st Sep 1988.

Sub Madan Lal (JC-97040H), 1st Sep 1988.

Sub Bhanwar Singh (JC-100144X), 1st Sep 1988.

Sub Ram Phall (JC-92982P), 1st Sep 1988.

Sub Gurcharan Singh (JC-97076F), 1st Sep 1988.

Sub Ram Singh (JC-90153H), 1st Sep 1988.

Sub Ram Pal Yadav (JC-90165X), 1st Sep 1988.

Sub Sukh Raj (JC-91429A), 1st Sep 1988.

Sub Sukhdev Singh (JC-91421N), 1st Sep 1988.

Sub Govindasamy Kalia Perumal (JC-95128N), 1st Sep 1988.

Sub Jarnail Singh (JC-97046K), 1st Sep 1988.

Sub Har Lal Singh (JC-106985W), 1st Sep 1988.

Sub Kurukkasseril Kunju Panicken Purushothaman (JC-95130L), 1st Sep 1988.

Sub Gurusamy Perumal (JC-94590A), 1st Sep 1988.

Sub Popat Padwal (JC-95153M), 1st Sep 1988.

Sub Raman Nair Sivankutty Nair (JC-91814K), 1st Sep 1988.

To be Substantive Sub (FGA)

Nb Sub Hira Lal (JC-125635Y), 1st Sep 1988.

Nb Sub Dina Nath (JC-123727M), 1st Sep 1988.

To be Substantive Sub (OEM)

Nb Sub Gopal Prasad (JC-169796F), 13th May 1988.

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Jaswant Singh (JC-123492L), 1st Apr 1987.

Nb Sub Ram Laddu Sharma (JC-124491P), 1st Apr 1987.

Nb Sub Yogendra Prasad Singh (JC-140464P), 1st Apr 1987.

Nb Sub Mala Ram (JC-144361N), 1st July 1987.

Nb Sub Nasib Singh (JC-140463M), 1st Sep 1987.

Nb Sub Rohitashwa (JC-147144H), 1st Dec 1987.

Nb Sub Surjeet Singh (JC-124449W), 1st June 1988.

Nb Sub Karan Singh (JC-123896H), 28th July 1988.

Nb Sub Jaivir Singh (JC-134798N), 1st Aug 1988.

Nb Sub Kaliappa Balasubramanian (JC-134677M), 1st Aug 1988.

Nb Sub Munusamy Balakrishnan (JC-137179L), 1st Aug 1988.

Nb Sub Bavachan AV (JC-139355W), 1st Aug 1988.

Nb Sub Malkit Singh (JC-159366K), 1st Aug 1988.

Nb Sub Palikkara Pavoo Antony (JC-139322L), 1st Aug 1988.

Nb Sub Rup Chand (JC-139478H), 1st Aug 1988.

Nb Sub Moji Ram (JC-137714A), 1st Aug 1988.

Nb Sub Mahender Singh (JC-139268H), 1st Aug 1988.

Nb Sub Chellappan (JC-142097M), 1st Aug 1988.

Nb Sub Mohanan Pommileri Koroth (JC-140171K), 1st Aug 1988.

Nb Sub Prem Singh (JC-146258F), 1st Aug 1988.

Nb Sub Piar Singh (JC-151885X), 1st Aug 1988.

Nb Sub Tukaram Shevale (JC-146284H), 1st Aug 1988.

Nb Sub Appasamy Krishna Murthy (JC-144067N), 1st Aug 1988.

Nb Sub Shiv Charan Lal (JC-148074F), 1st Aug 1988.

Nb Sub Ram Nath Singh (JC-148123Y), 1st Aug 1988.

Nb Sub Raghubir Singh Rao (JC-150437Y), 1st Aug 1988.

Nb Sub Udai Ram (JC-149901L), 1st Aug 1988.

Nb Sub Kanwar Singh (JC-150428X), 1st Aug 1988.

Nb Sub Savariappan Selvam (JC-158097W), 1st Aug 1988.

Nb Sub Ram Chandra (JC-159373A), 1st Aug 1988.

Nb Sub Sreedharan Nair Kodoli Kuni (JC-160019X), 1st Aug 1988.

Nb Sub Sukumaran Vanian (JC-160018P), 1st Aug 1988.

Nb Sub Samai Singh (JC-166401K), 1st Aug 1988.

Nb Sub Rajinder Singh (JC-149619A), 1st Aug 1988.

Nb Sub Uttam Chand (JC-129027P), 1st Aug 1988.

Nb Sub Premá Dasan Thiyyanchery (JC-145859A), 1st Aug 1988.

Nb Sub Krishan Lal (JC-147830W), 1st Aug 1988.

Nb Sub Roshan Lal (JC-149939P), 1st Aug 1988.

Nb Sub Milkhi Ram (JC-151051L), 1st Aug 1988.

Nb Sub Ghisa Ram (JC-126999X), 1st Aug 1988.

Infantry

5 GR (FF)

To be Nb Sub

Hav Dal Bahadur Rana (No. 5442368M now JC-175153A), 1st Feb 1st 1988.

Hav Tulsí Ram Gurung (No. 5442079X now JC-175154H), 1st Feb 1988.

Hav Dil Bahadur Gurung (No. 5442315N now JC-175155L), 1st Feb 1988.

Hav Purna Bahadur Ghale (No. 5442385M now JC-175156N), 1st Feb 1988.

Hav Ek Bahadur Gurung (No. 5442748L now JC-175157W), 1st Feb 1988.

Hav Ganga Bahadur Burathoki (No. 5442734L now JC-175158Y), 1st Feb 1988.

8 GR

To be Nb Sub

Hav Santa Bahadur Gurung (No. 5744100M now JC-175163K), 10th Aug 1987.

Hav Guman Singh Pun (No. 5743496P now JC-175159F), 1st Oct 1987.

Hav Shiv Singh Kharka (No. 5743797Y now JC-175160W), 1st Oct 1987.

Hav Kahu Gurung (No. 5743950K now JC-175161Y), 1st Jan 1988.

Hav Shamsher Singh Thapa (No. 5743789F now JC-175162F), 1st Jan 1988.

To be Naib Subedar (Clerks)

Hav (Clk) Mani Ram (No. 9077581W now JC-175124-L), 23 Mar 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Jan 88 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Makhan Lal Sharma (No. 9077923Y now JC-175125N), 01 Apr 88.

To be Naib Subedar

Hav Munshi Ram (No. 9078747Y now JC-175126W), 07 Mar 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 87 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Lal (No. 9077396A now JC-175127Y), 01st Jan 88.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Feb 87 without effect on pay and allowances).

Hav Bashir Ahmed (No. 9079049N now JC-175128F), 05 Mar 88.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 87 without effect on pay and allowances).

Hav Gh Hassan Wagay (No. 9077493A now JC-175129K), 05 Mar 88.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Abdul Qayoom (No. 9079402K now JC-175130Y), 22 Mar 88.&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

The Assam Regiment

To be Nb Sub

Hav Age Wanchoo (4346774Y now JC-175093W), 14th Mar 88.@

Hav Nanu Sasankadharan (2568576L now JC-175094Y), 14th Mar 88.@

Hav Subba Perumal (2570579X now JC-175095F), 14th Mar 88.@

Hav Jogendra Nath Sarma (4346870N now JC-175096W), 24th Mar 88.@

Hav Vikraman K (2574965F now JC-175097M), 14th Mar 88.@

Hav Suresh Chand (3968393Y now JC-175098P), 14th Mar 88.@

Hav Krishnappa Marakula (2573943W now JC-175099X), 24th Mar 88.@

@(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 88).

Hav Kudeep Singh (3971690X now JC-175100F), 14th Mar 88%

%(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 11 Feb 88).

Hav Guman Singh (No. 4162393X now JC-175089N), 7th Feb 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 88 without effect on pay and allowances).

(To be Nb Sub Clerk)

Hav Clk Bodh Raj Sharma (13726178A now JC-175104-X), 1st Jan 1988.

Hav Clk Mohan Lal Sharma (13727430A now JC-175105-A), 1st Jan 1988.

Hav Clk Amar Nath (13727961X now JC-175106H), 1st Mar 1988.

To be Nb Sub

Hav Puran Chand (13727752A now JC-175107L), 22nd May 1987.

Hav Karnail Singh (13727381H now JC-175108N), 1st June 1987.

Hav Janak Singh (13728724A now JC-175109W), 1st Aug 1987.

Hav Joginder Singh (13728151F now JC-175110L), 21st Jan 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30th Aug 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Gurbachan Singh (3362449M now JC-175111N), 05th Feb 1988."

''(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Om Parkash (13731212Y now JC-175112W), 1st Jan 1988.

Hav Bhag Mal (13728604F now JC-175113Y), 22nd Jan 1988.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Ganesh Bahadur (13731215M now JC-175114F), 1st Jan 1988.

Hav Mohd Sadieq (13732709H now JC-175115K), 02nd Jan 1988.

Hav Sudershan Singh (13731056A now JC-175116M), 13th Jan 1988.

Hav Satya Paul (13730773F now JC-175117P), 12th Mar 1988.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13th Jan 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Sampuran Singh Jamwal (13731655A now JC-175118-X), 29th Jan 1988.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14th Jan 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Pundlik Ningappa Nirasi (276729A now JC-175119-A), 1st Feb 1988.

Hav Birbal Ram (13729828N now JC-175120P), 15th Feb 1988.

Hav Jit Singh (13728014H now JC-175121X), 1st Mar 1988.

Hav Wafadar Khan (13727145F now JC-175122A), 22nd Mar 1988.

To be Naib Subedar (Group 'D')

Hav Nath Ram (No. 9074256L now JC-175123H), wef 20 Jan 88.

Hav Gusain Singh (No. 4159234P now JC-175083M), 01 Jan 1988.

Hav Dharmpal Singh (No. 4157434M now JC-175084P), 14 Jan 1988.

Hav Trilok Singh (No. 4160553N now JC-175085X), 21 Jan 1988.

Hav Surya Gurung (No. 5239949P now JC-175086A), 25th Dec 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 87 without effect on pay and allowances).

CHM Matbur Singh Bisht (No. 4048929S now JC-175087-H), 1st Nov 1987.

CHM Ratnn Singh (No. 4046247Y now JC-175088), 1st Jan 1988.

M. THADANI, Under Secy.

## A.S.C.

## CATERING

To be Nb Sub

Hav Dharamveer Khati (No. 6366820-W now JC-176277-F), 09 Nov 87.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 87 without effect on pay and allowances).

## A.T.

To be Nb Ris

Dfr Sohan Lal (No. 6458137-W now JC-176278K), 06 Jun 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 86 without effect on pay and allowances).

## PERMANENT COMMISSION

Lieutenant to be Captain

T S Sachdeva (V-356)—16-7-85 with seniority in that rank wef 3-9-81.

Surinder Singh (V-368)—10-4-84 with seniority in that rank wef 3-9-81.

P S Narwal (V-358)—17-7-84 with seniority in that rank wef 3-9-81.

## Infantry

The Sikh Regiment

To be Nb Sub

Hav Sansar Singh (3370594Y now JC-175039H), 1st Nov 1987.

(To be Nb Sub Clerk)

Hav Clk Kirpal Singh (3364690X now JC-175040X), 6th Apr 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 26 Mar 88 without effect on pay and allowances).

## LADAKH SCOUTS

To be Nb Sub

Hav Nawang Rigzin (9920975M now JC-175131F), 01 Jan 87.

Hav Hamid Khan (9920763F now JC-175132K), 15 May 87.\*

Hav Chhering Dorje (9920991K now JC-175133M), 01 June 87.

Hav Chhewang Nurbu (9920368N now JC-175134P), 01 June 87.

Hav Chhering Angdus (9920579W now JC-175135X), 13 Feb 88.@

Hav Mutup Gialchan (9920874Y now JC-175136A), 13 Feb 88.@

Hav Chhering Angchok (9920976P now JC-175137H), 28 Oct 87.

Hav Kunga Namgial (9920587P now JC-175138L), 28 Oct 87.

Hav Chhering Mutup (9920990F now JC-175139N), 28 Oct 87.

Hav Kunga Norphel (9921077A now JC-175140H), 28 Oct 87.

Hav Chhering Angchok (9921390L now JC-175141L), 05 Mar 88.@

Hav Chhering Mutup (9921290A now JC-175142N), 05 Mar 88.@

Hav Chherian Angchoak (9921192A now JC-175143W), 28 Oct 87.

Hav Tashi Dorje (9921325L now JC-175144Y), 28 Oct 87.

Hav Chhering Mutup (9921337A now JC-175145F), 28 Oct 87.

Hav Chhewang Phunchok (9921366P now JC-175146K), 28 Oct 87.

Hav Lobzang Chhephel (9921387L now JC-175147M), 01 Nov 87.

Hav Maraj Ull Din (9920667M now JC-175148P), 01 Dec 87.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 87 without effect on pay and allowances).

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Oct 87 without effect on pay and allowances).

(To be Nb Sub Clerk)

Hav Clk Parkash Chand Miradh (9920983L now JC-175149X), 31 July 87.\*

Hav Clk Ghulam Ali Mir (15733032P now JC-175150M), 12 Sep 87.

Hav Clk Parna Nand Sharma (9079824P now JC-175151-P), 10 Oct 87.@

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 19 Jul 87 without effect on pay and allowances).

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 6 Oct 87 without effect on pay and allowances).

## Infantry

1 GR

(To be Nb Sub Clerk)

Hav Clk Sant Singh (No. 5037766W now JC-175152X), 1st Apr 1988.

## The Punjab Regiment

To be Nb Sub

Hav Surinder Singh (No 2464405M now JC-174910X), 01st Sep 1987.

Hav Satnam Singh (No 2465815P now JC-174911A), 01st Sep 1987.

Hav Balbir Singh (No 2458424F now JC-174912H), 01 Nov 1987.

(Gtd ante date seniority wef 01 Sep 87 without effect on pay and allowances).

Hav Pritam Singh (No 2461183X now JC-174913L), 01st Nov 1987.

Hav Dalip Singh (No. 2460063M now JC-174914N), 08th Nov 1987.

Hav Jaswant Singh Rana (No 2459085Y now JC-174915-W), 10th Nov 1987.

Hav Gurnam Singh (No 2458436W now JC-174916Y), 04th Dec 1987.

Hav Ram Rattan (No 2454458X now JC-174917F), 15th Dec 1987.

Hav Dhian Singh (No 2460035A now JC-174918K), 19th Dec 1987.

Hav Kishori Lal (No 2453950W now JC-174919M), 31st Dec 1987.

Hav Yog Raj (No 2457979W now JC-174920F), 01st Jan 1988.

Hav Jagdev Singh (No 2461211Y now JC-174921K), 01st Jan 1988.

Hav Hem Raj (No 2458554K now JC-174922M), 12th Jan 1988.

Hav Bachan Lal (No 2456679H now JC-174923P), 19th Jan 1988.

Hav Amin Chand (No 2456115A now JC-174924X), 20th Jan 1988.

Hav Balwinder Singh (No 2462179F now JC-174925A), 20th Jan 1988.

Hav Sohan Singh (No 2459607K now JC-174926H), 23th Jan 1988.

Hav Harbans Singh (No 2458851X now JC-174927L), 25th Jan 1988.

Hav Gurnam Singh (No 2460762X now JC-174928N), 01st Feb 1988.

Hav Hawa Singh (No 2464309X now JC-174929W), 01st Feb 1988.

Hav Tarsem Singh (No 2460946W now JC-174930L), 01st Feb 1988.

Hav Tarsem Lal (No. 2456006N now JC-174931N), 05th Feb 1988.

Hav Sunil Patil (No 2459805P now JC-174932W), 05th Feb 1988.

(Gtd ante date seniority wef 24 Oct 87 without effect on pay and allces).

Hav Govind Ram (No 2459655K now JC-174933Y), 06th Feb 1988.

(Gtd ante date seniority wef 07 Nov 87 without effect on pay and allces).

Hav Hardev Singh (No 2457573H now JC-174934F), 14th Feb 1988.

(Gtd ante date of seniority wef 23 Jan 88 without effect on pay and allces.)

Hav Hardev Singh Saudhu (No 2460155Y now JC-174935-K), 15th Feb 1988.

(Gtd ante date seniority wef 21 Nov 87 without effect on pay and allces).

Hav Tarsem Singh (No 2465464L now JC-174936M), 16th Feb 1988.

(Gtd ante date seniority wef 01 Oct 87 without effect on pay and allces).

Hav Multan Singh (No 2457645F now JC-174937P), 01st Mar 1988.

(To be Nb Sub Clerk)

Hav (Clk) Nanak Chand Sharma (No 2457962H now JC-174938X), 04th Nov 1987.

(Gtd ante date seniority wef 01 Nov 87 without effect on pay & allces).

Hav (Clk) Jagdish Chand Rajput (No 2458483N now JC-174939A), 01st Jan 1988.

Hav (Clk) Surjit Singh (No 2457640H now JC-174940P), 17th Feb 1988.

Hav (Clk) Lal Singh (No 2457662F now JC-174941), 17th Feb 1988.

Hav (Clk) Kehar Singh Rana (No. 2458482L now JC-174942), 09th Mar 1988.

The Parachute Regiment

To be Nb Sub

Hav Gurmail Singh (No 13606196M now JC-174909H) 1st Mar 1988.

The Sikh Regiment

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Surjit Singh (3364945M now JC-175041A) 01 Apr 1988.

Hav Clk Joginder Singh (3365097L now JC-175042H) 01 Apr 1988.

The Sikh L I

To be Nb Sub (GD)

Hav Inderjit Singh (No 4453539X now JC-175043L) 11th Feb 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 26th July 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Jagtar Singh Mehra (No 4453642H now JC-175044 N) 5th Nov 1987.

Hav Darshan Singh (No 4452717H now JC-175045W) 5th Nov 1987.

Hav Jagtar Singh (No 4453097K now JC-175046Y) 6th Dec 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 5th Nov 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Gurnek Singh (No 4451884M now JC-175047F) 14th Dec 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 5th Nov 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Parkash Singh (No 4454458K now JC-175048-K) 6th Nov 1987.

Hav Joginder Singh (No 4450285A now JC-175049M) 1st Jan 1988.

Hav Darshan Singh (No 4450590M now JC-175050F) 1st Jan 1988.

Hav Gurdev Singh (No 4450437W now JC-175051K) 1st Jan 1988.

Hav Babu Singh Bhatti (No 4453640X now JC-175052-M) 1st Jan 1988

Hav Sucha Singh (No 4453381A now JC-175053P) 1st Jan 1988.

Hav Puran Singh (No 4452807K now JC-175054X) 1st Jan 1988.

Hav Balwinder Singh (No 4450214Y now JC-175055A) 1st Jan 1988.

Hav Karam Singh (No 4453378A now JC-175056H) 1st Jan 1988.

Hav Karam Singh (No 4454060P now JC-175057L) 1st Jan 1988.

The Dogra Regt

To be Nb Sub

Hav Gandhi Ram (No 3968482X now JC-175058N) 13th Dec 1987.

Hav Bakdev Singh Verma (No 3962909A now JC-175059-W) 30th Jan 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Singh (No 3963111L now JC-175060L) 1st Jan 1988.

Hav Bishamber Singh (No 3963591M now JC-175061N) 13th Feb 1988.\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Chand (No 3965625F now JC-175062W) 12th Feb 1988.

Hav Jagdev Singh Pathania (No 3967311Y now JC-175063Y) 11th Mar 1988.

Hav Ran Singh (No 3967591X now JC-175064F) 1st Apr 1988.

The Garhwal Rifles

To be Nb Sub

Hav Prem Singh (No 4051774K now JC-175065K) 22nd Nov 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11th Nov 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Rajpal Singh Negi (No 4051993L now JC-175066 M) 1st Dec 1987.

Hav Madan Singh (No 4054039Y now JC-175067P) 4th Dec 1987.

Hav Rajendra Singh (No 4050846W now JC-175068X) 18th Dec 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 5th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Gaje Singh (No 4046679N now JC-175069A) 8th Dec 1987.

Hav Jagmohan Singh (No 4055411X now JC-175070P) 17th Dec 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 8th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Darshan Singh (No 4051383Y now JC-175071X) 1st Jan 1988.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14th Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Singh Rawat (No 4049591P now JC-175072A) 31st Dec 1987.

Hav Mohan Singh Negi (No 4048964L now JC-175073H) 1st Jan 1988.

Hav Gambhir Singh Bisht (No 4050196N now JC-175074L) 1st Jan 1988.

Hav Dilwar Singh Chaudhari (No 4055113F now JC-175075N) 2nd Jan 1988.

Hav Mahesh Nand Dhyani (No 4052197P now JC-175076W) 2nd Jan 1988.

Hav Hans Ram Maindoli (No 4052996L now JC-175077Y) 2nd Jan 1988.

Hav Shiva Nand Sharma (No 4051595K now JC-175078F) 2nd Jan 1988.

Hav Raghunath Singh (No 4052274Y now JC-175079K) 2nd Jan 1988.

Hav Sohkar Singh (No 4048408P now JC-175080Y) 11th Feb 1988.

Hav Prem Singh (No 4046040P now JC-175081F) 18th Feb 1988.

Hav Khushal Singh Bisht (No 4049312Y now JC-175082K) 1st Mar 1988.

#### The Jat Regt

To be Nb Sub

Hav Rup Chand (No 3162926L now JC-175019P) 5th July 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st July 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Hari Singh (No 3158829K now JC-175020K) 1st Oct 1987.

Hav Birbal Singh (No 3159157P now JC-175021M) 4th Dec 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1987 with effect on pay and allowances).

Hav Bihari Lal (No 3158198M now JC-175022P) 1st Nov 1987.

Hav Zile Singh (No 3159405A now JC-175023X) 1st Nov 1987.

Hav Satyavir Singh (No 3165588X now JC-175024A) 18th Dec 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Ishwar Singh (No 3154779M now JC-175025H) 27th Jan 1988.

Hav Dharam Pal (No 3154784X now JC-175026L) 1st Feb 1988.

Hav Kamal Singh Chaudhary (No 3162617W now JC-175027N) 18th Mar 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Raghu Raj (No 3161603K now JC-175028W) 12th Feb 1988.

Hav Azad Singh (No 3155849M now JC-175029Y) 1st Mar 1988.

Hav Idal Singh (No 3158366A now JC-175030N) 16th Mar 1988.

Hav Sumer Singh (No 3162321X now JC-175031W) 16th Mar 1988.

Hav Hoshiar Singh (No 3158084F now JC-175032Y) 25th Mar 1988.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Jagdish Prasad (No 3157801X now JC-175033F) 10th Nov 1987.

Hav Clk Jainarain Singh Punia (No 3158058A now JC-175034K) 1st Jan 1988.

Hav Clk Mani Ram Verma (No 3159047A now JC-175035M) 1st Mar 1988.

Hav Clk Amar Chand (No 3159163H now JC-175036P) 1st Mar 1988.

Hav Clk Bhanwar Singh Tanwar (No 3158277F now JC-175037X) 1st Mar 1988.

Hav Clk Amar Singh Jhajharia (No 3159280N now JC-175038A) 15th Mar 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 1st Mar 1988 without effect on pay and allowances).

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Manoharan Pillai KK (No 2575290Y now JC-174985P) 1st Mar 1988.

Hav Karthiyaniamma Krishna Pillai (No 2567956X now JC-174986X) 1st Mar 1988.

Hav Muthusamy A (No 2569192H now JC-174987A) 1st Mar 1988.

Hav Giriajje Gowda (No 13855170L now JC-174988H) 1st Mar 1988.

Hav A Abdul Muthalib (No 27509344N now JC-174989L) 1st Mar 1988.

Hav V Ramaraj (No 13854884M now JC-174990A) 1st Mar 1988.

Hav Vijayakumar K (No 2573509K now JC-174991H) 1st Mar 1988.

Hav N Mohanachandran Nair (No 2576434H now JC-174992L) 1st Mar 1988.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) T Themathew (No 2566003H now JC-174993N) 1st Mar 1988.

Hav (Clk) Pullamplavil John Varghese (No 2566326L now JC-174994) 1st Mar 1988.

#### THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Kartar Singh (No 2461603M now JC-174943H) 25th Jul 1987.

Hav Gita Ram (No 2459508F now JC-174994L) 01st Aug 1987.

Hav Chanchal Singh (No 2461925M now JC-174945N) 01st Sep 1987.

Hav Jit Raj Dogra (No 2459892N now JC-174946W) 06th Sep 1987.

(Granted ante date seniority wef 01 Aug 87 without effect on pay and allowances).

Hav Harcharan Singh (No 2453700P now JC-174947Y) 12th Sep 1987.

(Granted ante date of seniority wef 14 Jun 87 without effect on pay and allowances).

Hav Rajpal Singh Sandhu (No 2458551W now JC-174948F) 01st Oct 1987.

(Granted ante date of seniority wef 28 Jan 87 without effect on pay and allowances).

Hav Roshan Lal (No 2453567X now JC-174949K) 01st Nov 1987.

Hav Mansha Ram (No 11035794H now JC-174950Y) 07th Nov 1987.

Hav Raghbir Singh (No 2455194N now JC-174951F) 09th Nov 1987.

Hav Roshan Lal (No 2458044H now JC-174952K) 10th Nov 1987.

(Granted ante date of seniority wef 01 Oct 87 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Singh (No 2462713N now JC-174953M) 13th Nov 1987.

Hav Gurnam Singh (No 2457257K now JC-174954P) 18th Nov 1987.

Hav Mast Ram (No 2458340N now JC-174955X) 22nd Nov 1987.

Hav Surjit Singh (No 13856559L now JC-174956A) 22nd Nov 1987.

Hav Mohinder Singh (No 2458950A now JC-174957H) 01st Dec 1987.

Hav Bhagwan Singh (No 2458246K now JC-174958L) 01st Dec 1987.

Hav Tarnam Singh (No 2460373X now JC-174959N) 01st Dec 1987.

Hav Dalbir Singh (No 2458961M now JC-174960H) 20th Dec 1987.

Hav Sucha Singh (No 2461128F now JC-174961L) 20th Dec 1987.

Hav Kishori Lal (No 2455951X now JC-174962N) 20th Dec 1987.

Hav Thoru Ram (No 2458699P now JC-174963W) 27th Dec 1987.

(Granted ante date of seniority wef 14 Dec 87 without effect on pay and allowances).

Hav Chaman Lal (No 2458260W now JC-174964Y) 27th Dec 1987.

Hav Karam Chand (No 2458273N now JC-174965F) 01st Jan 1988.

Hav Gorkhi Ram ((No 2453722N now JC-174966K) 01st Jan 1988.

Hav Baldev Singh (No 2453316N now JC-174967M) 01st Jan 1988.

(Granted ante date of seniority wef 23 Dec 87 without effect on pay and allowances).

Hav Dalip Singh (No 2453745P now JC-174968P) 01st Jan 1988.

Hav Jagat Singh Chauhan (No 2455255A now JC-174969X) 01st Jan 1988.

Hav Chain Singh (No 2453646M now JC-174970M) 01st Jan 1988.

Hav Dina Nath (No 2462498N now JC-174971P) 01st Jan 1988.

Hav Mangat Ram (No 2458254H now JC-174972X) 01st Jan 1988.

Hav Paras Ram (No 2455801F now JC-174973A) 08th Jan 1988.

Hav Bishan Dass Naryal (No 2455687P now JC-174974H) 08th Jan 1988.

Hav Jagat Ram (No 2457001F now JC-174975L) 09th Jan 1988.

(Granted ante date of seniority wef 01 Jan 88 without effect on pay and allowances).

Hav Nirmal Singh (No 2462987Y now JC-174976N) 19th Jan 1988.

Hav Jagdish Chand (No 2457785N now JC-174977W) 20th Jan 1988.

(Granted ante date of seniority wef 08 Jan 88 without effect on pay and allowances).

Hav Bhekh Raj (No 2463437H) now JC-174978Y) 26th Jan 1988.

To be Naib Subedar (Clerks)

Hav Ck Gurnam Singh (No 2458084K now JC-174979F) 16th Dec 1987.

Hav Ck Balbir Singh Guraya (No 2458092H now JC-174980W) 16th Dec 1987.

Hav Ck Rumal Singh Raina (No 2458161N now JC-174981Y) 16th Dec 1987.

Hav Ck Tara Chand Sharma (No 2458068M now JC-174982F) 28th Dec 1987.

(Granted ante date of seniority wef 01 Nov 87 without effect on pay and allowances).

Hav Ck Som Nath Arora (No 2458070K now JC-174983K) 27th Jan 1988.

(Granted ante date of seniority wef 16 Dec 87 without effect on pay and allowances).

Hav Ck Shankar Dass (No 2454369Y now JC-174984M) 06th Feb 1988.

#### THE SIKH REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Balkar Singh (JC-128950A) 1st Apr 1988.

Nb Sub Ajaib Singh (JC-137050X) 1st March 1988.

Nb Sub Piara Singh (JC-140559P) 1st March 1988.

#### THE RAJ RIF

To be Sub

Nb Sub Shiv Singh (JC-118866M) 1st Feb 1988.

Nb Sub Balbir Singh (JC-118892N) 1st Apr 1988.

Nb Sub Bhim Singh (JC-133397M) 1st June 1988.

Nb Sub Mahender Singh (JC-130596P) 1st June 1988.

Nb Sub Bhola Ram Mann (JC-148404P) 1st June 1988.

Nb Sub Hawa Singh (JC-140665N) 1st June 1988.

Nb Sub Sis Ram (JC-142802A) 1st July 1988.

The Granadiers

To be Subedar Major

Sub Kalyan Singh Shekhawat (JC-93373X) 01 May 1988.

Sub Chandra Singh (JC-82626F) 01 June 1988.

Sub Ranbir Singh (JC-85971A) 01 June 1988.

To be Subedar

Nb Sub Zahir Khan (JC-122250W) 01 May 1988.

Nb Sub Kewal Ram (JC-126574Y) 15 May 1988.

Nb Sub Kehar Singh (JC-111850Y) 01 June 1988.

Nb Sub Amjad Ali (JC-104734N) 01 June 1988.

Nb Sub Shobha Ram (JC-114177N) 01 June 1988.

Nb Sub Ramnik Singh (JC-127503K) 01 June 1988.

Nb Sub Ghisa Ram (JC-145116Y) 01 June 1988.

Nb Sub Mahkar (JC-132401X) 01 June 1988.

Nb Sub Harpal Singh Chauhan (JC-114180N) 01 June 1988.

Nb Sub Dharam Singh (JC-143562A) 01 June 1988.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Ck) Ram Bali Yadav (JC-122249F) 01 June 1988.

Nb Sub (Ck) Kewal Krishan (JC-122247W) 01 June 1988.

Nb Sub (Ck) Puran Chand (JC-122248Y) 01 June 1988.

Nb Sub (Ck) Zile Singh (JC-122255P) 01 June 1988.

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Parameswaran Pillai Sivasankaran Nair (JC-65856Y) 1st June 1988.

Sub Raveendran Nair (JC-84083Y) 1st July 1988.

Sub K Gopala Krishna Pillai (JC-79444H) 1st July 1988

The Parachute Regiment

To be Subedar Major

Sub Karan Singh (JC-78379F) 1st June 1988.

To be Subedar

Nb Sub Pancham Singh (JC-136934X) 1st Feb. 1988.

Nb Sub Khushal Singh (JC-140517H) 1st Apr 1988.

MALINI THADANI, Under Secy.

To be Nb Sub

BHM Cheekanda Thimmaiah Monnappa (No. 1258205A Now IC-176234M), 01st Apr 1987.

Hav Baldev Singh (No. 1292871X Now JC-176235P), 02nd Nov\* 1987.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 13th Apr 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Deena Nath Singh (No. 1266327Y Now JC-176236X) 01st May 1987.

BHM Makhan Singh (No. 1284440W Now JC-176237A), 07th Nov\* 1987.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st May 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Nihal (No. 14308073W Now JC-176238H), 03rd Aug 1987.

Hav Pyare Lal (No. 1241965M Now JC-176239L), 14th Sep\* 1987.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Sep 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Ayodhya Bux Singh (No. 1245632X now JC-176240-A), 28th Oct\* 1987.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 21st Sep 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Amar Singh (No. 1233650N Now JC-176241H), 05th Dec\* 1987.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Oct 1987 without effect on pay and allowances).

BHM Gajan Singh (No. 1239099X Now JC-176242L), 09th Oct 1987.

BHM Shayam Singh (No. 1232937Y Now JC-176243N), 30th Dec\* 1987.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Nov 1987 without effect on pay and allowances).

BHM Gopalakrishnan K (No. 14321769A Now JC-176244-W), 01st Nov 1987.

BQMH Katarak Pratap Jagannath (No. 1258771A Now JC-176245Y), 01st Nov 1987.

BHM Dharam Chand (No. 1283535K Now JC-176246F), 17th Nov 1987.

Hav Shakti Chand (No. 1285717W Now JC-176247K), 12th Dec 1987.

Hav Janak Singh (No. 1295667K Now JC-176248M), 01st Dec 1987.

BHM Pal Singh (No. 1232669A Now JC-176249P), 17th Jan\* 1988.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Chhatu Singh (No. 1251656X now JC-176250K), 11th Mar\* 1988.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Piar Singh (No. 1235627Y Now JC-176251M), 19th Jan\* 1988.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 31st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

RHM Behari Lal (No. 1253109F Now JC-176252P), 16th Feb\* 1988.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 31st Dec 1987 without effect on pay and allowances).

BHM Kirpal Singh (No. 1284846K Now JC-176253X), 01st Jan 1988.

Hav Indra Bahadur Gurung (No. 1258936N Now JC-176254A), 05th Mar\* 1988.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Jan 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Gulab Singh Bhadoria (No. 1248727H Now JC-176255H), 15th Feb\* 1988.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Jan 1988 without effect on pay and allowances).

RHM Rajendra Singh (No. 1240143H Now JC-176256L), 05th Jan 1988.

Hav Jarnail Singh (No. 1235331A Now JC-176257N), 01st Feb 1988.

Hav Sat Pal (No. 1236555M Now JC-176258W), 01st Feb 1988.

Hav Basavanthappa Tirakannavar (No. 1259586Y Now JC-176259Y), 05th Feb 1988.

Hav Ramji Lal (No. 1257071A Now JC-176260N), 15th Feb 1988.

Hav Harbhajan Singh (No. 14305573H Now JC-176261-W), 01st Mar 1988.

BHM Ram Nivas Gilyavl (No. 1243957M Now JC-176262-Y), 01st Mar 1988.

BHM Amarjit Singh (No. 1236734M Now JC-176263F), 01 Mar 1988.

BHM Bodh Raj (No. 1233059A Now JC-176264K), 01st Mar 1988.

BHM Shatrughan (No. 1298262K Now JC-176265M), 01st Mar 1988.

Hav Baldev Singh (No. 1294397N Now JC-176266P), 01st Mar 1988.

Hav Vikram Singh (No. 3971141X Now JC-176267X), 01st Mar 1988.

Hav Baban Singh (No. 14316027W Now JC-176268A), 01st Mar 1988.

Hav Narendra Sinha (No. 1263261H Now JC-176269H), 01st Mar 1988.

BHM Tul Bahadur Rana (No. 5444739H Now JC-176270-X), 01st Mar 1988.

BHM Ram Bodh Sharma (No. 1249638W Now JC-176271-A), 05th Mar 1988.

Hav Lal Pratap Singh (No. 1290003 M Now JC-176272-H), 06th Mar 1988.

Hav Bikkar Singh (No. 1242837F Now JC-176273L), 09th Mar 1988.

Hav Pritam Singh (No. 14323368K Now JC-176274N), 17th Mar 1988.

Hav Ram Singh (No. 1287805L Now JC-176275W), 22nd Mar 1988.



BHM Devi Dass (No. 1233263Y Now JC-176276Y),  
23rd Mar 1988.

**TERRITORIAL ARMY**  
(Territorial Commission)

Lt to be Capt

Phool Singh Vimal (TA-41462), Engrs, 04 Jun 85.

H. D. SINHA, Under Secy.

**Brigade of The Guards**  
To be Nb Sub

Hav Rajinder Singh (No. 13667792P now JC-174894L),  
25th Dec 1987.

Hav Jagwandan Singh (No. 13667062K now JC-  
1748945L), 25th Dec 1987.

Hav Kapur Singh (No. 13666155M now JC-174896W),  
1st Jan 1988.

Hav Dan Singh (No. 13664043N now JC-174897Y),  
23rd Jan 1988.

Hav Sanam Rai (No. 13664901L now JC-174898I), 23rd  
Jan 1988.

Hav Mohan Singh (No. 13665596W now JC-174899K),  
23rd Feb 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08  
Feb 88 without effect on pay and allowances).

Hav Jagar Singh (No. 1366655K now JC-174900N), 16th  
Feb 1988.

Hav Faqir Singh (No. 13663826A now JC-174901W),  
7th Mar 1988.\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01  
Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Karani Singh (No. 136667416F now JC-174902Y),  
1st Mar 1988.

Hav Balbir Singh (No. 13667252W now JC-174903F),  
1st Mar 1988.

Hav Rajendra Prasad (No. 13667376L now JC-174904K),  
1st Mar 1988.

Hav Dharam Singh (No. 13667558Y now JC-174905M),  
1st Mar 1988.

**The Parachute Regiment**  
To be Nb Sub

CHM Suraj Bhan (No. 13608578P now JC-174906P),  
2nd Dec 1987.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13  
Nov 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Purn Mal (No. 13608691K now JC-174907X), 1st  
Dec 1987.

Hav Balbir Singh (No. 13604311H now JC-174908A),  
8th Jan 1988.

MALINI THADANI, Under Secy.

**Army Service Corps**  
(Supply)

To be Naib Subedar Clerks GD (SD)

Hav Bhagirath Mal (No. 6644113K now JC-175303L),  
14th Jan 88.\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01  
Jan 88 without effect on pay and allowances).

Hav Basudeo Sharma (No. 6644125A now JC-175304N),  
01 Jan 88.

Hav Palyinder Singh (No. 6644340Y now JC-175305W),  
08 Feb 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01  
Feb 88 without effect on pay and allowances).

Hav Haran Singh (No. 6643332A now JC-175306Y), 12  
Feb 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01  
Feb 88 without effect on pay and allowances).

8—344GI/88

Hav Sheo Nath Singh (No. 6644203M now JC-175307F),  
11 Feb 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01  
Feb 88 without effect on pay and allowances).

Hav Joy Daniel (No. 6643394A now JC-175308K), 12  
Feb 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01  
Feb 88 without effect on pay and allowances).

Hav Bhaskaran Pillai N (No. 6643415L now JC-175309-  
M), 01 Feb 88.

Hav Kollancherry Puthanveetil Rajendran (No. 6643482W  
now JC-175310F), 15 Feb 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01  
Feb 88 without effect on pay and allowances).

Hav Kailash Chand Sharma (No. 6643650K now JC-  
175311K), 29 Feb 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16  
Feb 88 without effect on pay and allowances).

Hav Ajalb Singh (No. 6643751X now JC-175312M)  
01 Apr 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01  
Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Dhan Charan Singh (No. 6643573A now JC-  
175313P), 02 Apr 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01  
Apr 88 without effect on pay and allowances).

Hav Ajit Singh Banvair (No. 6643770H now JC-  
175314X), 01 Apr 88.

Hav Kunnathu Kunjamma Sivankutty Nair (No.  
6643729H now JC-175315A), 01 Apr 88.

Hav Gnanamani Joyamohan (No. 6643740L now JC-  
175316H), 01 Apr 88.

ANIL KUMAR, Under Secy.

**5 GR (FF)**

To be Sub

Nb Sub Om Bahadur Ale (JC-126652L), 1st Jul 1987.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Dhirpal Singh Parmar (JC-117225N), 1st  
Apr 1987.

**8 GR**

To be Sub Maj

Sub Mekh Singh Ghale (JC-83810Y), 1st May 1988.

To be Sub

Nb Sub Jabar Bura (JC- 117241L), 1st Oct 1987.

Nb Sub Om Kumar Pradhan (JC-117234P), 1st Feb  
1988.

Nb Sub Dan Bahadur Gurung (JC-117236A), 1st Feb  
1988.

Nb Sub Purna Bahadur Bura (JC-117237H), 1st Mar  
1988.

**JAK LI**

To be Subedar (Clerks)

Nb Sub (Clk) Birbal Sharma (JC-129502Y), 01 Jan  
1988.

Nb Sub (Clk) Chaman Lal Bhat (JC-91980X), 01 Jul  
1987.

**The MARATHA LI**

To be Nb Sub

Hav MD Mazar MD Umar (No. 13857268X now JC-  
175004M), 6th Apr 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 31st Jan 1988 without effect on pay and allow-  
ances)

Hav Rajaram Mahadeo Kadam (No. 2760717K now JC-  
175005P), 23rd Mar 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 1st Feb 1988 without effect on pay and allowances).

Hav AC Achappa (No. 2768280W now JC-175006X), 1st Mar 1988.

Hav Ganpat Padwal (No. 2763508X now JC-175007A), 14th Mar 1988.\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10th Mar 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Harishchandra Kadam (No. 2760807L now JC-175008H), 11th Mar 1988.

Hav Mamrej Khan (No. 2861470P now JC-175009L), 19th July 1987.\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20th May 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Hanuman Singh (No. 2861716H now JC-175010A), 4th Dec 1987.

Hav Sukhi Ram (No. 2853765A now JC-175011H), 1st Feb 1988.

Hav Ved Parkash Dudy (No. 2862048K now JC-175012-L), 21st Feb 1988.

Hav Ishwar Singh (No. 2864715L now JC-175013N), 26th Feb 1988.

Hav Shri Chand (No. 2862639L now JC-175014W), 28th Feb 1988.

Hav Udai Bhan Singh (No. 2867613A now JC-175015Y), 1st Mar 1988.

Hav Parash Singh Mahecha (No. 2869269Y now JC-175016F), 17th Mar 1988.

Hav Bhanwar Singh (No. 2862769N now JC-175017K), 28th Mar 1988.

Hav Moti Singh (No. 2861556N now JC-175018M), 8th Apr 1988.

CHM Rajbir Singh (No. 2664394P now JC-174995Y), 6th Apr 1987.

CHM Bad Shah (No. 2659848X now JC-174996F), 1st Sep 1987.

CHM Jagpal Singh (No. 2666224K now JC-174997K), 1st Sep 1987.

Hav Hem Raj (No. 2658752Y now JC-174998M), 2nd Sep 1987.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Aug 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Sudesh Kumar (No. 2662989N now JC-174999P), 11th Sep 1987.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 4th Aug 1987 without effect on pay and allowances).

Hav Ganpat Ram (No. 2658670W now JC-175000W), 18th Sep 1987.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Ram Pat (No. 2654616L now JC-175001Y), 2nd Apr 1987.

Hav (Clk) Sanjhi Ram Saini (No. 26654890H now JC-175002K), 2nd Apr 1987.

Hav (Clk) Banwari Lal (No. 2654589M now JC-175003K), 1st May 1987.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk wef 2nd Apr 1987 without effect on pay and allowances).

MOLINI THADANI, Under Secy.

#### TERRITORIAL ARMY

Infantry

105 Inf Bn (TA)

To be Sub

Nb Sub Rajender Prasad Dabas (TJ-28766A), 05 Aug 1988.

124 Inf Bn (TA)

To be Sub

Nb Sub Mahendra Singh (TJ-2809M), 05 Aug 1988.

Nb Sub RS Dahiya (TJ-2902N), 05 Aug 1988.

Engineers

To be Sub

970 HQ Rly Engrs (TA)

Nb Sub PK Ahire (TJ-2367), 22 May 1987.

Nb Sub HC Bhardwaj (TJ-2040), 01 Oct 1988.

H. D. SINHA, Under Secy.

The Bihar Regt

To be Subedar

Nb Sub Jaj Yadav (JC-108420K), 16th Nov 1987.

Nb Sub Paikash Tirkey (JC-114001H), 1st May 1988.

Nb Sub Singrain Sundi (JC-112726K), 1st May 1988.

Nb Sub Manjhi Soren (JC-125181W), 1st May 1988.

JAK LI

To be Subedar Major

Sub Balbahadur Singh (JC-91972Y) wef 01 Mar 88.

Sub Khema Nand (JC-91961M) wef 01 Apr 88.

Sub Waryam Chand (JC-91986Y) wef 01 Apr 88.

Nb Sub Tarlok Nath Sharma (JC-127262P) wef 01 Mar 88.

The Garhwal Rifles

To be Subedar Maj.

Sub Birendra Prasad (JC-82789P), 1st Nov 1987.

Sub Bishambhar Singh (JC-79871Y), 1st Dec 1987.

Sub Sudan Singh Aswal (JC-85089M), 1st Dec 1987.

To be Sub

Nb Sub Satya Singh (JC-130609F), 31 Aug 1987.

Nb Sub Rajendar Singh (JC-112774K), 1st Sep 1987.

Nb Sub Matber Singh Rawat (JC-108938X), 1st Sep 1987.

Nb Sub Sher Singh (JC-125287H), 1st Oct 1987.

Nb Sub Tajbar Singh Rawat (JC-124600W), 22 Oct 1987.

Nb Sub Fagmohan Singh (JC-118902M), 31st Oct 1987.

Nb Sub Prem Singh Rawat (JC-124598K), 1st Nov 1987.

Nb Sub Jit Singh (JC-130839P), 12 Nov 1987.

Nb Sub Jawala Singh (JC-118932K), 28 Nov 1987.

Nb Sub Shiv Singh (JC-125279K), 1st Dec 1987.

Nb Sub Bhupal Singh Kandari (JC-125268X), 1st Dec 1987.

Nb Sub Ranjit Singh (JC-118916M), 1st Dec 1987.

Nb Sub Jagjit Singh (JC-112888P), 2nd Dec 1987.

Nb Sub Surendra Prasad (JC-115819N), 13th Dec 1987.

Nb Sub Dilip Singh (JC-116274X), 31 Dec 1987.

Nb Sub Nandan Singh (JC-111833Y), 1st Jan 1988.

Nb Sub Kunwar Singh Bisht (JC-118922A), 1st Jan 1988.

Nb Sub Tirath Singh (JC-128388F), 1st Jan 1988.

Nb Sub Bachan Singh (JC-119710F), 1st Jan 1988.

Nb Sub Bachan Singh (JC-127320N), 1st Jan 1988.

Nb Sub Chandhi Prasad (JC-127321W), 1st Jan 1988.

Nb Sub Pratap Singh (JC-130840K), 1st Jan 1988.

Nb Sub Nasib Ram (JC-100596A), 1st Feb 1988.

Nb Sub Meharwan Singh Siranwal (JC-112769Y), 1st Feb 1988.

Nb Sub Umrao Singh Gusain (JC-112773F), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Bhagat Singh (JC-112776P), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Hukam Singh (JC-112779H), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Govind Singh Kunwar (JC-118903P), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Jagdish Prasad Dhyani (JC-115822K), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Prem Lal Singh (JC-118920P), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Rameshwar Prasad Joshi (JC-118923H), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Darshan Singh (JC-118925W), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Chandra Singh (JC-117299H), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Sabar Singh Negi (JC-124602F), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Govind Singh Gusain (JC-118927Y), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Gopal Singh (JC-125290H), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Ranjit Singh (JC-122159A), 6th Feb 1988.  
 Nb Sub Govind Singh (JC-124605P), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Raghubir Singh Rawat (JC-125283M), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Kanhaiya Lal (JC-125284P), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Chait Singh Bhandari (JC-125295F), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Umed Singh Negi (JC-125285X), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Bansi Singh Rana (JC-125296K), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Gambhir Singh Rawat (JC-125270P), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Autar Singh (JC-125298P), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Birendar Singh (JC-128396A), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Budhi Ram (JC-128397H), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Harendar Singh (JC-128939F), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Laxman Singh (JC-127322Y), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Balwant Singh (JC-129467H), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Bhagwan Singh (JC-128400X), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Dhanvir Singh (JC-132131N), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Indra Singh (JC-128384L), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Mahipal Singh (JC-128385N), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Tilochan Prasad (JC-128389K), 1st Mar 1988.  
 Nb Sub Dalbir Singh Gusain (JC-130841M), 1st Mar 1988.

## To be Sub Maj (Clerk)

Sub Sachida Nand Pokhriyal (JC-86589W), 1st Feb 1988.

## The Sikh LI

## To be Sub (GD)

Nb Sub Jarnail Singh (JC-124691L), 10th Nov 1987.  
 Nb Sub Ram Singh (JC-117724H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Gurmit Singh (JC-121904H), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Piara Singh (JC-101494W), 1st Feb 1987.  
 Nb Sub Sarwan Singh (JC-117762Y), 1st Apr 1987.  
 Nb Sub Hakam Singh (JC-117765M), 1st Apr 1987.  
 Nb Sub Jagir Singh (JC-117766P), 1st Apr 1987.  
 Nb Sub Amarjit Singh (JC-117725L), 1st Apr 1987.  
 Nb Sub Dara Singh (JC-117767X), 26th June 1987.  
 Nb Sub Karnail Singh (JC-125253P), 31st Oct 1987.  
 Nb Sub Gobind Singh (JC-102091H), 1st Dec 1987.  
 Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-102094W), 1st Apr 1988.  
 Nb Sub Bant Singh (JC-108459W), 1st Apr 1988.

Nb Sub Shiam Singh (JC-117764K), 1st Apr 1987.  
 Nb Sub Resham Singh (JC-110933X), 1st Apr 1987.  
 Nb Sub Ujagar Singh (JC-114099F), 16th July 1987.  
 Nb Sub Nazar Singh (JC-107802F), 5th Sep 1987.  
 Nb Sub Kaur Singh (JC-107803K), 14th Nov 1987.  
 Nb Sub Surjit Singh (JC-108601P), 1st Dec 1987.  
 Nb Sub Naurang Singh (JC-108460L), 4th Dec 1987.  
 Nb Sub Daulat Singh (JC-109142N), 29th Jan 1988.  
 Nb Sub Gurnam Singh (JC-120144Y), 1st Feb 1988.  
 Nb Sub Nahar Singh (JC-127417Y), 1st May 1988.  
 Nb Sub Balbir Singh (JC-125314N), 1st June 1988.  
 Nb Sub Gajjan Singh (JC-125315K), 1st June 1988.  
 Nb Sub Mohinder Singh (JC-125317P), 1st June 1988.  
 Nb Sub Gurbant Singh (JC-132553Y), 1st June 1988.

No. 1813, dated 21st October 1988.—The President is pleased to make the following appointments:—

## TERRITORIAL ARMY

## Infantry

## To be Nb Sub

Shyamal Kumar Bhattacharjee (TJ-3063), 01 Jan 1986.  
 Shaikh Babasaheb Walisaheb (TJ-3064), 05 Apr 1986.  
 Prem Ballabh Pandey (TJ-3065), 12 Jul 1986.  
 Ram Prayojan Yadav (TJ-3066), 16 Jul 1986.  
 Jai Ram Ram (TJ-3067), 16 Jul 1986.  
 Durga Prasad Yadav (TJ-3068), 16 Jul 1986.  
 Simanchal Panda (TJ-3069), 16 Jul 1986.  
 Viragouda Ramagouda Patil (TJ-3070), 15 Sep 1986.  
 Shivaji Jadhav (TJ-3071), 15 Sep 1986.  
 Babasaheb Imamsaheb Desaid (TJ-3072), 15 Sep 1986.  
 Sampath Rao (TJ-3073), 25 Sep 1986.  
 Ranjit Singh (TJ-3074), 02 Oct 1986.  
 Harish Chandra Mohanta (TJ-3075), 01 Jan 1987.  
 Jose MP (TJ-3111), 01 Feb 1987.  
 Naresh Chand (TJ-3115), 22 Aug 1987.  
 Sat Pal (TJ-3117), 01 Jan 1987.  
 Kaman Singh Gurung (TJ-3118), 25 Mar 1987.  
 A Krishna Moorthy (TJ-3119), 01 Jun 1987.  
 Janardhanan Tunery (TJ-3120), 01 Jun 1987.  
 Adhir Kumar DE (TJ-3121), 01 Jun 1987.  
 Gurbachan Singh (TJ-3122), 01 Jan 1988.  
 Tara Chand Verma (TJ-3123), 17 Nov 1987.  
 Suresh Singh Chauhan (TJ-3124), 01 Dec 1987.  
 Rajpal Singh (TJ-3133), 18 Aug 1986.  
 Balbir Singh (TJ-3134), 01 Apr 1987.  
 Harbans Lal (TJ-3135), 01 Apr 1987.  
 Magh Singh (TJ-3136), 01 Apr 1987.  
 Kumud Chandra Saikia (TJ-3137), 01 Apr 1987.  
 Sadashiv Yallappa Madiwalar (TJ-3138), 01 May 1987.  
 Basayya Goudar (TJ-3139), 01 May 1987.  
 Nagappa Bhushi (TJ-3140), 01 May 1987.  
 Maruti Laxmappa Naik (TJ-3141), 01 May 1987.  
 Tamakant Tammannavar (TJ-3142), 01 May 1987.  
 Rathnakar Lakshmanachari (TJ-3143), 01 May 1987.  
 Balasaheb Patil (TJ-3144), 01 May 1987.  
 Jingonda Patil (TJ-3145), 01 May 1987.  
 Maruti Tukaram Koganulkar (TJ-3146), 01 May 1987.  
 Chanamallayya Ghanti (TJ-3147), 01 Jun 1987.

Dilwar Singh (TJ-3148), 31 Oct 1987.  
 Lok Nath Singh Yadav (TJ-3149), 31 Oct 1987.  
 Ayodhya Singh (TJ-3155), 11 Jul 1987.  
 Hara Kumar Mukherjee (TJ-3160), 01 Nov 1987.  
 Indrasan Roy (TJ-3161), 01 Nov 1987.  
 Jagdish Singh (TJ-3162), 01 Nov 1987.  
 Swapan Kumar Dutta (TJ-3164), 01 Nov 1987.  
 P Khelendro Singh (TJ-3165), 21 Dec 1987.  
 Kulwant Singh (TJ-3166), 01 Jan 1988.  
 Amar Nath Singh Yadav (TJ-3167), 14 Jan 1988.  
 Prayag Datt (TJ-3168), 14 Jan 1988.  
 Mohan Bahadur (TJ-3169), 14 Jan 1988.  
 Narendra Ram (TJ-3170), 14 Jan 1988.  
 Sheo Mangal Singh (TJ-3171), 15 Jan 1988.  
 Ratan Das (TJ-3172), 15 Jan 1988.  
 Jagdish Rai (TJ-3173), 01 Feb 1988.  
 Pal Chander (TJ-3174), 01 Feb 1988.  
 Kalwale Pandurang (TJ-3175), 01 Feb 1988.  
 Bhagwan Singh (TJ-3176), 01 Feb 1988.  
 Rajaram Chanderia (TJ-3177), 05 Mar 1988.  
 Mohan Singh (TJ-3178), 01 Apr 1988.  
 Ganga Ram Thakre (TJ-3179), 01 Apr 1988.  
 Laxman (TJ-3180), 01 Apr 1988.  
 Chuna Ram Hudda (TJ-3181), 01 Apr 1988.  
 Dasrath Singh (TJ-3182), 01 Apr 1988.  
 Shri Chand (TJ-3183), 01 Apr 1988.  
 Dharampal Singh (TJ-3184), 01 May 1988.  
 Moni Mohan Singha (TJ-3196), 01 Jan 1988.  
 Maruti Jadhav (TJ-3197), 01 Jan 1988.  
 Chanda Kamble (TJ-3198), 03 Apr 1988.  
 Amrut Belekar (TJ-3199), 03 Apr 1988.  
 Chinta Mani (TJ-3200), 15 May 1988.  
 MI Krishnan (TJ-3201), 01 Jun 1988.  
 Ram Chander (TJ-3202), 01 Aug 1988.

#### Engineers

To be Nb Sub

Daulat Ram (TJ-3076), 06 Nov 1986.  
 L Ramakrishnan (TJ-3077), 20 Jan 1987.  
 M Rajamanickam (TJ-3078), 20 Jan 1987.  
 K Venkata Narayanan (TJ-3079), 20 Jan 1987.  
 M Paramasivam (TJ-3080), 20 Jan 1987.  
 S. Lakshmi Narayanan (TJ-3081), 20 Jan 1987.  
 B Sriramulu (TJ-3082), 20 Jan 1987.  
 D Krishnamoorthy (TJ-3083), 20 Jan 1987.  
 CB Narasanna (TJ-3084), 20 Jan 1987.  
 VE Pandey (TJ-3112), 01 Jan 1987.  
 PJ Thomas (TJ-3113), 01 Jan 1987.  
 Dinesh Kumar Pandey (TJ-3114), 01 Jan 1987.  
 MC Purty (TJ-3116), 19 Dec 1986.  
 SL Pate (TJ-3150), 18 Oct 1984.  
 KC Dayalwal (TJ-3151), 18 Oct 1984.  
 NV Sawarkar (TJ-3152), 18 Oct 1984.  
 P Selvaraj (TJ-3153), 20 Oct 1987.  
 A Durairaj (TJ-3154), 20 Oct 1987.  
 Tapash Kumar Ghosh (TJ-3156), 15 Nov 1987.  
 R Ramaiah (TJ-3185), 15 Mar 1988.  
 Netra Pal Singh (TJ-3186), 11 Jul 1988.  
 Surja Ram (TJ-3187), 11 Jul 1988.

Ashwani Kumar Mehta (TJ-3188), 11 Jul 1988.  
 Vijai Chandra Srivastava (TJ-3189), 11 Jul 1988.  
 Prem Lal Mehra (TJ-3190), 11 Jul 1988.  
 Chaturi Lal Rathore (TJ-3191), 11 Jul 1988.  
 Vijai Pal Singh (TJ-3203), 11 Jul 1988.  
 Sanwar Mal Jangid (TJ-3204), 11 Jul 1988.

#### Medical

To be Nb Sub

Dulal Chandra Dey (TJ-3192), 20 Jun 1988.

No. 1814, dated 21st October 1988.—The undermentioned Ex JCOs are re-employed on the active list in the rank and from the dates specified :—

#### REGULAR ARMY

##### DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major

Subedar Major Kampotar Singh Verma (JC-74389N) Formerly Raj Rifles, 03 Nov 1987.

In the rank of Naib Subedars

Naib Subedar Fateh Singh Sandhu (JC-141059K) Formerly Artillery, 04 May 1987.

Naib Subedar Lal Chand Verma (JC-73356W), Formerly EME, 01 Sep 1987.

Naib Subedar Krishan Singh Manhas (JC-105449F), Formerly Artillery, 01 Sep 1987.

Naib Subedar Karam Chand Sumaria (JC-62865P), Formerly Pioneer Corps, 01 Sep 1987.

Naib Subedar Nafe Singh (JC-82365Y), Formerly The Grenadiers, 04 Sep 1987.

No. 1815, dated 28th October 1988.—The President is pleased to release the undermentioned officer from Territorial Army service on completion of 7 years terms of engagement :—

#### TERRITORIAL ARMY

Territorial Commission

2/Lt Chandra Bhushan Kumar Rao (IA-41626) Engrs, 12 Jun 86 (AN).

2/Lt Mirza Ahsan Murtaza (TA-41620) Engrs, 16 Apr 86 (AN).

Lt Gouranga Mohan Das (TA-41635) Engrs, 30 Aug 86 (AN).

Lt Nagarajan Thyagarajan (TA-41624) Engrs, 12 Jun 86 (AN).

2/Lt Aditya Kumar Kansal (TA-41630) Engrs, 30 Aug 86 (AN).

Lt Chandra Bhan Middha (TA-41554) Engrs, 30 Jun 84 (AN).

2/Lt Sashi Bhushan Malik (TA-41695) Engrs, 07 May 88 (AN).

Lt Anil Madan, TA-41558 Engrs, 30 Jun 84 (AN).

H. D. SINHA, Under Secy.

#### MINISTRY OF DEFENCE

##### RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

##### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICE

No. 1816, dated 26th October 1988.—On attaining the age of superannuation, Shri S. L. Datta, Scientist 'D' of Directorate of Engineering Research & Development Organisation, New Delhi retired from service with effect from 31-8-1988 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 1-9-1988 (FN).

J M B DUBEY, Dy. Director (Pers.)

**DIRECTORATE OF TECHNICAL DEVELOPMENT & PRODUCTION (AIR)**  
**DEFENCE AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE SERVICE**

No. 1817, dated 26th October 1988.—The undermentioned officers of Directorate of Technical Development & Production (Air), Min. of Def., New Delhi, attained the age of superannuation of the dates mentioned against their names :—

1. Shri H. S. Chowdhary, Principal Scientific Officer—30-4-1988 (AN).
2. Shri R. Narayanan, Deputy Chief Scientific Officer—30-6-1988 (AN).
3. Shri H. C. Kapoor, Addl. Director (Director Grade II)—31-7-1988 (AN).
4. Shri Mahesh Chandra, Deputy Chief Scientific Officer—31-7-1988 (AN).

2. These officers were allowed to continue in service upto 31-8-1988 due to Stay Orders issued by Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi in the OAs No. 667/88 & 837/88. The said stay orders have been vacated on 31-8-1988 and hence these officers have been retired on 31-8-1988 (AN). Their service beyond the age of 58 years will be taken into consideration for purpose of other admissible benefits subject to the final results of the case before the Tribunal/Supreme Court.

M. S. CHOPRA, Desk Officer

No. 1818, dated 31st October 1988.—On attaining the age of superannuation Shri N. K. Padmanabhan, Director General of Ordnance Factories/Chairman, Ordnance Factory Board, Calcutta retires from service with effect from the afternoon of 31st October, 1988.

M. L. SAMPATHKUMARAN, Director (P)

No. 1819, dated 17th October 1988.—Consequent on attaining the age of superannuation Shri Kanhiya Prasad DADG (Stores) (Civ.) of office of the DGAFMS serving in Directorate of Standardisation, retired from service with effect from 30 Sep 1988 (AN).

COL. B. B. ROY, ADG (Plng.)

(AIR BRANCH)

No. 1820, dated 21st October 1988.—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

INDIAN AIR FORCE

ADM BRANCH

Sqn Ldr to be substantive Wg Cdr

B S Chauhan (9994), 1-2-86.

His name will appear above Wg Cdr A Saibaba (9996) Adm in the gradation list.

K M DAMODARAN, Asstt. Director of Pers. Officers-2(A)

No. 1821, dated 19th October 1988.—The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (on probation for one year) to the undermentioned under the provisions of Govt. of India, Min. of Def. letter No. Air HQ/18731/16/699/US/D (Air-IV) dated 19 Apr 85. This officer will be eligible for the grant of flying pay with effect from the date of grant of Permanent Commission and Wings (on probation) i.e. 14 Jun 85.

INDIAN AIR FORCE

FLYING 'P' BRANCH

(Ex-Airman cadet to be Pilot Officer)

(682982) AC U/T Oscar Joseph Stephen (17860) Wef 14 Jun 85.

SQN LDR V. BALAGOPALAN, ADPO 3(D)

No. 1822, dated 26th October 1988.—The President is pleased to transfer the undermentioned officer from Flying Navigators Branch to Logistics Branch, in Permanent low medical category, with effect from the date indicated against his name; but with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in Logistics Branch vide Government of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/21901/15000/PO 3(D)/4118/US/D (Air-III) dated 15 Dec 86.

INDIAN AIR FORCE

F(N) BRANCH

Flt Lt K M Gaffar (15000), 18 Jul 86.

No. 1823, dated 16-9-88.—The President is pleased to conform the undermentioned officers, who were granted Permanent Commission (on probation).

INDIAN AIR FORCE

MET XEX Branch

Plt Offr RK Dhindgra (18429); SK Vashis (18425); AK Goel (18424); KR Narayana (18428); S Tyagi (18430); NK Rana (18431); SN Mishra (18427); R Jain (18420); N Sharma (18421); Sanjoy (18418) wef 15 Jun 87.

No. 1824, dated 21st October 1988.—The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned in the rank of Pilot Officer under the provisions of AFIs 20/76, 28/76 and AFI (Corrigendum) 7/78 and 13/81 :—

INDIAN AIR FORCE

EDUCATION BRANCH

(Ex-Airman Cadet to be Pilot Officer)

670074 CPL Gurmeet Singh (19268) wef 19 Dec 87.

No. 1825, dated 21st October 1988.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

Gp Capt to be substantive Air Commodore

D N Rathore, VrC, VSM (5780) F(P), 2-5-87.

Jagbir Singh, VrC (5783) F(P), 2-5-87.

S K Behal, VM (5786) F(P), 2-5-87.

Bharat Kumar, AVSM (5787) F(P), 2-5-87.

K Khanna, VM (5795) F(P), 2-5-87.

D Banerjee (5800) F(P), 2-5-87.

A Brahmawar, VM (5858) F(P), 1-10-87.

A Y Tipnis, VSM (5859) F(P), 1-10-87.

S D Bhise, VM (5924) F(N), 1-10-87.

K B Singh, VM, VSM (5865) F(P), 1-12-87.

D S Dahiya (5856) F(P), 1-12-87.

K R Dutton, VM (5873) F(P), 1-2-88.

K K Babu (5874) F(P), 1-4-88.

K M DAMODARAN, Asstt Director of Personnel (Officers) 2(A)

CORRIGENDUM

No. 1826, dated 31st October 1988.—In the Gazette of India, Gazette No. 1932 dated 09 Sep 1985 (Part I Section 4) under the heading 'REGULAR ARMY'—Permanent Commission and sub-heading 'Majs to be substantive at Cols' against the name of Maj S K Bishnoi (V-256) RVC :—

For Maj S K Bishnoi (V 256) RVC 12 Oct 83.

Read Maj S K Bishnoi (V 256) RVC., 11 Oct 83.

LT COL P. B. PANDE, Asstt. Military Secy.

No. 1827, dated 21st October 1988.—In M of D Notn No. 825 dated 14th Apr 1988 published in the Gazette of India No. 23 dated 04 Jun 1988 under heading 'REGULAR ARMY' Sub heading 'Regiment of Artillery'.

Below 'To be Nb Sub'

For RHM Prabhu Dayal (No. 1251310N now JC-171352-W), 18th Jun 1987\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25th Mar 1987 without effect on pay and allowances)

Read RHM Prabhu Dayal (No. 1251310N now JC-171352W), 18th Jun 1987\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 24th Mar 1987 without effect on pay and allowances)

For Hav Pirthvi Singh (No. 1247440Y now JC-171353-Y), 08th Apr 1987

Read Hav Pirthvi Singh (No. 1247440Y now JC-171353-Y), 08th Apr 1987\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25th Mar 1987 without effect on pay and allowances)

For BHM Bane Singh Yadav (No. 14304849F now JC-171361X), 30th Mar 1987

Read BHM Bane Singh Yadava (No. 14304849F now JC-171361X), 30th Mar 1987

For BHM Jeet Ram (No. 1244286A now JC-171365N), 01st Apr 1987

Read RHM Jeet Ram (No. 1244286A now JC-171365N), 01st Apr 1987

For Hav Hosivar Singh (No. 1251840H now JC-171369-K), 15th Jul 1987\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Jun 1987 without effect on pay and allowances)

Read Hav Hosiyar Singh (No. 1251840H now JC-171369 K), 15th Jul 1987\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Jun 1987 without effect on pay and allowances)

For BHM Gopalkrishan Nair (No. 14304952M now JC-171370Y), 01st Jul 1987

Read BHM Gopalkrishan Nair (No. 14304952M now JC-171371F), 01st Jul 1987

#### CORRIGENDUM

No. 1828, dated 21st October 1988.—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 749/88 dated 27 April 1988 published in Gazette of India dated 28 May 1988 under the heading 'Regular Army' 'Permanent Commission' Substantive Majors to substantive Lt Colonels after the entry : JK Nangpal (IC-16105) Engrs, 01 Jun 1987 :—

'Add' REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

SUBSTANTIVE LT COLONELS TO BE SUBSTANTIVE COLONELS

V. N. AWATI, Under Secy.

The 10th November 1988

No. A-22013/4/84-Estt. I, dated the 10th November 1988.—The President is pleased to appoint Shri Shiv Narain Singh, a permanent Grade 'C' Stenographer of CSSS, in merged grade 'A' & 'B' of the Service in the Finance Division on ad-hoc basis for the period from 1-5-1988 to 24-11-1988 (with a day's break on 9-6-1988 and 8-10-1988), or till a regular officer becomes available or till further orders whichever is earlier.

A. P. KATHURIA, Asstt. Financial Adviser (E)